

**वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली**



क्रम मख्या

काल न०

खण्ड



स्व० कावियर उ० लनरामजीकृत

जैनपदसंग्रह ।

प्रथम भाग ।



मूल्य आठ आने ।

श्रीवीतरागाय नमः ।

जैनपदसंग्रह ।

प्रथम भाग ।

अर्थात्

स्वर्गीय कविवर दौलतरामजीके

१२४ पदोंका संग्रह ।

श्रीयुत पं० पद्मलालजी बाकजीबाबूद्वारा सम्पादित

और

जयपुरमें लेखी द्वारा संशोधित ।

प्रकाशक—

श्रीजैनग्रंथरत्नाकर कार्यालय, जयपुर ।

शांति

॥ भोव ॥

१ चार प
२ मध्य अंशके

मूल्य आठ आने ।

सुदकः—
अनंत बाळरुपण घगवे,
भाँसरस्वनी मुद्रणालय, ७२४ गिरगाँव-बभई ।



प्रकाशकः—
भाँ. नाथूरामजी प्रेमी.
जेन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग,

श्रीवार्तरागाय नमः ।

जैनपदसंग्रह ।

प्रथमभाग ।

१

मङ्गलाचरण स्तुति ।

दोहा ।

सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानंदरसलीन ।
सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरिरजरहसविहीन ॥१॥

पदरिछन्द ।

जय वीतराग विज्ञानपूर । जय मोहतिमिरको
हरन सूर ॥ जय ज्ञान अनंतानंत धार । दृंग-
सुख-वीरज-मंडित अपार ॥ २ ॥ जय परम-
शांतिमुद्रा-समेत । भविजनको निजअनुभूति हेत
॥ भवि-भागन-वश-जोगेवशाय । तुम धुनि है

१ चार चातिया कर्मोसे रहित । २ अनन्तदर्शन अनन्तसुख, अनन्तवीर्य ।
भव्य जनोंके भावसे । ४ मनवचनकायके योगिक कारण ।

सुनि विभ्रम नमाय ॥ ३ ॥ तुम गुन चिंतत निज
 परविवेक । प्रघट्टै विघट्टै आपद अनेक ॥ तुम जग-
 भूषण दूषनवियुक्त । मव महिमायुक्त विकल्पमुक्त
 ॥ ४ ॥ अविरुद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप । परमात्म
 पणमपावन अनूप ॥ शुभअशुभ-विभाव अभाव
 कीन । स्वाभाविकपरमनिमय अर्छान ॥ ५ ॥
 अष्टादशदोषविमुक्त धीर । सुचतुष्टयमव राजत
 गभीर ॥ मुक्ति मन्त्रादि स्वयं महान । स्व-के-
 वललब्ध-रमा धरंत ॥ ६ ॥ तुम ज्ञानन मेव
 अमेयै जैव । शिव रये जाद्वि जेहें मदीव ॥ भव-
 मागरमें दुख स्वाग्दारि । तारनरो और न आप
 टारि ॥ ७ ॥ यह लख निजदुखगैद हरनकाज ।
 तुम ही निमित्तकारन इलाज ॥ जाने, तातें में
 शरन आय । उचरों निजदुख जो चिर लहाय
 ॥ ८ ॥ में भ्रम्यो अपनपो विसर आप । अप-
 नाये विधिफल पुण्यपाप ॥ निजको परको करता
 पिछान । परमें अनिष्टता इष्ट ठान ॥ ९ ॥ आकु-

लित भयो अज्ञान धार । ज्यों मृग मृगतृष्णा
 जान वार ॥ तन-परनतिमें आपौ चितार । कब-
 हं न अनुभवो स्वपद मार ॥ १० ॥ तुमको विन
 जाने, जो कलेश । पाये मो तुम जानत जिनेश ॥
 पशु-नारक-नर-सुरगतिमझार । भव धर धर म-
 रथा अनंत वार ॥ ११ ॥ अब काललब्धिवलते
 दया । तुम दर्शन पाय भयो खुशाल ॥ मन
 शान्त भयो अट्ट लकलदंड । चाख्या म्यातमरम
 दुखानकंद ॥ १२ ॥ ताते अब ऐसी करहु नाथ ।
 विल्लोरे न कभी तुव चरन माथ ॥ तुम गुन-गनको
 नहि छवे देव ! जगतारनको तुम विरद एव
 ॥ १३ ॥ आत्मक अहित विषय-कषाय । इनमें
 मेरी परनति न जाय ॥ मैं रहीं आपमें आपलीन
 । सां करो होंहु ज्यों निजाधीन ॥ १४ ॥ मेरे न
 चाह कछु और ईश । रत्नत्रयनिधि दीजे मुनीश ॥
 मुझ कारजके कारन सु आप । शिव करहु हरहु मम
 मोहताप ॥ १५ ॥ शशि शांतिकरन तपहरन-हेत ।

जैनदर्शनग्रह ।

स्वयमेव तथा तुम कुशल देत ॥ पीवत पियूषज्यो
रोग जाय । त्यो तुम अनुभवतें भव नसाय ॥१६॥
त्रिभुवन तिहुँकालमझार कोय । नहिं तुम विन
निजसुखदाय होय ॥ मां उर यह निश्चय भयो
आज । दुखजलधिउतारन तुम जहाज ॥ १७ ॥

दोहा ।

तुम गुन-गन-मनि गनपेती, गनत न पावहिं पार ।
दौल स्वल्पमति किमि कहै, नमों त्रियोग सँभार १८

२

देखो जी आदीश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया
है । कर ऊपरकर सुभग विराजे, आसन थिर
ठहराया है ॥ देखो जी० ॥ टेक ॥ जगतविभूति
भूतिसम तजकर, निजानंद-पद ध्याया है । सुर-
भिर्त-श्वासा, आशाँ-वासा नासादृष्टि सुहाया है ॥
देखो जी० ॥ १ ॥ कंचनवरन चलै मन रंच न,
सुरांगिर ज्यों थिर थाया है । जास पास अहि

१ गणेशदेव । २ मनवचनकाय । ३ अस्म कैसी । ४ सुगंधित । ५ दिशाकपी
बल-विगम्भरता । ६ कुमेर ।

मोर मृगी हरि, जातिविरोध नशाया है ॥ देखो
जी० ॥ २ ॥ शुद्ध्युपयोग हुताशनमें जिन, वसु-
विधि समिधं जलाया है । श्यामलि अलिकावलि
शिर सोहै, मानों धुआँ उड़ाया है ॥ देखो जी०
॥ ३ ॥ जीवन मरन अलाभ लाभ जिन, तृन
मनिको सम भाया है । सुर-नर-नाग नमहिं पद
जाके, दौल तास जस गाया है ॥ देखो जी०॥४॥

३

जिनवर-आनन-भान निहारत, भ्रमतमघान
नसाया है ॥ जिन० ॥ टेक ॥ वचन-किरन
प्रसरनतैं भविजन, मनसरोज सरसाया है । भव-
दुखकारन सुखविसतारन, कुपथ सुपथ दरसाया
है ॥ जिन० ॥ १ ॥ विनसाई कजं जलसरसाई,
निशिचर सर्पर दुराया है । तस्करें प्रबल कषाय
पलाये, जिन धन बोध चुराया है ॥ जिन० ॥२॥
लखियत उडुं न कुभाव कहूं अब, मोह उलूक

१ छिह । २ होम करनेकी लकड़ियाँ । ३ काई, दूसरे पद्यमें-मज्ञानकी काई ।
४ स्वर-कामदेव । ५ चोर । ६ तारे ।

लजाया है । हंस कोकको शोक नशो निज, परि-
नति चकवी पाया है ॥जिन०॥३॥ कर्मबंधकैजकोष
बंधे चिर, भवि-अलि मुचन पाया है ॥ दौल
उजास निजातम अनुभव, उर जग अंतर छाया
है ॥ जिन० ४ ॥

४

पारस जिन चरन निरख, हरख यों लहायो,
चितवत चंदा चकोर ज्यों प्रमोद पायो ॥ टंक ॥
ज्यों सुन घनघोर शोर, मोरहर्षको न ओरँ, रंक
निधिममाजराज, पाय मुदितथायो ॥ पारस०
॥ १ ॥ ज्यों जन चिरछुंधित होय, भोजन लखि
सुखित होय, भेषज गद-हरन पाय, सरुज सुहरखा-
यो ॥ पारस० ॥ २ ॥ वासर भयो धन्य आज, दुरित
दूर परे भाज, शांतदशा देख महा, मोहतम पलायो
॥ पारस० ॥ ३ ॥ जाके गुन जानन जिम,
भानन भवकानन इम, जान दौल शरन आय,
शिवसुख ललचायो ॥ पारस० ॥ ४ ॥

१ आत्मा । २ चकवा । ३ कर्मबंधकपीकमकोके कोष बंधे हुए थे उनसे ।
४ छोर । ५ बहुतकाळका भूखा । ६ दरई । ७ रोगी ।

५

वंदो अदभुत चन्द्र वीरं जिन, भवि-चकोर-
चित्तहारी ॥ वंदों० ॥ टेक ॥ सिद्धारथनृपकुल-
नभ मंडन, खंडन भ्रमत्तम भारी । परमानंद-
जलधिविस्तारन, पाप-ताप-छयकारी ॥ वंदों०
॥ १ ॥ उदित निरंतर त्रिभुवन अंतर, कीरति
किरण पसारी । दोषमलंककलंकअटंकित, मोहराहु
निरवारी ॥ वंदों० ॥ २ ॥ कर्मावरन-पयाद-अरो-
धित, बोधित शिवमगचारी । गनधरादि मुनि
उडुंगन मेवत, नित पूनमतिथि धारी ॥ वंदों॥३॥
अम्बिल-अलोकाकाश-उलंघन, जासु ज्ञानउजि-
यारी । दौलत मनसा-कुमुदनि-मोदन, जयो चर-
मजगतारी ॥ वंदों० ॥ ४ ॥

६

निरखत जिनचंद्र-वदन, स्वपरसुरुचि आई ।
निरखत० ॥ टेक ॥ प्रगटी निज आनकी, पिछान

१ वंदमानभगवान् । २ दोषा-रात्रि । ३ पापकपी कलंक । ४ कर्मावरण-
रूपी बाधकोंस जो बकता नहीं है । ५ तारागण । ६ मनरूपी कुमोदनीको
दर्शित करनेवाला । ७ अन्तिम तीर्थकर ।

ज्ञान भानकी, कला उदोत होत काम, ज्ञामनी पलाई
 । निरखत० ॥ १ ॥ सास्वत आनंद स्वाद, पायो
 विनस्यो विषाद, आनमें अनिष्ट इष्ट, कल्यान नसाई ॥
 निरखत० ॥ २ ॥ साधी निज साधकी, समाधि
 मोहव्याधिकी, उपाधिको विराधिकै. अराधना
 सुहाई ॥ निरखत० ॥ ३ ॥ घन दिन छिन आज
 सुगुनि, चिते जिनराज अबै, सुधरो सब काज
 दौल, अचल रिद्धि पाई । निरखत० ॥ ४ ॥

७

जबतें आनंद-जननि दृष्टि परी माई । तबतें
 संशय विमोह भरमता विलाई । जबतें० ॥ टेक ॥
 मैं हूं चितचिह्न भिन्न, परतें पर जड़ स्वरूप, दो-
 उनकी एकता सु, जानी दुखदाई । जबतें० ॥ १ ॥
 रागादिक बंधहेत, बंधन बहु विपति देत, संवर
 हित जान तासु, हेतु ज्ञानताई । जबतें० ॥ २ ॥
 सब सुखमय शिव है तसु, कारन विधिझारन
 इमि, तत्त्वकी विचारन जिन, बानि सुधि कराई ।

जबते० ॥ ३ ॥ विषयचाहज्वालते द, -सो अनंत
कालते सु, -घांबुस्यात्पदांकगाह, -ते प्रशांति आई
जबते० ॥ ४ ॥ या विन जगजालमें न, शरन
तीनकालमें सँ, भाल चितभजो सदीव दौल यह
सुहाई । जबते० ॥ ५ ॥

८

भज ऋषिपति ऋषभेश ताहि नित, नमत अमर
असुरा । मनमर्थ-मथ दरसावन शिवपथ, वृष-रथ-च-
ऋधुरा ॥ भज० ॥ टेक ॥ जा प्रभु गर्भछमासपूर्व
सुर, करी सुवर्ण घरा । जन्मत सुरगिर-
घर सुरगनथुत, हरि पय न्हवन करा ॥ भज०
॥ १ ॥ नटत नृत्यकी विलय देख प्रभु, लहि
विराग सु थिरा । तबहि देवर्षि आय नाय शिर
जिनपद पुष्प घरा ॥ भज० ॥ २ ॥ केवलसमय
जास वच-रविने, जगभ्रम-तिमिर हरा । सुदग-
बोधचारित्रपोतं लहि, भवि भवःसिधुतरा ॥ भज०

१ स द्वादशर्षी अमृतसे अचगाहन करनेसे । २ , निनाथ । ३ आदिनाथ ।
४ कामदेवके मयनेवाले । ५ मोक्षपथ । ६ इन्द्र । ७ अचरा । ८ कौकतिकदेव ।
९ मयनकर्षी सूर्यने । १० अज्ञान ।

॥ ३ ॥ योगसँहार निवार शेषविधि, निवसे वसुम-
धरौ । दौलत जे याको जस गावें, ते ह्वैं अज
अमरा ॥ भज० ॥ ४ ॥

९

जगदानंदन जिन अभिनंदन, पदअरविंद नमूं
मैं तेरे । जग० ॥ टेक ॥ अरुनवरन अघतापहरन
वर, वितरन कुशल सु शरन बड़रे । पद्मासदन
मदन-मद-भंजन, रंजन मुनिजनमन-अलिकेरे ॥
जग० ॥ १ ॥ ये गुन मुन में शरनें आयो, मोहि
मोह दुख देत घनेरे । ता मदभार्नन स्वपर-पिछा-
नन, तुमविन आन नारन हरे ॥ जग० ॥ २ ॥
तुम पदशरन गही जिननें ते, जामन-जरा-मरन
निरवरे । तुमतें विमुख भये शठ तिनको, चहुं-
गति विपतमहाविधि पेरे ॥ जग० ॥ ३ ॥ तुमरे
अमित सुगुनज्ञानादिक, सतत मुदित गनराज
उंगेरे । लहत न मित मैं पतित कहां किम, किन

१ शेषके चार अष्टातिकर्म । २ आठवीं पृथ्वी अर्थात् मोक्ष । ३ लक्ष्मीके घर ।
४ मदका नाश करनेके लिये । ५ गाये । ६ पापी ।

शशकन गिरिराज उखरे ॥ जग ॥४॥ तुम वि-
नरागदोष दर्पन ज्यों, निज निज भाव फलें तिन-
केरे । तुम हा सहज जगत उपकारी, शिवपथ-
सारथबाह भलेरे ॥ जग० ॥ ५ ॥ तुम दयाल बेहा-
ल बहुत हम, काल-कराल-व्याल-चिर-धेरे । भाल
नाय गुणमाल जपों तुम, हे दयाल ! दुखटाल
सवेरे ॥ जग० ॥ ६ ॥ तुम बहु पतित सुपावन की-
नें, क्यों न हरो भवमंकट मेरे । भ्रम-उयाधि-हर
शमसमाधिकर, दौल भयं तुमरे अब चरे ॥ जग०
॥ ७ ॥

१०

पद्मासन्न पद्मर्षद पद्मा, मुक्तिसन्न दरशावन है।
कलि-मल-गंजन मन-अलिरंजन, मुनिजन शरन
सुपावन है ॥ पद्मा० ॥ टेक ॥ जाकी जन्मपुरी
कुशंबिका, सुर-नर-नाग-रमावन है । जास जन्म-
दिनपूरब षटनव, -मास रतन वरसावन है ॥ पद्मा०

* खरगोशोंन १ शीघ्र । २ शान्तिसमाधि । ३ समवसरन व्यथीके ।
४ पद्मप्रभके चरण । ५ पद्मा-मुक्ति-मोक्षलक्ष्मी ।

॥ १ ॥ जा तपथान पपोसागिरि सो, आत्मज्ञान
धिर-थावन है । केवलजोतउदोत भई सो, मिथ्या
तिमर-नशावन है ॥ पद्मा० ॥ २ ॥ जाको शासन
पंचानन सो, कुमति-भंतंग-नशावन है । राग
विना सेवक जन तारक, पै तसु रूपतुष भाव न
है ॥ पद्मा० ॥ ३ ॥ जाकी महिमाके वरननसों, सुर-
गुरुबुद्धि थकावन है । दौल अल्पमतिको कहवो
जिमि, शिशुकंगिरिंद धकावन है ॥ पद्मा० ॥ ४ ॥

११

चन्द्रानन जिन चन्द्रनाथके, चरन चतुर-चित
ध्यावतु हैं । कर्म-चक्र-चकचूर चिदातम, चिन्मू-
रतपद पावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ टेक ॥

हाहा हूहू-नारद-तुंबर, जासु अमल जस गाव-
तु हैं । पद्मा-सची-शिवा-श्यामादिक. करधर वीन
बजावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ १ ॥ विन इच्छा उपदे-
शमार्हि हित, अहित जगत दरसावतु हैं । जा

१ पपोसा नामका पर्वत है । २ उपदेश । ३ सिंह । ४ हाथी । ५ रोष, तोष-
क्षेप राम । ६ कन्दकी बुद्ध । ७ जैसे करगोस मुमेरको घडेकना चहें । ८ वे
अर्थात् देवोंके भेद ।

पदतट सुरनरमुनि घट चिर, विकटविमोह नशा-
वतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ २ ॥ जाकी चन्द्रवरन तन-
दुतिसों, कोटिक सूर छिपावतु हैं । आत्मजो-
त उदोतमाहिं सब, ज्ञेय अनंत दिपावतु हैं ॥
चन्द्रा० ॥ ३ ॥ नित्य-उदय अकलंक अछानि
सु, मुनि-उड्डे-चित्त रमावतु हैं ! जाकी ज्ञानच-
न्द्रिका लोका, लोकमाहिं न समावतु हैं ॥ चन्द्रा०
॥ ४ ॥ सौम्य, सिन्धुवर्द्धन जर्गनंदन, को शिर हरि-
गन नावतु हैं । संशय विभ्रम मोह दौलके, हर
जो जगभरमावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ ५ ॥

१२

जय जिन वासुगूज्य शिव-रमनी-रमन मदन
दनुं-दारन हैं । बालकाल संजम सँभाल रिपु,
मोहव्यालबलमारन हैं ॥ जय जिन० ॥ १ ॥
जाके पंचकल्याण भये चंपापुरमें सुखकारन हैं ।
वासंववृंद अमंद मोद घर, किये भवोदधितारन

१ देव मनुष्यों और मुनियोंके हृदयका । २ सूर्य । ३ पदार्थ । ४ तारा ।
५ समताकपी समुद्रको बड़ाविवाहा । ६ जगतको आर्जित करनेवाला ।
७ कामदेवकवी पक्षीको मारनेवाले । ८ मोदकपी शीप । ९ इन्द्रके समुह ।

हैं ॥ जय जिन० ॥ २ ॥ जाके वैनसुधा त्रिभुव-
नजन, -को भ्रमरोगविदारन हैं । जा गुनचिंतन
अमलअनल मृत, -जनम-जरा-वन-जारन हैं ॥ जय०
॥ ३ ॥ जाकी अरुन शांतिछवि-रविभा, दिव-
सप्रबोधप्रमारन हैं । जाके चरनशरन सुरतेरु
वांछित शिवफल विस्तारन हे ॥ जय० ॥ ४ ॥ जा-
को शामन सेवत मुनि जे, चारज्ञानके धारण हैं ।
इन्द्र-फर्णाद्र-मुकुटमणि-दुतिजल, जापद कलिले
पखारन हैं ॥ जय० ॥ ५ ॥ जाकी सेव अँछेवर-
माकर, चहुंगतिविपति उधारन हैं । जा अनुभव-
घनमार सु आँकुल, तापकलाप-निवारन हैं ॥ जय०
॥ ६ ॥ द्वादशमो जिनचन्द्र जास वर, जस उजा-
सको पार न हैं । भक्तिभारतें नमें दौलको
चिरविभाव दुख टारन हैं ॥ जय० ॥ ७ ॥

१३

कुंथनके प्रतिपाल कुंथु जग, -तार सारगुनधारक

१ कल्पवृक्ष । २ पाप । ३ अक्षयलक्ष्मी (मोक्ष) की करनेवाली । ४ अनुभवरूपी
-बलवागर चदन । ५ आँकुलताके तापका समूह । ६ छोटे छोटे जीवोंके भी ।

हैं । वर्जितग्रंथ कुपंथवितर्जित. अर्जितपंथ अमा-
 रक हैं ॥ कुंथनके० ॥ टेक ॥ जाकी समवसरन-
 बहिरंग, रमा गनैघार अपार कहैं । सम्यग्दर्शन-
 बोध-चरण-अध्यात्म रमा-भर-भार- कहैं ॥ कुंथ०॥
 १ ॥ दशधा-धर्म-पोतैकर भव्यनको भवसागरता-
 रक हैं । वरममाधि-वन-घन विभावरज, पुंजनि-
 कुंजनिवारक हैं ॥ कुंथ० ॥ २ ॥ जासु ज्ञाननभमें
 अलोकजुन-लोक यथा इक तारक हैं । जासु
 ध्यानहस्तावलम्ब दुख-कूपविरूप उधारक हैं ॥
 कुंथ० ॥ ३ ॥ तज छेखंडकमला प्रभु अमला, तप-
 कमला आगारक हैं । द्वादशसभा-सरोजमूर भ्रम
 तरु अंकूरउपारक हैं ॥ कुंथनके० ॥४॥ गुणअनंत
 कहि लहत अंत को ? सुरगुरुसे बुध हार कहैं ।
 नमें दौल हे कृपाकंद ! भवद्वंद टार बहुवार कहैं
 ॥ कुंथन० ॥ ५ ॥

१ परिग्रह-हित । २ अहितक पंथके अर्जन करनेवाले । ३ गणवर देव ।
 ४ दशलक्षणधर्मरूपी अज्ञान करके । ५ छेखंडकी कम्पी ।

१४

पासअनादिअविद्या भेरी, हरन पास-परमेशा
 हैं । चिद्विलास सुखराशप्रकाशवितरन त्रिभौन-
 दिनेशा हैं ॥ टेक ॥ दुर्निवार कंदर्पसर्पको दर्पवि-
 दरनखगेशा हैं । दुँठ-शठ-कमठ-उपद्रव-प्रलय-स-
 मीर-सुवर्णनगेशा हैं ॥ पास० ॥ १ ॥ ज्ञान अनंत
 अनंत दर्श बल, सुख अनंत पंदमेशा हैं । स्वानु-
 भूति-रमनी-वर भंवि-भव-गिर-पवि शिवंसदमेशा
 हैं ॥ पास० ॥ २ ॥ ऋषि मुनि यति अनगार स-
 दा तिस, सेवत पादकुंशेसा हैं । वदनचंद्रतै श्रै
 गिराष्ट्रैत, नाशन जन्म-कलेशा हैं ॥ पास० ॥ ३ ॥
 नाममंत्र जे जपैं भव्य तिन, अघ अहिं नशत
 अशेसा हैं । सुर अहमिन्द्र स्वगेन्द्र चन्द्र है, अनु-
 क्रम होंहिं जिनेशा हैं ॥ पास० ॥ ४ ॥ लोक

१ अनादि अविद्या कपी कर्सा । २ पार्श्वनाथ भगवान् । ३ तिन
 लोकके सुर । ४ कामदेव कपी दर्पको । ५ गहडपत्नी । ६ दुष्ट, शठ, ऐसे
 कमठके उग्रपक्षी प्रलयकाकरी जाँचीको सहन करनेवाले मेरुपर्वत हो ।
 ७ कर्षीके ईस । ८ स्वायम्भुवकी क्रीके दुलह । ९ मर्त्योंको संसारकपी पर्वतके
 सब करकेकोकरके समान । १० मोक्ष बहकके वासिष्ठ । ११ करणकमल ।
 १२ वचनकपी अक्षय । १३ शिव ।

अलोक-ज्ञेय-ज्ञायक वे, रत निजभावचिदेशा हैं ।
 रागविना सेवकजन-तारक, मारक मोह न देषा
 हैं ॥ पास० ॥ ५ ॥ भद्र-समुद्र-विवर्द्धन अमृत
 पूरनचन्द्र सुवेशा हैं । दौल नमै पद तासु जासु,
 शिवथल समेदअचलेशा हैं ॥ पास० ॥ ६ ॥

१५

जय शिव-कामिनि-कंत वीरै भगवंत अनंतसु-
 खाकर हैं । विधि-गिरि-गंजन बुधमनरंजन, भ्रम-
 तम भंजन भाँकर हैं ॥ जय० ॥ टेक ॥ जिन उप-
 देश्यौ दुर्विघघर्म जो, सो सुँरासिद्धरमाकर हैं । भवि-
 उर-कुमुदनि-मोदन भवतप, हरन अनूप निशाँकर
 हैं ॥ जय० ॥ १ ॥ परम विरागि रहैं जगतै पै,
 जगतजंतुरक्षाकर हैं । इन्द्र फणीन्द्र स्वगेन्द्र चन्द्र
 जग-ठाकर ताके चाकर हैं ॥ जय० ॥ २ ॥ जासु
 अनंत सुगुनमगिगन नित, गनत गनीगन थाक
 रहैं । जा प्रभुगद नवकेवलिलब्धि सु, कमलाको

१ धारनेवाले । २ लम्मेकालिकार । ३ वर्द्धमान जगधन् । ४ कमलकी पर्वतके
 नष्ट करनेवाले । ५ सूर्य । ६ द्वा प्रकारका घर्म गृहस्थ और मुनिका । ७ स्वर्ग
 और मोक्ष कर्मनाम करनेवाला है । ८ चन्द्रमा ।

कमलाकर हैं ॥ जय० ॥ ३ ॥ जाके ध्यान-कमल
रागरूप,-पासहरन समताकर हैं । दौल नमै करजोर
हरन भव,-बाधा शिवराधाकर हैं ॥ जय० ॥ ४ ॥

१६

जय श्रीवीर जिनेन्द्रचन्द्र, शतहन्द्रबंध जगता-
रं ॥ जय० ॥ टेक ॥ सिद्धारथकुल-कमल-अमल-
रवि, भवभूधरपवि भारं । गुणमनिकोष अदोष मो-
षपति, विपिनकषायतुषारं ॥ जय० ॥ १ ॥ मदन-
कदन शिवसदन पद-नमित, नित अनमित य-
तिसारं । रमाँअनंतकंत अंतकै-कृत,-अंत जंतुहित-
कारं ॥ जय० ॥ २ ॥ फंद-चंदनाकंदन दाँदुरदुरित
तुरित निवारं । रुद्ररचित अतिरुद्र उपद्रव-पवन
अद्रिपातिसारं ॥ जय० ॥ ३ ॥ अंतांतीत अचित्य
सुगुन तुम, कहत लहत को पारं । हे जगंमौल
दौल तेरे क्रमै, नमै सीस कर धारं ॥ जय० ॥ ४ ॥

१ ध्यानरूपी तरवारसे रागद्वेषकी फाँसोंको काटनेवाला । २ संसाररूपी पर्वतको बड़े भारी बलके समान । ३ कषायरूपी वनको पुषार । ४ अनंत मोक्षलक्ष्मी-के पति । ५ यमराजका भी किया है अन्त जिन्होंने ऐसे । ६ चंदनासतीके फंद काटनेवाले । ७ सप्तकसरणमें पुष्प लेकर जानेवाले भेड़के पाप । ८ रुदनामक दैत्यके किये हुए । ९ अनंत । १० जगन्मुकुट । ११ चरण ।

१७

उरग-सुरग-नरईश सीस जिस, आतेपत्र त्रिं
घरे । कुंदकुसुमसम चमर अमरगन, ठारस मोद-
भरे ॥ उरग० ॥ टेक ॥ तरु अशोक जाको अब-
लोकत, शोकथोक उजरे । पारजातसंतानकादि-
के, बरसत सुमन वरे ॥ उरग० ॥ १ ॥ सुमणि-
विविन्न-पीठअंबुजपर, राजत जिन सुथिरे। वर्ण-
विगत जाकी धुनिको सुनि, भवि भवसिंधु तरे ॥
उरग० ॥ २ ॥ साढ़े बारह कोड़ जातिके, बाज-
त तैर्य खरे । भामंडलकी दुति अखंडने, रविश-
शि मंद करे । उरग० ॥ ३ ॥ ज्ञान अनंत अनंत
दर्श बल, शर्म अनंत भरे । करुणामृतपूरित पद
जाके, दौलत हृदय घरे ॥ उरग० ४ ॥

१८

भविन-सरोरुहसूर भूरिगुनपूरित अरहंता ।
दूरितदोष मोष पथघोषक करन कर्मअन्ता ॥ भवि-

१ छत्र । २ तीन । ३ फूल । ४ अनखरी । ५ बाजे । ६ अत्यक्षी कर्मको
सूर्य । ७ दोषराहित ।

न० ॥ टेक ॥ दर्शबोधतै युगपत् लख जाने, जु
 भावऽनंता । विगतौकुल जुतसुखअनंत विन, अं-
 त शक्तिवंता ॥ भविन० ॥ १ ॥ जा तनजोतउ-
 दोतथकी रवि, शशिदुति लाजंता । तेजथोक अ-
 वलोक लगत है, फोक सैचीकंता ॥ भविन० ॥ २ ॥
 जास अनूप रूपको निरखत, हरखत हैं संता । जा-
 की धुनि सुनि मुनि निजैगुन-मुन, परै-गर उगलं-
 ता ॥ भविन० ॥ ३ ॥ दौल तौलैविन जस तस वर-
 नत, सुरगुरू अकुलंता । नामाक्षर सुन कान स्वा-
 नसे, राँक नाँकगंता ॥ भविन० ॥ ४ ॥

१९

हमारी वीर हरो भवपीर । हमारी० ॥ टेक ॥
 मैं दुख-तपित दयामृतसर तुम, लख आयो तुम ती-
 र । तुम परमेश मोखमगदर्शक, मोहदवानलनीर
 ॥ हमारी० ॥ १ ॥ तुम विनहेत जगतउपकारी,
 शुद्ध चिदानंद धीर । गनपातिज्ञानसमुद्र न लंघै,

१ दर्शन और ध्यान । २ आकुलतारहित । ३ हृदय । ४ अपन गुणोंका मनन
 करके । ५ विजायकर्या विषय । ६ अपरिमित । ७ बृहस्पति । ८ रंक, वाचीक ।
 ९ दशम मन्वा ।

तुम गुणसिंधु गद्दीर ॥ हमारी० ॥ २ ॥ याद नहीं
 मैं विपाति मही जो, घर घर अमित शरीर । तुम
 गुनार्चितत नशत तथा भय, ज्यों घन चलत स-
 मीर ॥ हमारी० ॥ ३ ॥ कोट बारकी अरज यही
 है, मैं दुख सहूं अधीर । हरहु वेदनाफंद दौलको,
 कतर कर्म जंजीर ॥ हमारी० ॥ ४ ॥

२०

सब मिल देखो हेली म्हारी हे, त्रिमलामाल
 वदन रसाल । सब० ॥ टेक ॥ आये जुतसमवस-
 रन कृपाल, विचरत अभय व्याल मराल, फलि-
 त भई सकल तरुमाल । सब० ॥ १ ॥ नैन न हा-
 ल भृकुटी न चाल, वैन विदारै विभ्रमजाल, छवि-
 लाखि होत संत निहाल । सब० ॥ २ ॥ वंदनका-
 ज साज समाज, संग लिये स्वजन पुरजन ब्राज,
 श्रेणिक चलत है नरपाल । सब० ॥ ३ ॥ यों
 कहि मोदजुत पुरबाल, लखन चाली चरमजिन-
 पाल, दौलत नमत करघरभाल ॥ सब० ॥ ४ ॥

२१

अरि रज रईस हनन प्रभु अरहन, जैवतो जममें । दे-
व अदेव सेव कर जाकी, घरहि मौलि पगमें ॥
अरिरज० ॥ टेक ॥ जा तन अष्टोत्तरसहस्र लक्ष्मन
लखि कलिल शमें । जा वचदीपशिखातैं मुनि वि-
चरैं शिवमारगमें ॥ अरिरज० ॥ १ ॥ जास
पासतैं शोकहरन गुन, प्रगट भयौ नगमें । व्याल-
मरालकुरंगसिंहको, जातिविरोध गमें ॥ अरिरज०
॥ २ ॥ जा जस-गगन उलंघन कोऊ, क्षमैं न
मुनी स्वगमें । दौल नाम तसु सुरतरु है या भव-
मरुथलैमगमें ॥ अरि० ॥ ३ ॥

२२

हे जिन तरे में शरणे आया ॥ तुम हो परम-
दयाल जगतगुरु, मैं भवभव दुख पाया ॥ हे जि०
॥ टेक ॥ मोह महादुठैं घेर मोहि प्रभु, भवकानन
भटकाया । नित निज ज्ञानचरननिधि विसञ्चौ,
तनघनकर अपनाया ॥ हे० ॥ १ ॥ निजानंदअनु-

१ मोह । २ ज्ञानचरननिधि । ३ आचरन । ४ अकोकदुखमें । ५ स्वर्ग । ६ सं-
सारकी मारवाक देखके मारमें । ७ दुष्ट । ८ निजानंदकी वच ।

भवपियुषं तज, विषयहलाहल स्त्राया । मेरी भूल
मूल दुखदाई, निमित्त मोहविधि थाया ॥ हे जिन०
॥ २ ॥ सो दुठ होत शिथिल तुमरे ढिग, और
न हेतु लस्त्राया । शिवस्वरूप शिवमगदर्शक तुम,
सुयश मुनीगन गाया ॥ हे जिन० ॥ ३ ॥ तुम
हो सहजनिमित्त जगहितके, मो उर निश्चय भा-
या । भिन्न होंहुँ विधितें सो कीजे, दौल तुम्हें
सिर नाया ॥ हे जिन० ॥ ४ ॥

२३

हे जिन मेरी, ऐसी बुधि कीजे ॥ हे जिन० ॥
टेक ॥ रागद्वेषदावानलतें बचि, समतारसमें भीजे
॥ हे जिन० ॥ १ ॥ परमें त्याग अर्पनपो निजमें
लाग न कबहूँ छीजे ॥ हे जिन० ॥ २ ॥ कर्म
कर्मफलमार्हि न राचै, ज्ञानसुधारस पीजे ॥ हे
जिन० ॥ ३ ॥ मुझ कारजके तुम कारन वर, अरज
दौलकी लीजे ॥ हे जिन० ॥ ४ ॥

२४

साँवरियाके नाम जपेतैं, छूट जाय भैवभाँव-
रिया ॥ साँव० ॥ टेक ॥ दुँरित दुरैत पुन तुरत
फुरतैं गुन, आतमकी निधि आगरिया । विघटत
है परदाह चाह झट, गटकैत समरस गागरिया
॥ साँव० ॥ १ ॥ कटत कलंक कर्म कलसायन,
प्रगटत शिवपुर डाँगरिया, फटत घटाघन मोह छोई
हट, प्रगटत भेद ज्ञान धरिया ॥ साँव० ॥ २ ॥
कृपाकटाक्ष तुमारीहीतैं, जुगलनागविपदा टरिया ।
धोर भये सो मुक्तिरमावर, दौल नमैं तुव पाग-
रिया ॥ साँव० ॥ ३ ॥

२५

शिवमगदरसावन राँवरो दरस । शिवमगाटेका
परै-पद-चाह-दाह-गद नाशन, तुम वचभेषज-पान
सरस । शिवमग० ॥ १ ॥ गुणचितवत निज अ-
नुभव प्रगटै, विघटै, विघिठग दुविध तरस । शि-

१ जवप्रमज । २ पाप । ३ छिपते हैं । ४ स्फुरित होता है । ५ गटकते हैं
अर्थात् पीते हैं । ६ काकिल । ७ मोलका रस्ता । ८ राय्देवा । ९ पुन्वारा नाम धारण करके ।
१० आपका । ११ पुत्रकसम्बन्धी चाहका दाहकरीरोग नाम करनेके छिमे धर्षा ।

वमग० ॥ २ ॥ दौल अवाची संपत्ति सांची;
पाय रहै थिर राच सरस । शिवमग० ॥ ३ ॥

२६

मेरी सुध लीजे रिषभस्वाम । मोहि कीजे
शिवपथगाम ॥ टेक ॥ मैं अनादि भवभ्रमत दु-
खी अब, तुम दुखमेटत कृपाधाम । मोहि मोह
घेरा कर चेरा, पेरा चहुंगतिविपतठाम । मेरी० ॥
१ ॥ विषयन मन ललचाय हरी मुझ, शुद्धज्ञान
संपत्ति ललाम । अथवा यो जड़को न दोष मम,
दुखसुखता, परनतिसुकाम ॥ मेरी० ॥ २ ॥ भाग
जगे अब चरन जपे तुम, वच सुनके गहे सुगुन-
ग्राम । परमाविराग ज्ञानमय मुनिजन, जपत तु-
मारी सुगुनैदाम । ॥ मेरी० ॥ ३ ॥ निर्विकार सं-
पतिकृति तेरी, छबिपर वारों कोटि काम । भ-
व्यानिके भवहारन कारन, सहज यथा तमहरन
धामै ॥ मेरी० ॥ ४ ॥ तुम गुनप्रदिमा कथनकर-

१ अनाद्य, जिसका कर्णन न हो सके । २ शुक्रीके समूह । ३ सुकामका ।
४ सुरज ।

नको, गिनत गनी निजबुद्धि खाम । दौलतनी
अज्ञान परनती, हे जगत्राता कर विराम ॥
मेरी० ॥ ५ ॥

२७

मोहि तारो जी क्यों ना, तुम तारक त्रिजग-
त्रिकालमें, मोहि० ॥ टेक ॥ मैं भवउदधि परथौ
दुख भोग्यौ, सो दुख जात कह्यौ ना । जामनम-
रन अनंततनो तुम, जाननमाहिं छियौ ना ।
॥ मोहि० ॥ १ ॥ विषय विरसरस विषम भख्यौ
मैं, चख्यौ न ज्ञान सलोना । मेरी भूल मोहि दु-
ख देवै, कर्मनिमित्त भलो ना ॥ मोहि० ॥ २ ॥
तुम पदकंज घरे हिरदै जिन, सो भवताप तप्यौ ना ।
सुरगुरुहूके वचनकरनकर, तुम जसगगन
नर्थ्यौ ना ॥ मोहि० ॥ ३ ॥ कुगुरु कुदेव कुश्रुत
सेथे मैं, तुम मत हृदय धरथ्यौ ना । परमाविराम
ज्ञानमय तुम जा, ने विन काज सख्यौ ना ॥ मोहि०

१ गनकर । २ कोतारी, कती । ३ की । ४ वचनकर्यो किल्लोले जसवा
हायेंति । ५ माया नहीं मया ।

॥ ४ ॥ मोक्षम पतितं न और दयानिधि, पतित-
तारं तुम सौ ना । दौलतनी अरदास यही है,
फिर भववास बसों ना ॥ मोहि० ॥ ५ ॥

२८

मैं आयौ, जिन शरन तिहारी । मैं चिरदुखी
विभावभावतैं, स्वाभाविक निधि आप विसारी ॥
मैं० ॥ १ ॥ रूप निहार धार तुम गुन सुन, वेन
होत भवि शिवमगचारी । यों मम कारजके कारन
तुम, तुमरी सेव एक उर धारी ॥ मैं० ॥ २ ॥
मिल्यौ अनंत जन्मतैं अवसर, अब विनऊं हे
भवसरतारी । परमें इष्ट अनिष्ट कल्पना, दौल
कहै झट मेट हमारी ॥ मैं० ॥ ३ ॥

२९

मैं हररुखौ निरख्यौ मुख तेरो । नासान्य-
स्तानयन भ्रू हँलय न, वयन निवारन मोह-अँघेरो
॥ मैं० ॥ १ ॥ परमें कर मैं निजबुधि
अबलों, भवसरमें दुख सख्यौ घनेरो ॥ सो

१ करी । २ पवित्रोंका तारनेवाला । ३ अर्थी । ४ नासिकापर कर्ण है
इति चिह्नः । ५ दिग्गते नहीं हैं ।

दुखभानन स्वपर पिछानन, तुमविन आन
न कारण हेरो ॥ मै० ॥ २ ॥ चाह भई शिवरा-
हलोहकी, गयो उछाह असंजमकेरो । दौलत हित-
विराग चित आन्यौ, जान्यौ रूप ज्ञानदृग मेरो ॥
मै० ॥ ३ ॥

३०

प्यारी लागै म्हाने जिन छवि थारी ॥ टेक ॥
परमनिराकुलपद दरसावत, वर विरागताकारी ।
पटभूषनविन पै सुंदरता, सुरनरमुनिमनहारी ॥
प्यारी० ॥ १ ॥ जाहि विलोकत भवि निज निधि लहि,
चिरविभावता टारी । निरनिमेषतैं देख सचीपति,
सुरताँ सफल विचारी ॥ प्यारी० ॥ २ ॥ महिमा
अकथ होत लख ताको, पशु सम समकितधारी
। दौलत रहो ताहि निरखनकी, भव भव टेव
हमारी ॥ प्यारी० ॥ ३ ॥

३१

निरख सुख पायौ, जिन मुखचंद । नि० ॥
टेक ॥ मोह महातम नाश भयो है, उरअंबुज-

१ मोक्षमार्ग-आत्मकी प्राप्तिको । २ दिव्यकार रहित । ३ इन्द्र । ४ देवपत्नी ।

प्रफुलायौ । ताप नम्यो बद्धि उदधि अनंद । निरख०
 ॥ १ ॥ चकवी कुमति बिह्वर अति विलखे,
 आतमसुधा स्रवायौ । शिथिल भये सब विधिग-
 नफंद ॥ निरख० ॥ २ ॥ विकट भवोदधिको तट
 निकट्यौ, अघतरुमूल नसायौ । दौल लख्यौ अब
 सुपद स्वछंद ॥ निरख० ॥ ३ ॥

३२

निरख सखि ऋषिनको ईश यह ऋषभ जिन,
 परखिके स्वपर परसोज छारी । नैन नाशाग्र धरि
 मैने विनमायकर मौनजुत स्वांस दिशि सुराधिकारी
 ॥नि०॥१॥धरासमक्षांतियुत नैरामरखचरनुत, विहुँ
 त रागादिमददुरितहारी । जास क्रमपास भ्रमनाश
 पंचास्य मृग, वासकरि प्रीतिकी रीति धारी ॥
 निरख० ॥ २ ॥ ध्यानदवमाहिं विधिदारुं प्रजरांदि
 सिर, केश शुभ जिमि धुआं दिशि विथौरी । फैसे
 जगपंक जनरंक तिन काढ़न, किधौं जगनाह

१ धरणाति । २ क म । ३ दिशाओंको सुषान्धन कर्मवाक्य । ४ मनुष्य
 रूप विद्याधरोमे बन्दनाया । ५ रहित । ६ पाप । ७ चरण । ८ सिंह । ९ ध्यानकर्ता
 आदिमें । १० कर्मरूपा ईधन । ११ विस्तर ।

बह बाँह सारी ॥ निरख० ॥ ३ ॥ तैस हाटक-
रुज बसन विन आभरन, खरे धिर ज्यों शिखर
मेरुकारी । दौलको देन शिवधौल जगमौलें जे,
तिन्हें करजोर वंदन हमारी ॥ निरख० ॥ ४ ॥

३३

ध्यानकृपान पानि गहि नासी, त्रेसठ प्रकृति
अरी । शेष पैचासी लाग रही हैं, ज्यों जेवरी
जरी ॥ ध्यान० ॥ टेक ॥ दुठ अनंगमातंगभंग-
कर, है प्रबलंग हरी । जा पदभक्ति भक्तजन—दुख-
दावानल—मेघझरी ॥ ध्यान० ॥ १ ॥ नवल घवल
पेल सोहै कँलमें, क्षुधतृषव्याधि टरी । हलत न
पलक अलँक नख बढ़त न गति नभमाहिं करी ॥
ध्यान० ॥ २ ॥ जा विन शरन मरन जर घर घर,
महा असात भरी । दौल तास पद दास होत हैं,
बास मुक्तिनगरी ॥ ध्यान० ॥ ३ ॥

१ पसारी । २ तपाये हुए सोने जैसा रंग । ३ मेरुका । ४ मुक्तिरूपी महल ।
५ ध्यानरूपी सख्तार । ६ घालियाकर्मोंकी प्रकृतियों । ७ कामरूपी हस्तीकी
भरनेवाले । ८ बलवान् सिंह । ९ मोक्ष या शिव । १० शरीरमें । ११ केश ।

३४

दीठा भगनतैं जिनेपाला, मोहन्यशनेवाला ।
 ॥ दीठ्य० ॥ टेक ॥ सुभग निशंक रगविन यातैं,
 वसन न आयुध बाँला । मोह० ॥ १ ॥ जास लब्धमें
 युगपत भासत, सकल पदारथमाला । मोह० ॥ २ ॥
 निजमें लीन हीन इच्छा पर, -हितमितवचन रसाला ।
 मोह० ॥ ३ ॥ लाखि जाकी छवि आतमनिधि
 निज, पावत होत निहाला । मोह० ॥ ४ ॥ दौ-
 ल जासगुन चिंतन रत है, निकट विकटभव-
 नाला ॥ मोह० ॥ ५ ॥

३५

थारा तो बैनामें सरधान घणों छै, म्हारे छ-
 विनिरखत हिय सरसावै । तुमँधुनिघन परँचहन-
 दहनहर, वर समता-रस-झर बरसावै । थारा० ॥
 ॥ १ ॥ रूपनिहारत ही बुधि है सो, निजपरचिह्न
 जुदे दरसावै । में चिदंके अकलंक अमल थिर,

१ सम्यग्दृष्टिसे लगाकर बारहवें गुणस्थानतकके जीवोंको जिन संज्ञा है, उनका रक्षक । २ स्त्री । ३ वचनोंमें । ४ आपका वीणारूप मेघ । ५ परपदार्थोंको चाह-रूपी अमिको बुझानेवाला है । ६ चैतन्यस्वरूप ।

इंद्रियसुखदुःख जड़फरसावै । थारा० ॥ २ ॥ ज्ञान-
नविरागसुगुनतुम तिनकी, प्रापतिहित सुरंपति
तरसावै । मुनि बड़भाग लीन तिनमें नित, दौल
मदल उपयोग रसावै ॥ थारा० ॥ ३ ॥

३६

त्रिभुवनआनंदकारी जिन छबि, थारी नैन नि-
हारी । त्रिभु० ॥ टेक ॥ ज्ञान अपूरब उदय भ-
यौ अब, या दिनकी बलिहारी । मो उर मोद
बदचौ जु नाथ सो, कथा न जात उचारी । त्रिभु०
॥ १ ॥ सुन घनघोर मोरमुद ओर न, ज्यों निधि-
पाय भिखारी । जाहि लखत झट झरत मोहरज,
होय सो भवि अविकारी ॥ त्रिभु० ॥ २ ॥ जाकी
सुंदरता सु पुरंदर, शोभ लजावनहारी । निज अ-
नुभूति सुधाछबि पुलकित, वदन मदन अरिहारी
॥ त्रिभु० ॥ ३ ॥ शूल दुकूल न बाला माला, मु-
निमनमोद प्रमारी । अरुन न नैनन सैन भ्रमै ना

१ इंद्रियअन्ध सुखदुःख जड़का स्पर्श करते हैं मेरा नहीं, मुझ सुखदुःख नहीं होते । २ इन्द्र । ३ बधुद निमल । ४ इन्द्रका शोभा । ५ त्रिशूल । ६ बल ।

बंक न लंक सम्हारी ॥ त्रिभु० ॥ ४ ॥ तारो
विधिविभाव क्रोधादि न, लखियत हे जगतारी ।
पूजत पातकपुंज पलावत, ध्यावत शिवविस्तारी
॥ त्रिभु० ॥ ५ ॥ कामधेनु सुरतरु विंतामनि, इ-
कभव सुखकरतारी । तुम छवि लखत मोदतैं जो
सुर, सो तुमपद दातारी ॥ त्रिभु० ॥ ६ ॥ महि-
मा कहत न लहत पार सुर-गुरुहूकी बुधि हारी ।
और कहै किम दौल चहै इम, देहु दशा तुमघा-
री ॥ त्रिभु० ॥ ७ ॥

३७

जिन छवि तेरी यह, धन जगतारन । जिन-
छवि० ॥ टेक ॥ मूल न फूल दुँकूल त्रिशूल न, श-
मदमकारन भ्रमतमवारन । जिन० ॥ १ ॥ जाकी
प्रभुताकी महिमातैं, सुरनधीशता लागत सार
न । अवलोकत भविथोक मोख मग, चरत वरत
निजनिधि उरधारन । जिन० ॥ २ ॥ जजत भज-

१ कमर । २ जटा या वल्कल । ३ फूलोंका माला । ४ वज्र । ५ इन्द्रपणा ।
६ आपके जपनेसे यदि पाप भागते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

त अघ तौ को अचरज, समकित पावन भावन-
कारन । तःसु सेवफल एव चहत नित, दौलत
जाके सुगुन उचारन ॥ जिन छ० ॥ ३ ॥

३८

चल सखि देखन नाभिरायघर, नाचत हरि
नेटवा । चल० ॥ टेक ॥ अदभुत तालमान शुभ-
लययुत, चवंत राग षटवा । चल सखि० ॥ १ ॥ म
निमय नूपुरादिभूषनदुति, युत सुरंग पैटवा । है-
रिकरनखन नखनपै सुरतिय, पग फेरत कटवा ॥
चल० ॥ २ ॥ किन्नर कर घर बीन बजावत, लावत
लय शैटवा । दौलत ताहि लखें चख तृपते, सू-
अत शिववंटवा ॥ चल० ॥ ३ ॥

३९

आज गिरिराज निहारा, धनभाग हमारा ।
श्रीसम्भेद नाम है जाको, भूपर तीरथ भारा ॥
आज गिरि० ॥ टेक ॥ तहां बीस जिन मुक्ति प-

१ इन्द्रकी नट । २ गाते । ३ छै राग । ४ कपड़े । ५ शत्रुके हाथोंके
बन्धन । ६ कमर । ७ शीघ्र हो । ८ नेत्र । ९ मोक्षमार्ग ।

घारे, अवर मुनीश अपारा । आरजभूमिशिखा-
मनि सोहै, सुरनरमुनि-मन-प्यारा ॥ आजगिरि०
॥ १ ॥ तहँ थिर योग धार योगीसुर, निज-पर त-
त्व विचारा । निज स्वभावमें लीन होयकर, स-
कल विभाव निवारा ॥ आजगिरि० ॥ २ ॥ जाहि
जजत भवि भावनतैं जब, भवभवपातक टारा ।
जिनगुनधार धर्मधन संचो, भवदारिद हरतारा
॥ आजगिरि० ॥ ३ ॥ ईक नभं नवे ईक वर्ष मा-
घ वदि, चौदश बासर सारा । माथ नाय जुतसाथ
दौलने, जय जय शब्द उचारा ॥ आजगिरि० ॥ ४

४०

आज मैं परम पदारथ पायौ, प्रभुचरनन चित
लायौ । आज० ॥ टेक ॥ अशुभ गये शुभ प्रगट
भये हैं, सहज कल्पतरु छायौ । आज० ॥ १ ॥
ज्ञानशक्ति तप ऐसी जाकी, चेतनपद दरशायौ ।
आज० ॥ २ ॥ अष्टकर्म रिपु जोधा जीते, शिव
अंकुर जमायौ । आज० ॥ ३ ॥

४१

नेमिप्रभूकी श्याम वरन छवि, नैनन छाया
 रही ॥ टेक ॥ मनिमय तीन पीठपर अंबुज, तापर
 अधर ठही । नेमि० ॥ १ ॥ मार मार तप धार
 जार विधि, केवलकृच्छ्र लही । चार तीस अति-
 शय दुतिमंडित, नवदुग दोष नहीं । नेमि० ॥ २ ॥
 जाहि सुरासुर नमत सतत मस्तकतै परस मही ।
 सुरगुरुवर अम्बुजप्रफुलावन, अद्भुत भान सही ।
 नेमि० ॥ ३ ॥ धर अनुराग विलोकत जाको,
 दुरित नशैं सब ही । दौलत महिमा अतुल जा-
 सकी कापै जात कही । नेमि० ॥ ४ ॥

४२

अहो नमि जिनप नित नमत शतसुरप, कं-
 दर्पगजदर्पनाशन भ्रवल पनलर्पन । अहो० ॥ टेक ।
 नाथ ! तुम बानिपय पान जे करत भवि, नशैं
 तिनकी जरामरनजामनतपन । अहो नमि० ॥

१ कामदेवको मारके । २ अष्टादश । ३ निरंतर । ४ पृथिवी । ५ सौ स्त्र ।
 ६ कामदेव । ७ गर्भ । ८ पन-पान हैं कपन-मुक्त जिसके ऐसा वंचामन-
 कर्षण है ।

॥१॥ अहो शिवभौन तुम चरण चितौन जे, क-
रत तिन जरत भावीदुखद भवविपेन ॥ हे भुवन
पाल तुम विशद गुनमाल उर, धरें ते लहें दुक का-
लमें श्रेयपेन । अहो नमि० ॥ २ ॥ अहो
गुनतूष तुमरूप चख सहसकरि, लखत स-
न्तोष प्रापति भयौ नार्कष न ॥ अजं, अर्कल,
तज सकल दुखद परिगह कुगंह, दुसहपरिसह
सही धार व्रत सार पन । अहो० ॥ ३ ॥ पाय के-
वल सकल लोक करवत लख्यौ, अख्यौ वृष दिधा
सुनि नशत भ्रमतमज्ञपेन । नीच कीचक कियौ
मीचेंते रहित जिम, दासको पास ले नास भव-
वास पेने । अहो नमि० ॥ ४ ॥

४३

प्रभुं मोरी ऐसी बुधि कीजिये । रागदोषदा-
वानलसे बच, समतारसमें भीजिये । प्रभु० ॥ टे-

१ भविष्यद्धमें दुख देनेवाले । २ संसारक्यो वन । ३ स्वच्छ । ४ उत्तमता ।
५ गुणोंके समूह । ६ इन्द्र । ७ नहीं है आगेको कल्प कितिका । ८ निष्पाप ।
९ छोटे श्व । १० कहा । ११ बड़ना । १२ मृत्युसे । १३ 'दोषको' ऐसा भी पाठ
है । १४ वाच्यराजसंज्ञक संसार । १५ इस पदके दोस्ताराम गौड़न दोमेमें संशय है।

क ॥ परमें त्याग अपनपो निजमें, लाग न कब-
हूँ छीजिये । कर्म कर्मफल माहिं न राचत, ज्ञान
सुधारस पीजिये । प्रभु मोरी० ॥ १ ॥ सम्यग्दर्श-
न ज्ञान चरननिधि, ताकी प्राप्ति करीजिये । मुझ
कारजके तुम बड़ कारन, अरज दौलकी लीजि-
ये । प्रभु मोरी० ॥ २ ॥

४४

वारी हो बघाई या शुभ साजै । विश्वसेन ऐ-
राँदेवीगृह, जिनँभवमंगलछाजै । वारी० ॥ टेक ॥
सब अमरेश अँशेष विभवजुत, नगर नागपुर आये ।
नाग-दत्त सुरइन्द्रवचनतँ ऐरावत सज घाये ।
लख जोजन शत वदन वदन वसु, रँद प्रति सर ठह-
राये । सर-सर सौ-पन-बीस नलिन प्रति, पदम प-
चीस विराजै । वारी हो० ॥ १ ॥ पदम पदम प्रति
अष्टोत्तरशत, ठने सुदल मनहारी । ते सब कोटि
सताइसपै मुद,—जुत नाचत सुरनारी । नवरस-
गान ठान काननको, उपजावत सुख भारी । बंक

१ मूल न होये । २ अगवानकी बाता । ३ अगवानके कर्मका उल्लेख ।
४ सम्पूर्ण । ५ इतिव्यसुर । ६ कुजेर । ७ दौत ।

लै लावत लंक लचावत, दुति लाखि दामनि लाजे ।
 वारी हो० ॥ २ ॥ गोपं गोपंतिय जाय मायढिग,
 करी तास थुति सारी । सुखनिद्रा जननीको कर
 नमि, अंकं लियो जगंतारी । लै बसु मंगल द्रव्य दि-
 शसुंरौ चलीं अग्र शुभकारी । हरखि हंरी चख सहस
 करी तब, जिनवर निरखनकाजै । वारी हो०
 ॥ ३ ॥ ता गजेन्द्रपै प्रथम इन्द्रने, श्रीजिनेन्द्र
 पधराये । द्वितियं छत्र दिय, तृतिय-तुरिय हरि,
 मुद धरि चमर दुराये । शेषं शक्र जय शब्द करत
 नभ, लंघ सुरांचल छाये । पांडुशिला जिन थाप
 नची सैंचि, दुंदुभि कोटिक बाजै । वारी० ॥ ४ ॥
 पुन सुरेशेने श्रीजिनेशको, जन्मन्हवन शुभ ठानो ।
 हेमकुंभ सुरहाथहिं हाथन, क्षीरोदधिजल आनो ।
 वर्देनउदरअवगाह एक चौ, वसु ञ्जेजन परमानो ।
 सहसआठ कर करि हरि जिनसिः, ढारत जय-

१ गुप्त रूपसे । २ इन्द्राणी । ३ गोपसे । ४ मगवान् । ५ दिक्कथका देवियाँ ।
 ६ इन्द्र । ७ ऐकान इन्द्र । ८ सनरकुमार और माहेन्द्र । ९ बाकीके लक
 इन्द्र । १० सुमेरु । ११ इन्द्राणी । १२ सोनेके ककरोके हुए एक योजन, उदर चार
 योजन और—गहराई आठ योजन थी ।

धुनि गाजै । वारी० ॥ ५ ॥ फिर हरिनारि सिं-
गार स्वामितन, जजे सुरा(?)जस गाये । पूरवैली
विधिकर पयान मुद,-ठान पिताघर लाये ।
मनिमय आंगनमें कनकासन,-पै श्रीजिन पध-
राये । तांडव नृत्य कियो सुरनायक, शोभा स-
कल समाजै । वारी० ॥ ६ ॥ फिर हरि जगैगुरु-
पितर तोष शान्तेशैं घोषैं जिन नामा । पुत्रजन्म
उत्साह नगरमें, कियौ भूप अभिरामा । साध स-
कल निज निज नियोग सुर, -असुर गये निजघामा ।
त्रिपद धारि जिन चारु चरनकी, दौलत करत सदा
जै । वारी० ॥ ७ ॥

४५

हे जिन ! तेरो सुजस उजागर, गावत हैं मु-
निजन ज्ञानी । हे जिन० ॥ टेक ॥ दुर्जयमोह म-
हाभट जाने, निजवश कीनें जगप्रानी । सो तुम
ध्यानकूपान पानि गहि, ततछिन ताकी थिति

१ इन्द्राणी । २ पूर्वकी । ३ जिन भगवानके पिताकी स्तुति करके ।
४ शान्तिनाम नाम । ५ घोषणा करके । ६ तीर्थकारत्व, चक्रवर्तित्व और कामदेवत्व
इन तीन पदोंके धारि ।

भानी । हे जिन० ॥ १ ॥ सुप्त अनादि अविद्या
निद्रा, जिन जन निज सुधि विसरानी । हे सचेत
तिन निज निधि पाई, श्रवन सुनी जब तुम बानी ।
हे जिन० ॥ २ ॥ मंगलमय तू जगमें उत्तम,
तुही शरन शिवमगदानी । तुवपद-सेवा परम औ-
षधी, जन्मजैरामृतगदहानी । हे जिन० ॥ ३ ॥
तुमरे पंचकल्याणकमाहीं, त्रिभुवन मोददशा ठानी ।
विष्णु, विदंबर, जिष्णु, दिगम्बर, बुध, शिव
कह ध्यावत ध्यानी । हे जिन० ॥ ४ ॥ सर्व दर्व-
गुणपरजयपरनति, तुम सुबोधमें नहिं छानी ।
तातैं दौलदास उरआशा, प्रगट करो निजरस-
सानी । हे जिन० ॥ ५ ॥

४६

हे मन ! तेरी को कुटेव यह, करना विषयमें धावै
है । हे मन० ॥ टेक ॥ इनहीके वश तू अनादितैं,
निजस्वरूप न लखावै है । परार्थीन छिन छीन स-
माकुल, दुरगतिविपति चखावै है । हे मन० ॥ १ ॥

फरस विषयके कारन बारेंन, गरतें परत दुख पावै
 है । रसना इंद्रीवश क्षेप जलमें, कंटक कंठ छि-
 दावै है । हे मन० ॥ २ ॥ गंध-लोल पंकज मुं-
 द्रितमें, अलि निज प्रान खपावै है । नयनविषयवश
 दीपशिखामें, अंग पतंग जरावै है । हे मन० ॥ ३ ॥
 करनविषयवश हिरन अरनमें, खलकर प्रान लु-
 नावै है । दौलत तज इनको जिनको भज, यह
 गुरु शीख सुनावै है । हे० ॥ ४ ॥

४७

हो तुम शठ अविचारी जियरा, जिनेवृष पाय
 वृथा खोवत हो । हो तुम० ॥ टेक ॥ पी अनादि
 मदमोह स्वगुनानिधि, भूल अचेत नींद सोवत हो ।
 हो तुम० ॥ १ ॥ स्वहितसीख वच सुगुरु पुका-
 रत, क्यों न खोल उर-दृग जोवत हो । ज्ञान वि-
 सार विषयविष चाखत, सुरतरुं जारि कैनक बो-
 वत हो ॥ हो तुम० ॥ २ ॥ स्वारथ सगे सकल

१ हाथी । २ गदमें पड़कर । ३ मछली । ४ बंद कमलोंमें । ५ कानके
 विषयसे । ६ बरमें । ७ जिनधर्म । ८ हियेकी आँखें । ९ कल्पवृक्षको जलाकर ।
 १० भयूरा ।

जनकारन, क्यों निज पापभार ढोवत हो । नरभ-
व सुकुल जैनवृष नौका, लहि निज क्यों भवजल
ढोवत हो ॥ हो तुम० ॥ ३ ॥ पुण्य-पापफल-
बातव्याधिवश, छिनमें हँसत छिनक रोवत हो ।
संयमसलिल लेय निज उरके, कलिमल क्यों न
दौल ढोवत हो ॥ हो तुम० ॥ ४ ॥

४८

हो तुम त्रिभुवनतारी (हो जिन जी) मो भव-
जलधि क्यों न तारत हो ॥ टेक ॥ अंजन कियौ
निरंजन तातैं, अधमउधार विरद धारत हो । हरि
बराह मर्कट झट तारे, मेरी बेर ढील पारत हो
॥ हो तुम० ॥ १ ॥ यों बहु अधम उधारे तुम तौ,
मैं कहा अधम न मुहि टारत हो । तुमको करनो
परत न कलु शिव,-पथ लगाय भंग्यनि तारत हो
॥ हो तुम० ॥ २ ॥ तुम छबि निरखत सहज
टरैं अघ, गुण चिंतत विधि रज झारत हो । दौल
न और चहै मो दीजे, जैसी आप भावना रक्त
हो ॥ हो तुम० ॥ ३ ॥

४९

मान ले या सिख मोरी, झुकै मत भोगन
ओरी ॥ मान ले० ॥ टेक ॥ भोग भुजंगभोगसम
जानो, जिन इनसे रति जोरी । ते अनंत भव
भीर्म भरे दुख, परे अधोगति पोरी, बँधे दृढ़ पाँत-
क-डोरी ॥ मान० ॥१॥ इनको त्याग विरागी जे
जन, भये ज्ञानवृषघोरी । तिन सुख लख्यौ अचल
अविनाशी, भवफांसी दई तोरी; रमै तिन संग
शिवगोरी ॥ मान० ॥ २ ॥ भोगनकी अभिलाष-
हरनको, त्रिजग संपदा थोरी । यातैं ज्ञानानंद
दौल अब, पियौ पियूष कटोरी; मिटै भवव्याधि
कठोरी ॥ मान० ॥ ३ ॥

५०

छांड़ि दे या बुधि भोरी, वृथा तनसे रति जोरी
॥ छांड़ि० ॥ टेक ॥ यह पर है न रहै थिर पोषत,
सकल कुमलकी शोरी । यासों ममता कर अना-
दितैं, बँध्यौ कर्मकी डोरी, सहै दुख जलधि हि-

१ लपंके कर्मके लखान । २ अमानक । ३ पौर । ४ कर्मकी डोरी ।

लोरी ॥ छांड़ि दे या बुधि भोरी, ॥ वृथा० ॥१॥
 यह जड़ है तू चेतन यों ही, अपनावत बरजोरी
 सम्यक दर्शन ज्ञान चरण निधि, ये हैं संपत तोरी,
 सदा विलसौ शिवगोरी ॥ छांड़ि दे या बुधि भो-
 री ॥ वृथा० ॥२॥ सुखिया भये सदीव जीव जिन
 यासों ममता तोरी । दौल सीख यह लीजे पीजे,
 ज्ञानपियूष कटोरी, मिटै परचाह कठोरी ॥ छांड़ि
 दे या बुधि भोरी । वृथा० ॥ ३ ॥

५१

भाखूं हित तेरा, सुनि हो मन मेरा ॥ भाखूं० ॥
 टेक ॥ नरनरकादिक चारों गतिमें, भटक्यौ तू
 अधिकानी । परपरनतिमें प्रीति करी निज परनति
 नाहिं पिछानी, सहै दुख क्यों न घनेरा ॥ भा०
 ॥ १ ॥ कुगुरुकुदेवकुपंथपंकफँसि, तैं बहु खेद
 लहायौ । शिवसुख दैन जैन जगदीपक, सो तैं
 कबहुं न पायौ, मिथ्यौ न अज्ञानअँधेरा ॥ भा०
 ॥ २ ॥ दर्शनज्ञानचरन तेरी in. ५, सो विधिठगन

छगी है । पांचों इंद्रिनके विषयनमें, तेरी बुद्धि
 लगी है, भया इनका तू चेरा ॥ भा० ॥ ३ ॥
 तू जगजालविषै बहु उरझ्यौ, अब कर ले सुरझेरा ।
 दौलत नेमिचरनपंकजका, हो तू भ्रमर संवेरा,
 नसै ज्यों दुख भवकेरा ॥ भा० ॥ ४ ॥

५२

मत कीजौ जी यारी, ये भोगभुंजग सम जानके॥
 मत कीजौ० ॥टेक॥ भुजग डसत इक बार नसत
 है ये अनंत मृतुकारी । तिसना तृषा बड़े इन
 सेयें, न्यों पीये जल खारी ॥ मत कीजौ जी० ॥
 १ ॥ रोग वियोग शोक वनको धन; समताँल-
 ताकुठारी । केहरि करि अरिहू न देत ज्यों, त्यों
 ये दें दुख भारी ॥ मत कीजौ० ॥ २ ॥
 इनमें रचे देव तरु थाये, पाये शुभ्र मुरांरी । जे
 विरंचे ते सुरपतिअरचे, परचे सुख अविकारी ॥
 मत कीजौ० ॥ ३ ॥ पराधीन छिनमाहिं छिन

१ ईश्वर । २ सर्प । ३ मृत्युके करनेव ले । ४ मेघ । ५ जगजालविषो बेलके
 काटनेको कुन्दाही । ६ सिंह । ७ हाथो । ८ दुस्मन । ९ नरक । १० जराधन ।
 ११ बैरागी हुए ।

द्वे पापबंधकरतारी ॥ इन्हें गिनें सुख आक
 माहिं तिन, आमतनी बुधि धारी ॥ मत कीजौ०
 ॥ ४ ॥ मीन मंतंग पतंग भ्रंगं मृग, इन वश
 भये दुखारी ॥ सेवत ज्यों किंपाक ललित परि,
 पाक समय दुखकारी ॥ मत कीजौ जी० ॥ ५ ॥
 सुरपति नरपति स्वर्गपतिहृकी, भोग न आस
 निवारी ॥ दौल त्याग अब भज विराग सुख, ज्यों
 पावै शिवनारी ॥ मत कीजौ जी० ॥ ६ ॥

५३

सुधि लीजौ जी म्हारी, मोहि भवदुखदुखिया
 जानके ॥ सुधि० ॥ टेक ॥ तीनलोकस्वामी नामी
 तुम, त्रिभुवनके दुखहारी । गनघरादि तुव सरन
 लई लख, लीनी सरन तिहारी ॥ सुधली० ॥ १ ॥
 जो विधि अरी करी हमरी गति, सो तुम जानत
 सारी । याद किये दुख होत हिये ज्यों, लागत
 कोट कटारी ॥ सुध लीजौ० ॥ २ ॥ लब्धिअप-
 र्यापतानिगोदमें, एक उसासमँझारी । जनममरनन-

बहुगुनवियाकी, कथा न जात उचारी ॥ सुघ
 लीजौ० ॥ ३ ॥ भू जल ज्वलन पवन प्रतेक तरु,
 विकलत्रय तनधारी । पंचेद्री पशु नारक नर सुर,
 विपति भरी भयकारी ॥ सुघ लीजौ० ॥ ४ ॥
 मोह महारिपु नेक न सुखमय, होन दर्ह सुधि
 यारी । सो दुठ मंद भयौ भागनतैं, पाये तुम
 जगतारी ॥ सुघ लीजौ० ॥ ५ ॥ यदपि विरागि-
 तदपि तुम शिवमग, सहजप्रगट करतारी ॥ ज्यों
 रविकिरन सहजमगदर्शक, यह निमित्त अनिवा-
 री ॥ सुघ ली० ॥ ६ ॥ नाग छाग गज बाघ भील
 दुठ, तारे अघमउधारी । सीस नवाय पुकारत
 अबके, दौल अघमकी बारी ॥ सुघ ली० ॥ ७ ॥

५४

मत राचौ धीधैारी, भव रंभयंभसम जानके ।
 मत राचौ० ॥ टेक ॥ इंद्रजालको रूयाल मोह
 ठग विभ्रमपास पसारी । चहुँगाति विपतिमयी
 जामें जन, भ्रमत भरत दुखभारी ॥ मत० ॥ १ ॥

१ अठारह बारकी । २ पृथ्वीक व । ३ आशिकाय । ४ बुद्धमानो । ५ कलेके
 बंभे छवान ।

रामा मा, बा बंधा, सुत पितु, सुता बंधा, अक्ता-
री । को अचंभ जहां आप आपके, पुत्रदशा वि-
स्तारी ॥ मत राचौ० ॥ २ ॥ घोर नरक दुख
ओर न छोर न लेश न सुख विस्तारी । सुर नर
प्रचुर विषय जुर जारे, को सुखिया संसारी ॥
मत राचौ ॥ ३ ॥ मंडल है आखंडल
छिनमें, नृप कर्मि, सधन भिरारी । जा सुत-
विरह मरी है बाधिनि, ता सुत देह विदारी ॥ मत
राचौ० ॥ ४ ॥ शिशु न हिताहितज्ञान तरुन
उर, मदनदहन परजारी । वृद्ध भये विकलंगी था-
ये, कौन दशा सुखकारी ॥ मत राचौ० ॥ ५ ॥
यो असार लख छार भव्य झट, भये मोखमगचा-
री । यातैं होहु उदास दौल अब, भज जिनपति
जगतारी ॥ मत० ॥ ६ ॥

५५

नित पीजौ धीधारी, जिनवांनि सुधार्मम जा-
नके, नित पी० ॥ टेक ॥ वीरमुंवारविंदतैं प्रगटी,
जन्मजरा गर्दं टारी । गौतमादिगुरु उर-घट व्या-

१ छान् । २ बाहन । ३ कुत्त । ४ देव । ५ लट । ६ कामाभि । ७ जैनशा-
कीको । ८ अमृतसमान । ९ महावीरस्वामीके मुख कमठसं । १० रोष ।

पी, परम सुरुचिकरतारी ॥ नित० ॥ १ ॥ स-
लिलसमान कलिलमलगंजन, बुधमनरंजनहारी ।
भंजन विभ्रमघूलि प्रभंजन, मिथ्याजलदनिवारी ॥
नित पी० ॥ २ ॥ कल्याणकरु उपवनघरिनी,
तरनी भवजलतारी । बंधविदारन पैनी छैनी,
मुक्तिनसैनी सारी ॥ नित पी० ॥ ३ ॥ स्वपर-
स्वरूपप्रकाशनको यह, भानुकला अविकारी । मुं-
नि-मन-कुमुदिनि-मोदन-शशिभा, शमसुखसुमन
सुबारी ॥ नि० ॥ ४ ॥ जाको सेवत बेवत निज-
पद, नसत अविद्या सारी । तीनलोकंपति पूजत
जाको, जान त्रिजगहितकारी ॥ नित० ॥ ५ ॥
कोटि जीभसों महिमा जाकी, कहि न सके
पविधारी । दौल अल्पमति केम कहै यह, अधम-
उधारनहारी ॥ नि० ॥ ६ ॥

- १ जलक समान । २ पापरूपा मैलको नष्ट करनेवाला । ३ “ भंगलतकहि
उपावन घरनी ” ऐसा भी पाठ है । ४ नीका । ५ कर्मबंध । ६ तैली छैनी ।
७ मुनिशेकी मनरूपी कुमुदिनीको प्रफुलित करनेकेलिये चंद्रमाकी रोशनी ।
८ समता-सुखरूपी पुष्पों का, अच्छी भाटिका । ९ जानते वा अनुभवते हैं ।
१० तीन भुवनके राजा इन्द्रादिक । ११ धजधारी इन्द्र ।

५६.

यत् कीजौ जी यारी, धिनगेह देह जइ जा-
निके, मत की० ॥ टेक ॥ मात-तात-रज-बीरजसों
यह, उपजी मलफुलवारी । अस्थिमाल-पल-नसा-
जालकी, लाल लाल जलवारी ॥ मत की० ॥ १ ॥
कर्मकुरंगधलीपुतली यह, मूत्रपुंरीषभंडारी । चर्म-
मँड़ी रिपुर्मघड़ी धन,-घर्म चुरावनहारी ॥ मत की०
॥ २ ॥ जे जे पावन वस्तु जगतमें, ते इन स
विगारी । स्वेदमेदकफ्लेदमयी बहु, मर्दगदव्यालपि-
टारी ॥ मत की० ॥ ३ ॥ जा संयोग रोगेभव तो-
लों, जा वियोग शिवकारी । बुध तासों न ममत्व
करै यह, मूढमतिनको प्यारी ॥ मत की० ॥ ४ ॥
जिन पोषी ते भये सदोषी, तिन पाये दुख भारी ।
जिन तप ठान ध्यानकर शोषी, तिन परनी
शिवनारी ॥ मत की० ॥ ५ ॥ सुरधनु शरदजैलद

१ घृणाका घर । २ हाड मांस नहोके समूहकी । ३ कर्मरूपी हितनोंको
कैसनेवाकी जगहपर पुतलके समान । ४ विष्टा । ५ पत्नीना । ६ चरदा ।
७ दुःख । ८ मदरोगरूपी सांपके लिये पिटारी । ९ संसाररूपीरोग । १० क्षीण
की । ११ इन्द्रधनुष । १२ शरदकनुके बादल ।

जलबुदबुद, त्यों झट विनशनहारी । यार्ते भिन्न
जान निज चेतन दौल होहु शर्मधारी ॥ मत-
की० ॥ ६ ॥

५७.

ऐसा मोही क्यों न अधोगति जावै, जाको
जिनवानी न सुहावै । ऐसा० ॥ टेक ॥ वीतराग-
से देव छोड़कर भैरव यक्ष मनावै । कलपलता
दयालुता तजि, हिंसा इन्द्रायनि बावै^१ ॥ ऐसा०
॥ १ ॥ रुचै न गुरु निर्ग्रन्थभेष बहु, परिग्रही
गुरु भावै । परधन परतियको अभिलाषै, अशनै
अशोधित स्वावै ॥ ऐसा० ॥ २ ॥ परको विभव
देख द्वै सोर्गा^२, परदुख हरख लहावै । धर्महेतु
इक दाम न खरचै, उपवन लक्ष बहावै ॥ ऐसा०
॥ ३ ॥ जो गृहमें संचय बहु अघ तौ, बनहूमें
उठ जावै । अम्बर त्याग कहाय दिगम्बर, बाघ-
म्बर तन छावै ॥ ऐसा० ॥ ४ ॥ आरँभ तज शठ

१. स्वर्गाके धारी । २. कोवै । ३. भोजन । ४. विनाकोषा हुआ । ५. दुःखी ।
६. जल बनानेमें कासों रूपये ।

यंत्रमंत्र करि, जनपै पूज्य मनावै । धाम बाय तज
दासी राखै, बाहिर मढ़ी बनावै ॥ ऐसा ॥ ५ ॥
नाम धराय जती तपसी मन, विषयनमें ललचावै ।
दौलत सो अनंत भव भटकै, औरनको भटकावै
॥ ऐसा० ॥ ६ ॥

५८

ऐसा योगी क्यों न अभयपद पावै, सो फेर
न भवमें आवै । ऐसा० ॥ टेक ॥ संशय-विभ्रम-
मोह-विवर्जित, स्वपरस्वरूप लखावै । लख परमा-
तम चेतनको पुनि, कर्मकलंक मिटावै ॥ ऐसा
योगी० ॥ १ ॥ भवतनभोगविरक्त होय तन नम्र
सुभेष बनावै । मोहविकार निवार निजातम,—अ-
नुभवमें चित लावै ॥ ऐसा योगी० ॥ २ ॥ त्रस-
थावर-बध त्याग सदा परमाददशा छिटकावै ।
रागादिकवश झूठ न भाखै, तृणहु न अँदत
गहावै ॥ ऐसा योगी० ॥ ३ ॥ बाहिर नारि त्यागि
अंतर चिदब्रह्म सुलीन रहावै । परमार्किचन धर्म-

सार सो, द्विविध प्रसंग बहावै ॥ ऐसा० ॥ ४ ॥
 पंच समिति त्रय गुप्ति पाल व्यवहार चरनमग धावै ।
 निश्चय सकलकषायरहित ँहै, शुद्धातम थिर थावै
 ॥ ऐसा योगी० ॥ ५ ॥ कुंकुम पंक दास रिपु तृण
 मणि, व्याल माल सम भावै । आरत रौद्र कुध्यान
 बिडारै, धर्म शुक्लको ध्यावै ॥ ऐसा योगी० ॥ ६ ॥
 जाके सुखसमाजकी महिमा, कहत इन्द्र अकु-
 लावै। दौल तासपद होय दास सो, अविचलकृद्धि
 लहावै ॥ ऐसा० ॥ ७ ॥

५९

लखौ जी या जिय भोरेकी बातें, नित करत
 अहित हित घातें । लखौ जी०॥ टेक ॥ जिन गन-
 घर मुनि देशव्रती समकिती सुखी नित जातें ।
 सो पय ज्ञान न पान करत न अघांत विषय-
 विष खातें ॥ लखौ० ॥ १ ॥ दुखस्वरूप दुखफलद
 जलदसम, टिकत न छिनक बिलातें । तजत न
 जगत न भजत पतित नित, रचत न फिरत

१ सो प्रकारका परिच्छ । २ गुप्त होता है । ३ दुःखरूप का स्वेमाद्य ।
 ४ वाक्य ।

तहाँतैं ॥ लखौ० ॥ २ ॥ देह-गेह-घन-नेह ठान
 अति, अघ संचत दिन रातैं । कुगति विपतिफ-
 लकी न भीत, निश्चित प्रमाददशातैं ॥ लखौ०
 ॥ ३ ॥ कबहुं न होय आपनो परद्रव्यादि पृथक
 चंतुघातैं । पै अपनाय लहत दुख शठ नभै-हतन
 चलावत लातैं ॥ लखौ० ॥ ४ ॥ शिवगृहद्वार सार
 नरभव यह, लहि दश दुर्लभतातैं । खोवत ज्यौं
 मनि काग उड़ावत, रोवत रंकपनातैं ॥ लखा० ॥ ५ ॥
 चिदानंद निर्द्वंद स्वपद तज, अपद-विपद-पद रातैं ।
 कहत सुशिख गुरु गहत नहीं उर, चहत न सुख
 समतातैं ॥ लखौ० ॥ ६ ॥ जैनवैन सुन भवि बहु भवहर,
 छूटे द्वंददशातैं । तिनकी सुकथा सुनत न गुंनत
 न, आतमबोधकलातैं ॥ लखौ० ॥ ७ ॥ जे जन
 समुझि ज्ञानदृगचारित, पावन पयवर्षातैं । ताप-
 विमोह हन्यौ तिनको जस, दौल त्रिभोन वि-
 ह्यातैं ॥ लखौ० ॥ ८ ॥

१ स्वच्छन्दसे । २ आकाशके घात करनेको । ३ विपत्तिस्थानमें क्लेशोंन ।
 ४ मनन नहीं करके ।

६०.

सुनो जिया ये सतगुरुकी बातें, हित कहत
 दयाल दयातें । सुनो० ॥ टेक ॥ यह तन आन
 अचेतन है तू, चेतन मिलत न यातें । तदपि
 पिछान एक आतमको, तजत न हठ
 शठतातें ॥ सुनो० ॥ १ ॥ चहुंगति फिरत
 भरत ममताको, विषय महाविष खातें । तदपि
 न तजत न रजंत अभागे, दृग्व्रंतबुद्धिसुघातें ॥
 सुनो० ॥ २ ॥ मात तात सुत भ्रात स्वजन तुझ,
 साथी स्वारथनातें । तू इन काज साज गृहको
 सब, ज्ञानादिक मत्त घातें ॥ सुनो० ॥ ३ ॥ तन
 धन भोग संयोग सुपनसम, बार न लगत बि-
 लातें । ममत न कर भ्रम तज तू भ्राता, अनुभव-
 ज्ञान-कलातें ॥ सुनो० ॥ ४ ॥ दुर्लभ नरभव सु-
 थल सुकुल है, जिन उपदेश लहा तें । दौल तजौ
 मनसो ममता ज्यो, निबड़ो द्वंददशातें ॥ सुनो० ॥ ५ ॥

६१.

मोही जीव भरमतमते नहिं, वस्तुस्वरूप लखै

१ संकल्पवान होता है । २ दर्शन-ज्ञान-चरित्रको अट्टलते ।

हे जैसे । मोही० ॥ टेक ॥ जे जे जड़ चेतनकी
परनति, ते अत्रिवार परनवें वैसैं । वृथा दुखी शठ
कर विकल्प यों, नहिं परिनवें परिनवें ऐसैं ॥
मोही० ॥ १ ॥ अशुचि सरोग समल जड़मूरत,
लखत विलात गगनघन जैसे । सो तन ताहि
निहार अपनपो, चहत अबाध रहै थिर कैसे ॥
मोही० ॥ २ ॥ सुत-तिय-बंधु-वियोगयोग यों, ज्यों
सराय जन निकसैं पैसैं ॥ बिलखत हरखत शठ
अपने लखि, रोवत हँसत मत्तजन जैसे ॥ मोही०
॥ ३ ॥ जिन-रवि-वैन-किरन लहि जिन निज,
रूप सुभिन्न कियो परमैसैं ॥ सो जगमौल दौ-
लको चिर थित, मोहविलास निकास हदैसैं ॥
मोही० ॥ ४ ॥

६२.

ज्ञानी जीव निवार भरमतम, वस्तुस्वरूप वि-
चारत, ऐसैं । ज्ञानी० ॥ टेक ॥ सुत तिय बंधु

१ । विश्वका निवारण नहीं हो सकता । २ कैसा परिणमन होना चाहिये
वैसा । ३ इसप्रकार नहीं परिणमै, किन्तु इसप्रकार अपनी इच्छानुसार परिणमै ।
४ निकसैं । ५ प्रवेक करे ।

धनादि प्रगट पर, ये मुझतैं हैं भिन्नप्रदेशैं । इनकी परनति है इन आश्रित, जो इन भाव परनवैं वैसें ॥ ज्ञानी० ॥ १ ॥ देह अचेतन चेतन में, इन परनति होय एकसी कैसें । पूरन-गलन स्वभाव-घौ तन, में अज अचल अमल नभ जैसें ॥ ज्ञानी० ॥ २ ॥ पर परिनमन न इष्ट अनिष्ट न, वृथा रागरुष दंढ भयेसें । नसै ज्ञान निज फँसै बंधमें, मुक्त होय समभाव लयेसें ॥ ज्ञानी० ॥ ३ ॥ विषय-चाह दवदाह नसै नहिं, बिन निज सुधासिंधुमें पैसें । अब जिनवैन सुने श्रवननतैं, मिटै विभाव करूं विधि तैसें ॥ ज्ञानी० ॥ ४ ॥ ऐसो अवसर कठिन प्लय अब, निजहितहेत विलंब करेसें । पछताओ बहु होय सयाने, चेतन दौल छुटो भव भैसें ॥ ज्ञानी० ॥ ५ ॥

६३.

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो,
ज्यों शुक नभचाळ किरि, नलिनी लटकयो ॥

१ दुख होने और गलन होनेका स्वभावकाका पुट्टक होया है ।

अपनी० ॥ टेक ॥ चेतन अविरुद्ध शुद्ध, दश-
 बोधमय विशुद्ध, तजि जड़-रसफरसरूप, पुद्गल
 अपनायौ । अपनी० ॥ १ ॥ इन्द्रियसुखदुःखमें
 नित्त, पाग रागरुखमें चित्त, दायकभवविपतिवृन्द,
 बंधको बढ़ायौ । अपनी० ॥ २ ॥ चाहदाह दाहै,
 त्यागौ न ताह चाहै, समतासुधा न गाहै, जिन
 निकट जो बतायौ । अपनी० ॥ ३ ॥ मानुष भव
 सुकुल पाय, जिनवरशासन लहाय, दौल निजस्व-
 भाव भज, अनादि जो न ध्यायौ । अपनी० ॥ ४ ॥

६४.

जीव ! तू अनादिहीतैं भूल्यौ शिवगैलवा ।
 जीव० ॥ टेक ॥ मोहमदवार पियौ, स्वपद विसार
 दियौ, पर अपनाय लियौ, इन्द्रियसुखमें रचियौ,
 भवतैं न भियौ न तजियौ मनमैलवा । जीव०
 ॥ १ ॥ मिथ्या ज्ञान आचरन, धरिकर कुमरन,
 तीन लोककी धरन, तामें क्रियो है फिरन, पायो
 न शरन न लड़ायौ सुख शैलवा । जीव० ॥ २ ॥

अब नरभव पायो, सुथल सुकुल आयो, जिन उप-
देश भायो, दौल झट छिटकायो, परपरनति
दुखदायिनी चुरैलवा । जीव ॥ ३ ॥

६५.

आपा नहिं जाना, तूने कैसा ज्ञानधारी रे
॥ टेक ॥ देहाश्रित करि क्रिया आपको, मानत
शिवमगचारी रे । आपा० ॥ १ ॥ निजनिवेदविन
घोर परीसह, विफल कही जिन सारी रे । आपा०
॥ २ ॥ शिवचाहै तो द्विविधे कर्मते, कर निजपर-
नति न्यारी रे ॥ आपा० ॥ ३ ॥ दौलत जिन
निजभाव पिछान्यो, तिन भवविपति विदारी रे ।
आपा० ॥ ४ ॥

६६.

आतमरूप अनूपम अद्भुत, याहि लखें भव-
सिंधु तरो । आ० ॥ टेक ॥ अल्पकालमें भरत
चक्रधर, निज आतमको ध्याय खरो । केवलज्ञान
पाय भवि बोधे, ततछिन पायो लोकेशिरो । आ०

१ सुकूल । २ 'द पिछाना' ऐसा भी पाठ है । ३ अपनी आत्माका स्वभाव
कामेतिना । ४ 'द्विविध कर्म कर' ऐसा भी पाठ है । ५ लोकेशिबर सिद्धशिखा ।

॥ १ ॥ या विनसमुक्षे द्रव्यलिङ्गि मुनि, उर्ध्वं तत्प-
कर भार भरो । नवग्रीवकपर्यन्त जाय चिर, फेर
भ्रंवारणवमार्हिं परो ॥ आत० ॥ २ ॥ सम्यग्दर्शन
ज्ञानचरनतप, येहि जगतमें सार नैरो ! । पूरव
शिवको गये जाहिं अब, फिर जै हैं यह नियत करो
॥ आ० ॥ ३ ॥ कोटिग्रन्थको सार यही है, येही
जिनवानी उचरो । दौल ध्याय अपने आत्मको,
मुक्तिरमा तव बेग बरो ॥ आ० ॥ ४ ॥

६७.

आप भ्रम विनाश आप आप जान पायो, कर्ण-
घृत सुवर्ण जिमि चितार चैन थायो ॥ आप० ॥
टेक ॥ मेरो तन तनमय तन मेरो में तनको, त्रिकाल
यों कुबोध नश सुबोधभान जायौ ॥ आप० ॥ १ ॥
यह सुजैनवैन ऐन, चिंतत पुनि पुनि सुनैन. प्र-
गटो अब भेद निर्ज, निवेदगुन बढ़ायौ । आप०
॥ २ ॥ योंही त्रित अत्रित मिश्र, ज्ञेय ना अहेय

१ घेर । २ मन्त्रमुद्रये । ३ हे पुत्रो । ४ निक्षय । ५ हुनकोहे ।
६ आत्मज्ञान ।

हेयं, इंधन धनंज जैसे, स्वामियोग गाथी । आप०
 ॥ ३ ॥ भँवर पोतें छुटत झँटति, बाँछित तट
 निकटत जिमि, मोह रागरुख हर जिय, शिवतट
 निकटायौ ॥ आप० ॥ ४ ॥ विमल सौख्यमय स-
 दीव, मैं हूँ मैं नहिँ अजीव, द्योत होत रज्जुमय, भुजंग
 भय भगायौ । आप० ॥ ५ ॥ यों ही जिनचंद
 सुगुन, चिंतत परमारथ चुन, दौल भाग जागो
 जब, अल्पपूर्व आयौ । आप० ॥ ६ ॥

६८.

विषयोंदा मद भानै, ऐसा है कोई वे ॥ टेक ॥
 विषय दुःख अर दुखफलतिनको, यों नित चित्त
 न ठानै । विषयोंदा० ॥ १ ॥ अनुपयोग उपयोग
 स्वरूपी, तनचेतनको मानै । विषयों० ॥ २ ॥ बर-
 नादिक रागादि भावतैं, भिन्नरूप तिन जानै । वि-
 षयों० ॥ ३ ॥ स्वपर जान रुषराग हान, निजमें निज
 परनति सानै । विषयों० ॥ ४ ॥ अंतर बाहरको
 परिग्रह तजि, दौल बसै शिवथानै । विषयों० ॥ ५ ॥

१ शक्ति । २ उत्तम योग । ३ अज्ञान । ४ सांग्र ही । ५ विषयोंका (पजावी)।

६९.

और सबे जगद्वन्द मिटावो, लौ लावो जिन-
आगमओरी । और० ॥ टेक ॥ है असार जग-
द्वन्द्व बंधकर ये कछु गरज न सारत तोरी ।
कमैला चपलाई यौवन सुरघनु, स्वजन पथिकजन
क्यों रति जोरी ॥ और० ॥१॥ विषयकषाय दुखद
दोनों भव, इनतैं तोर नेहकी डोरी । परद्रव्यनको
तू अपनावत, क्यों न तजै ऐसी बुधि भोरी ॥
और० ॥ २ ॥ बीत जाय सागरथिति सुरकी, नर-
परजायतनी अति थोरी । अवसर पाय दौल अब
चूको, फिर न मिलै मनि सागरजोरी ॥ और० ॥३॥

७०.

और अबै न कुदेव सुहावैं, जिन ! थांके चरनन
रति जोरी ॥ और० ॥ टेक ॥ कामकोहवश गहैं
अशन आसि, अंकं निशंक धरैं तिय गोरी । औ-
रनके किम भाव सुधारैं, आप कुभाव-भार-धर-
घोरी ॥ और० ॥ १ ॥ तुम विनमोह अँकोह

ओहविन, छके शांतरस पीय कटोरी । तुम तज
 स्त्र्य अमेर्य भरी जो, जानत हो विपदा सब मोरी
 ॥ और ॥ २ ॥ तुम तज तिनें भजै शठ जो सो,
 दाख न चाखत खात निबोरी । हे जगतार
 उधार दौलको, निकट बिकट भवजलधि-हि-
 लोरी ॥ और० ॥ ३ ॥

७१.

कबघों मिलें मोहि श्रीगुरु मुनिवर, करि हैं
 भवदाधि पारा हो । कबघों ॥ टेरे ॥ भोगउदास
 जोग जिन लीनों, छांड़ि परिग्रहभारा हो । इंद्रि-
 यदमन वमन मद कीनो, विषय कषाय निवारा हो
 ॥ कबघों० ॥ १ ॥ कंचन काँच बराबर जिनके,
 निंदक वंदक साँरा हो । दुर्धर तप तपि सम्यक्
 निज घर, मन वच तनकर धारा हो ॥ कबघों०
 ॥ २ ॥ ग्रीषम गिरि हिम सरितातीरें, पावस
 तरुतर ठारा हो । करुणाभीर्न चीन त्रस थावर,

१ लेवा । २ अपरिम ज । ३ भवसमुद्रका कहें । ४ सब । ५ 'जीन' ऐसा
 जो पाठ है ।

ईर्यापंथ समारा हो ॥ कबधों० ॥ ३ ॥ मारमार ब्रतधा
र शील दृढ, मोहमहामल टारा हो । मास छमास
उपास वास वन, प्रासुक करत अहाग हो ॥ क-
बधों० ॥ ४ ॥ औरतरोद्रैलेश नहिं जिनके, धर्म
शुंकल चित धारा हो । ध्यानारूढ गूढ निजआ-
तम, शुधउपयोग विचारा हो ॥ कबधों० ॥ ५ ॥
आप तरहिं औरनको तारहिं, भवजलसिंधु-
अपारा हो । दौलत ऐसे जैनजातिनको, नितप्रति
धोक हमारा हो ॥ कबधों० ॥ ६ ॥

७२

कुमति कुनारि नहीं है भन्नी रे, सुमति नारि
सुंदर गुनवाली ॥ कुमति० ॥ टेक ॥ वासों विरचि
रचौ नित यासों, जो पावो शिवधाम गली रे ।
वह कुबजा दुखदा यह राधा, बाधाटारन करन
रली रे ॥ कुमति० ॥ १ ॥ वह कारी परसों रति
ठानत, मानत नाहिं न सीख भली रे । यह गोरी

१ कामदेवका मारकर । २ 'धर तप तपि समकित गौह निज विल, करि
मनवचत सारा हो । मासमास उपवास धासवन' ऐसा भी पाठ है । ३ आर्ति-
ध्यान । ४ रौद्रध्यान । ५ धर्मध्यान । ६ शुकध्यान ।

चिदगुणसहचारिनि, रमत सदा स्वसमाधि-थली
रे ॥ कुमति० ॥ २ ॥ वा सँग कुथल कुयोनि
वस्यो नित, तहाँ महादुख-बेल फली रे । या सँग
रसिक भविनकी निजमें, परिनति दौल भई न
चैली रे ॥ कुमति० ॥ ३ ॥

७३

गुरु कहत सीख इमि बार बार, विषसमविषय-
नको टार टार ॥ गुरु० ॥ टेक ॥ इन सेवत
अनादि दुख पायो, जनममरन बहु धाराधार ।
गुरु० ॥ १ ॥ कर्माश्रित बाधाजुतफाँसी, बंधवढा-
वन दंडकार । गुरु० ॥ २ ॥ ये न इन्द्रिके तृप्ति-
हेतु जिमि, तिसै न बुझावत क्षारैवार । गुरु० ॥
॥ ३ ॥ इनमें सुख कल्पना अबुधके, बुधजन
मानत दुख प्रचार । गुरु० ॥ ४ ॥ इन तजि ज्ञान-
पियूष चरुयो तिन, दौल लही भववारपार ।
गुरु० ॥ ५ ॥

७४

घडि घडि पल पल छिन छिन निशदिन, प्रभु-
जीका सुमरन कर ले रे । घडि० ॥ टेक ॥ प्रभु-
सुमरेतैं पाप कटत हैं, जनममरनदुख हर ले रे ।
घडि घडि० ॥ १ ॥ मनत्रचक्राय लगाय चरन-
चित, ज्ञान हिये बिच धर लेरे । घडि घडि० ॥
॥ २ ॥ दौलतराम, धर्मनौका चढि, भवसागरतैं
तिर ले रं । घडि घडि० ॥ ३ ॥

७५.

चिन्मूगतदृग्धारीकी मोहि, रीति लगत है अंटा-
पटी । चिन्मू० ॥ टेक ॥ बाहिर नारकिकृत दुख-
भोगे, अंतर सुखरस गटागटी । रमत अनेक सुर-
निसँग पै तिस, परनतिंतैं नित हटाहंटी ॥
चिन्मू० ॥ १ ॥ ज्ञानविरागशक्तिंतैं विधिफूल,
भोगत पै विधि घटौघटी ॥ सदननिवासी तदपि
उदासी, तातैं आसव छटाछटी ॥ चिन्मू० ॥ २ ॥
जे भवहेतु अबुधके ते तम, करत बन्धकी शटा-

शटी । नारक पशु तिय षंढं विकलत्रय, प्रकृतिनकी
हे कटाकटी ॥ चि० ॥ ३ ॥ संयम धर न सकै पे
संयम, धारनकी उर चटाचटी । तामु सुयशगु-
नकी दौलतके, लगी रहै नित रटारटी ॥ चि० ॥ ३ ॥

७६

चेतन यह बुधि कौन सयानी, कही सुगुरुहित
सीख न मानी ॥ टेक ॥ कठिन काकताली ज्यों
पायो, नरभव सुकुल श्रवण जिनवानी । चेतन०
॥ १ ॥ भूमि न होत चांदनीकी ज्यों, त्यों नहिं
धनी ज्ञेयको ज्ञानी । वस्तुरूप यों तू यों ही शठ,
हटकर पकरत सोंज विरानी ॥ चेतन० ॥ २ ॥
ज्ञानी होय अज्ञान रागरुष,—कर निज सहज
स्वच्छता हानी । इन्द्रिय जड तिन विषय अचेतन,
तहाँ अनिष्ट इष्टता ठानी ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ चाहै
सुख दुख ही अवगाहै, अब सुनि विधि जो है
सुखदानी । दौल आपकरि आप आपमें, ध्या—

१ नपुंसक । २ काकतालीय म्यायसे अर्थात् जैसे ताड़वृक्षसे ताड़फलका
टुकड़ा और कागका उसे आकाशमें ही पा लेना कठिन है वैसे । ३ 'षडारे',
पेसा भी पाठ है ।

य लाय लय समरससानी ॥ चेतन० ॥ ४ ॥

७७

चेतन कौन अर्नाति गही रे, न मानै सुगुरु
कही रे । चेतन० ॥ जिन विषयनवश बहु दुख
पायो, तिनसों प्रीति ठही रे । चेतन० ॥ १ ॥
चिन्मय है देहादि जडनसों, तो मति पागि
रही रे । सम्यग्दर्शनज्ञानभाव निज, तिनको ग-
हत नहीं रे ॥ चेतन० ॥ २ ॥ जिनवृष पाय वि-
हाय रागरुष, निजहित हेत यही रे । दौलत जि-
न यह सीख धरी उर, तिन शिव सहज लही
रे ॥ चेतन० ॥ ३ ॥

७८

चेतन तैं यों ही भ्रमठान्यों, ज्यों मृग मृगतृष्णा
जल जान्यों । चेतन० ॥ टेक ॥ ज्यों निशितममें
निरख जेवरी, भुजग मान नर भय उर आन्यों ॥
चेतन० ॥ १ ॥ ज्यों कुध्यान वश महिष मान नि
ज फ़ाँसि नर उरमाहीं अकुलान्यों । त्यों चिर मो-

१ ' निष्कृत्याह्वयि न्नि, देवा भी पाठ है ।

ह अविद्या पेच्यो, तेरो तैं ही रूप भुलान्यो ॥
 चेतन० ॥२॥ तोय तेलज्यो मेल न तनको, उपज
 स्वपतमें सुरुदुख मान्यो । पुनि परभावनको करता है
 तैं तिनको निज कर्म पिछान्यो ॥ चेतन० ॥ ३ ॥
 नरभव सुथल सुकुल जिनवानी, काललब्धिवल
 योग मिलान्यो । दौल सहज भज उदासीनता
 तोष-रोष दुखकोष जु भौन्यो ॥ चेतन० ॥ ४ ॥


७९

चेतन अब धरि सहजसमाधि, जातैं यह
 विनशै भव-व्याधि । चेतन० ॥ टेर ॥ मोह ठग्यो-
 री स्वार्थके रे, परको आपा जान । भूल निजात-
 म ऋद्धिको तैं, पाये दुःख महान ॥ चेतन० ॥ १ ॥
 सादि अनादि निगोद दोयमें, परयो कर्मवश जा-
 य । श्वासउसासमझार तहाँ भव, मरन अठारह
 याय ॥ चेतन० ॥ २ ॥ काल अनंत तहाँ यों वी-
 त्यो, जब भइ मंद कषाय । भू जल अँनिल अँनैल
 पुन तरु है, काल असंख्य गमाय ॥ चेतन० ॥ ३ ॥

क्रमक्रम निकसि काठिन तै पाई, शंखादिक परजा-
य । जल थल खचर होय अघ ठाने, तस वश शु-
भ्रं लहाय ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ तितै सागरलों बहु
दुख पाये, निकस कबहुँ नर थाय । गर्भजन्म-शि
शु-तरुण-वृद्ध दुख, सहे कहे नहिं जाय । चेतन०
॥५॥ कबहुँ किंचित पुण्यपाकतें, चउविधिदेव क-
हाय । विषयआश मन त्रास लही तहँ, मरनसम-
य विललाय ॥ चेतन० ॥ ६ ॥ यों अपार भवस्वार
वारमें, भ्रम्यो अनंते काल । दौलत अब निजभा-
व-नाव चढि, लै भवाब्धिकी पाल ॥ चेतन० ॥७॥

८०

जिन रागदोषत्यागा वह सतगुरू हमारा ।
जिन राग० ॥ टेक ॥ तज राजकृद्ध तृणवत
निज काज संभारा । जिन राग० ॥ १ ॥ रहता
है वह वनखंडमें धरि ध्यान कुठारा । जिन
मोह महा तरुको जडमूल उखारा ॥ जिन राग०
॥ २॥ सर्वांग तज परिग्रह दिगअंबर धारा ।

१ केकर (पकी) । २ यहाँ । ४ यह सब दोस्ताना भाव से
नहीं बाधता होता, सब  करके है ।

अनंतज्ञानगुणसमुद्र, चारित भँडारा ॥ जिन राग०
॥ ३ ॥ शुक्लामिकोप्रजालके वसुकानन जारा । ऐसे
गुरूको दौल है नमोऽस्तुहमारा ॥ जिनराग ॥ ४ ॥

८१

चिदरायगुन मुनो सुनो, प्रशस्त गुरुगिरा ।
समस्त तजविभाव, हो स्वकीयमें थिरा । चिद०
॥ टेक ॥ निजभावके लखाव विन, भवाब्धिमें
परा । जामन मरन जरात्रिदोष अभिमें जरा ॥
चिद० ॥ १ ॥ फिर सादि औ अनादि दो,
निगोदमें परा । तहँ अंकके असंख्यभाग, ज्ञान
ऊवरा ॥ चिद० ॥ २ ॥ तहाँ भव अंतर
मुहूर्तके, कहे गनेश्वरा । छयासठ सहस त्रिशत
छतीस, जन्मघर मरा ॥ चिद० ॥ ३ ॥ यों वशि
अनंतकाल फिर, तहाँतें नीसरा । भूजल अनिल
अनल प्रतेक, तरुमें तन धरा ॥ चिद० ॥ ४ ॥
अंधरीर कुंथु कान, मच्छ अवतरा । जल थल
खचर कुनर नरक, असुर उपज मरा ॥ चिद०
॥ ५ ॥ अबके सुथल सुकुल ~~सुकुल~~ सुकुल, बोध लहि

खरा । दौलत त्रिरत्नसाध लाघ, पद अनुत्तरा ॥
चिद० ॥ ६ ॥

८२

चित चितकैँ विदेशं क्व, अशेषं परं बमूं । दुखदा
अपार विधिं दुर्भार, -की चमूं दमूं ॥ चित वि०
॥ टक ॥ ताजि पुण्यपाप थाप आप, अर्पिमें रंमूं ।
कव राग-आग शर्म-बाग, -दाघनी शंमूं ॥ चित-
चितकैँ० ॥ १ ॥ दृग्ज्ञानभानतैँ मिथ्या, अज्ञान-
तम दमूं । कव सर्व जाव प्रैणिभूत, सत्त्वसों छमूं
॥ चित चितकैँ० ॥ २ ॥ जैलमल्लिस-कैँल सुकलै-
सुबल परिनमूं । दलकैँ त्रिशलमल्लैँ कव, अटल-
पद पमूं ॥ चित चितकैँ० ॥ ३ ॥ कव ध्याय अज
अमरको फिर न, भवविपिन भमूं । जिन पूर कोलैँ
दौलको यह, हेतु हों नमूं ॥ चित चितकैँ० ॥ ४ ॥

१ आरमा । २ सम्पूर्ण । ३ परपदाय । ४ वसन कर दं-छोट दं । ५ कर्म ।
६ दो चार अर्थात् आठ । ७ कौल । ८ आत्मार्थे । ९ रमण कर । १० कल्या-
णरूप बागडी अलानेवाडी । ११ सामन ककैँ, शीत-ककैँ । १२ दर्शन और कृष्ण-
कयी सुर्यसे । १३ बलप्राणवयी । १४ कड । १५ शरीर । १६ कृष्णकल्याणके
ककैँसे । १७ वाया, मिथ्यात, मिथ्यानरूप तीन कृष्णकयी पदकथान । १८ बोझ-
पद । १९ प्रतिज्ञा ।

८३

जिनछवि लखत यह बुधि भयी । जिन० ॥
 टेक ॥ मैं न देह चिदंकमय तन, जड फरसरसमयी
 ॥ जिनछवि० ॥१॥ अशुभशुभफल कर्म दुखसुख,
 पृथक्ता सब गयी । रागदोषविभावचालित, ज्ञान-
 ता थिर थयी ॥ जिनछवि० ॥२॥ परिगहन आकु-
 लता दहन, विनशि शमता लयी । दौल पूरव-
 अलभ आनँद, लह्यो भवाथिति जयी ॥ जिन० ॥३॥

८४

जिनवेन सुनत, मोरी भूल भगी ॥ जिनवेन०
 ॥ टेक ॥ कर्मस्वभाव भाव चेतनको, भिन्न पिछा-
 नन सुमति जगी । जिन० ॥ १ ॥ जिन अनु-
 भूति सहज ज्ञायकता, सो चिर रूप-तुष-मैल-पगी
 । स्यादवाद धुनि-निर्मल-जलते, विमल भई सम-
 भाव लगी ॥ जिन० ॥ २ ॥ संशयमोहभरमता
 विघटी, प्रगटी आतमसोंज सगी । दौल अपूरव
 संगल पायो, शिवसुम्ब लेन होंस उमगी ॥ जिन० ॥३॥

८५

जिनवानी जान सुजान ! रे । जिनवानी० ॥
 टेक ॥ लागरही चिरतैं विभावता, ताको कर अव-
 सान रे । जिनवानी० ॥ १ ॥ द्रव्यक्षेत्र अरु काल-
 भावकी, कथनीको पहिचान रे । जाहि पिछाने
 स्वशरभेद सब, जाने परत निदान रे । जिनवानी०
 ॥ २ ॥ पूरव जिन जानी तिनहीने, भानी संसृत-
 बान रे । अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावैं शिव-
 थान रे ॥ जिनवानी० ॥ ३ ॥ कह 'तुषमाण' मुनी
 शिवभूती, पायो केवल-ज्ञान रे । यों लखि दौलत
 सतत करो भवि, चिद्वचनामृतपान रे ॥ जिन० ॥ ४ ॥

८६

जम आन अचानक दावैगा, जम आन० ॥ टेक ॥
 छिनछिन कटत घटत थितैं ज्यों जल, अंजुलिको
 झर जावैगा ॥ जम आन० ॥ १ ॥ जन्मेंतालतरुतैं
 पर जियफल, कों लग बीच रहावैगा । क्यों न

१ नाम की । २ अमणकी आवत । ३ आयु । ४ कर्मकी तादृशता
 पद करके जीवकी कर्म बीचमें कबतक रहेगा । कह तो नीचे जोगी ही,
 अर्थात् करेगा ।

विचार करै नर आस्त्रि, मरन महीमें आवैगा ॥
जम आन० ॥२॥ सोवत मृत जागत जीवन ही,
श्वासा जो थिर थावैगा । जैसे कोऊ छिपै सदासों,
कबहुँ अवशि पलावैगा ॥ जम आन० ॥ ३ ॥
कहुँ कबहुँ कैसे हू कोऊ, अंतकसे न बचावैगा ।
सम्यकज्ञानपियूष पियेसों, दौल अमरपद पावैगा
॥ जम आन० ॥ ४ ॥

८७

छाँडत क्यो नहिं रे, हे नर ! रीति अयानी ।
बारबार सिख देत सुगुरु यह, तू दे आनाकानी ॥
छाँडत० ॥ टेक ॥ विषय न तजत न भजत
बोध व्रत, दुखसुखजाति न जानी । शर्म चहै न
लहै शठ ज्यों घृत,—हेत विलोवत पानी ॥ छाँडत०
॥ १ ॥ तन धन सदन स्वजनजन तुझसों, यह
परजाय विरानी । इन परिनमन-विनश-उपज-
नसों, तैं दुख सुखकर मानी ॥ छाँडत० ॥ २ ॥
इस अज्ञानतैं चिरदुख पाये, तिनकी अकथे

कहानी । ताको तज दृग-ज्ञान-चरन भज, निज-
परनति शिवदानी ॥ छाँडत० ॥ ३ ॥ यह दुर्लभ
नरभव सुसँग लहि, तत्त्व-लखावन वानी । दौल
न कर अब परमें ममता, घर समता सुखदानी
॥ छाँडत० ॥ ४ ॥

८८

राचि रह्यो परमाहिं अयाने ! तू अपनो रूप
न पिछानै रे ॥ राचि रह्यो० ॥ टेक ॥ अबिचल
चिनमूरत विनमूरत, सुखी होत तस ठानै रे ॥ राचि
रह्यो० ॥ १ ॥ तन धन भ्रात नात सुत जननी,
तू इनको निज जानै रे । ये पर इनहिं
वियोगयोगमें, यों ही सुख दुख मानै रे ॥ राचि०
॥ २ ॥ चाह न पाये पाय तृष्णा, सेवत ज्ञान
जघानै रे । विपतिखेत विधिबंधहेत पै, जान
विषय रस खानै रे ॥ राचि० ॥ ३ ॥ नरभव
जिनसुतश्रवण पाय अब, कर निज सुहित
सयानै रे । दौलत आतम-ज्ञान-सुधारस, पीवो
सुगुरु बखानै रे ॥ राचि रह्यो० ॥ ४ ॥

८९

तू काहेको करत रति तनमें, यह अहितमूल
 जिम कारासदन । तू काहेको० ॥ टेक ॥
 चरमपिहित पल-रुधिर-लिप्त मल,—दारसत्वे
 छिनछिनमें ॥ तू काहेको० ॥ १ ॥ आँयु-निगड
 फ़ैसि विपति भरै सो, क्यों न चितारत मनमें ॥
 तू काहेको ० ॥ २ ॥ सुत्रन लाग त्याग अब
 याको, जो न भ्रमै भव-वनमें ॥ तू काहेको०
 ॥ ३ ॥ दौल देहसों नेह देहको,—हेतु कस्यो
 ग्रंथनमें ॥ तू काहेको ० ॥ ४ ॥

९०

घन घन साधर्मीजन मिलनकी घरी, वासत-
 भ्रम-तापहरन ज्ञानघनझरी ॥ टेक ॥ जाके
 विन पाये भवविपति अति भरी । निजपरहित
 अहितकी कछू न सुध परी ॥ घन० ॥ १ ॥ जाके
 परभाव चित्त सुथिरता करी । संशय भ्रम मो-
 हकी सु वासना टरी ॥ घन० ॥ २ ॥ मिथ्या

१ कारागार-बदलवाना । २ चमकत बका हुई । ३ मांस । ४ आयुक्षय
 -बेबिनामें ।

गुरुदेवसेव टेव परिहरी । वीतरागदेव सुगुरुसेव
उरधरी ॥ धन० ॥ ३ ॥ चारों अनुयोग सुहितदेश
दिठपरी । शिवमगके लाहँकी सुचाह विस्तरी ॥
धन० ॥ ४ ॥ सम्यक् तरुधरानि येह करने-करि
हरी । भवजलको तरँनि समर-भुजग-विषजरी ॥
धन० ॥ ५ ॥ पूरवभव या प्रसाद रमनि शिववरी ।
सेवो अब दौल याहि बात यह खगि ॥ धन० ॥ ६ ॥

९१

धनि मुनि जिनकी, लगी लों शिवओरने ।
धनि ॥ टंक ॥ सम्पद्दर्शनज्ञानचरन-निधि, धरत
हरत भ्रमचोरने ॥ धनि० ॥ १ ॥ यथाजातमुद्राजुत
सुंदर, सदन विजने गिरिकोरने । तृनकंचन अरि
स्वजन गिनत मम, निंदन और निहारने । धनि०
॥ २ ॥ भवमुखवाह सकल तजि बल साजे, करत
द्विविधतप धारने । परमविरागभाइ 'पेधिते' नित,

१ श्रुतापेक्ष । २ लाभका । ३ इन्द्रियकर्षी हाथियोंका सिंहक लज्जान ।
४ अहाज । ५ कामयुक्तता वर्षके विषे विवनासक अहा । ६ लजन । ७ 'दे'
विभाक्त सः प्रगह का' के अर्थमें हे । ८ जन्मदिग्गव । ९ निर्जन ।
१० प्रार्थना करनके । ११ परमवैराग्यक भावकयो बजते ।

पूरत करम कठोरनै ॥ धनि० ॥ ३ ॥ छीन शरीर
न हीन चिदानन, मोहत मोह झकोरनै । जग-
तप-हर भैवि-कुमुद-निशाकर मोदन दौल चको-
रनै ॥ धनि० ॥ ४ ॥

९२

धनि मुनि जिन यह, भाव पिछाना ॥ धनि
मुनि० ॥ टेक ॥ तनव्यय वाँछित प्रापति मानी,
पुण्यउदय दुख जाना । धनि० ॥ १ ॥ एकविहारी
सकल ईश्वरता, त्याग महोत्सव माना । सब
सुखको परिहार सार सुख, जानि रागरुषभाना
॥ धनि० ॥ २ ॥ वित्स्वभावको नित्य प्रान निज,
विमल-ज्ञानदृगसाना । दौल कौन सुख जान
लह्या तिन, करो शांतिरमपाना ॥ धनि० ॥ ३ ॥

९३

धनि मुनि जिन आतमहित कीना । भव
असार तन अशुचि विषय विष, जान महाव्रत

१ भव्यरूपा कुमोदनाका चन्द्रमा । २ एश्वर्य । ३ सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन
सहित ।

लीना ॥ धनि मुनि जिन आतमहित० ॥ टेक ॥
 एकाविहारी परिगहछारी, परिसहसहत अरी ना ।
 पूरवतन तपसाधन मान न, लाज गनी परवीना ॥
 धनि मुनि० ॥ १ ॥ शून्य सदन गिर गहन
 गुफामें, पदमासन आसीना । परभावनतैं भिन्न
 आपपद, ध्यावत मोहविहीना ॥ धनि मुनि० ॥
 ॥ २ ॥ स्वपरभेद जिनकी बुधि निजमें, पागी बाह्य
 लगी ना ॥ दौल तास पदवारिजेरजने किंस अध
 करे न छीना ॥ धनि मुनि० ॥ ३ ॥

९४

निपट अयाना, तैं आपा न जाना, नाहक
 भरम भुलाना बे । निपट० ॥ टेक ॥ पीय अनादि
 मोहमद मोह्यो, परपदमें निज माना बे ॥ निपट०
 ॥ १ ॥ चेतन चिह्न भिन्न जडतासों, ज्ञानदरशरस
 -साना बे । तनमें छिप्यो लिप्यो न तदपि ज्यों,
 जलमें कैजदल माना बे ॥ निपट० ॥ २ ॥ सकल

१ चरणरूपी कमलोंकी धूमिले । २ किसके । ३ पाप । ४ कमठपत्र ।

भाव निजनिजपरनतिमय, कोइ न होय विराना बे
तु दुखिया परकृत्य मानि ज्यो, नभताडन-श्रम
ठाना बे ॥ निपट० ॥ ३ ॥ अजगनमें हैरि भूल
अपनपो, भयो दीन हैराना बे। दौल सुगुरुधुनिसुनि
निजमें निज, पाय लह्यो सुखथाना बे। निपट०॥४

९५

निजहितकारज करना भाई! निजहित कारज
करना ॥ टक ॥ जनमभरनदुःखपावत जातें, सो
विधिवंधं कतरना । निज० ॥ १ ॥ ज्ञानदरस अरु
राग फरस सर, निजपरचिह्न सुमग्ना । संधिभेद
बुधिछैनीतें कर, निज नहि पर परिहरना । निज-
हित० ॥ २ ॥ परिश्रंही अपराधी सहे, त्यागी
अभय विवरना । त्यां परब्रह्मवन्दुवशयक, त्या-
गत सब सुखपरना ॥ निजहित० ॥ ३ ॥ जो
भवभ्रमन न चाहेतो जय, सुगुरु सीध उर धरना ।

१ आकाशको पीटने जैसा । २ बकरामें । ३ सिद्ध । ४ कर्मबन्ध ।
५ बुद्धिकपी छैनीसि निज और परका संधिभेद करना । ६ पारंप्रह्म
धारी तथा परकी वस्तु ग्रहण करनेवाला चोर ।

दौलत स्वरस सुधारस चाखो, जो विनसे मव-
मरना ॥ निजहित० ॥ ४ ॥

९६

मनवचतन करि शुद्ध भजो जिन, दाव भला
पाया । अवसर फेर मिलै नहिं ऐसा, यों सतगुरु
गाया ॥ मनवच० ॥ टेक ॥ वस्यो अनादिनि-
गोद निकसि फिर, थावर देह-धरी । काल असंख्य
अकाज गमायो, नेकु न समुझि परी ॥ मनवच०
॥ १ ॥ त्रितामनि दुर्लभ लहिये ज्यों, त्रमपर-
जाय लही । लट पिपील अलि आदि जन्ममें,
लह्यो न ज्ञान कहीं ॥ मनवच० ॥ २ ॥ पंचेंद्रिय पशु
भयो कष्टें, नहीं न बोध लह्यो । स्वररविवेकरहित
विन संयम, निशदिन भार बह्यो ॥ मनवच० ॥ ३ ॥
चौपथ चलत रतन लहिये ज्यों, मनुषदेह पाई ।
सुकुल जैनवृष सतसंगति यह, अतिदुर्लभ
भाई ॥ मन० ॥ ४ ॥ यों दुर्लभ नरदेह कुंभी जे, विषय-

नसंग खोवें । ते नर मूढ अज्ञान सुधारस, पाय पांव
 खोवें ॥ मनवच० ॥ ५ ॥ दुर्लभनरभव पाय सुधी जे,
 जैनधर्म सेवें । दौलत ते अनंत आविनाशी, सुख
 शिवका बेवें' ॥ मनवचतन करि० ॥ ६ ॥

९७

मोहिडा रे, जिय ! हितकारी ना सीख सम्हारै
 । भववन भ्रमत दुखी लखि याको, सुगुरु दयालु
 उचारै ॥ मोहि० ॥ टेक ॥ विषय भुजंगम संग न
 छोडत, जो अनंतभव मारै । ज्ञानविराग पियूष
 न पीवत, जो भवव्याधि विडारै ॥ मोहि० ॥ १ ॥
 जाके संग दुरैं अपने गुन, शिवपद अंतरपारै ।
 तातनको अपनाय आप चिन, मूरतको
 ननिहारै ॥ मोहि० ॥ २ ॥ सुत दारा धन
 काज साज अघ, आपनकाज विगारै ।
 करत आपको आहित आपकर, ले कृपान

जलदारै । मोहि० ॥१॥ सही निगोद नरककी वेदन,
वेदिन नाहिं चितारै । दौल गई सो गई अब इ
तर, घर दृग-चरन सम्हारै ॥ मोहिडा० ॥ ४ ॥

९८

मेरे कब है वा दिनकी सुधरी । मेरे० ॥१॥ टेक ॥ तनवि-
नवसन असनविन वनेमें, निवसों नासादृष्टिधरी ।
मेरे० ॥१॥ पुण्यपापपरसों कब विरचों, परचों निजनिधि
चिरविसरी । तज उपाधि सजि सहजसमाधी,
सहों धाम-हिम-मेघ-झरी ॥ मेरे० ॥ २ ॥ कब
थिरजोग घरों ऐसो मोहि, उपलै जान मृग
खाज हरी । ध्यानकमान तान अनुभव-शर,
छेदों किहि दिन मोह अरी ॥ मेरे० ॥ ३ ॥ कब
तुनकंचन एक गनों अरु, मनिजडितालय
शैलदरी । दौलत सतगुरुचरनसेत्रं जो, पुरवौ आश
यहै हमरी ॥ मेरे० ॥ ४ ॥

१ तन्वित के अर्थ में कभी कभी है । २ धुन-धीत-धरी । ३ परचर ।
४ अन्तर्गत की भाँति । ५ सतगुरुचित मन्त्र । ६ परवतकी कन्या ।

९९

लाल कैसे जावोगे? असरनसरन कृपाल, लाल० ॥
 टेक ॥ इक दिन सरसवसंतसमयमें, केशवकी सब
 नारी । प्रभुप्रदच्छनारूप खड़ी हैं, कहत नेमि पर
 वारी ॥ लाल० ॥ १ ॥ कुंकुमले मुखमलत रुकमनी,
 रँग छिरकत गांधारी । सतभामा प्रभुओर जोरकर,
 छोरत है पिचकारी ॥ लाल० ॥ २ ॥ ब्याह कबूल करो
 तौ छटो, इतनी अरज हमारी । ओंकार कहकर प्रभु
 मुलके, छौंड दिये जगतारी ॥ लाल० ॥ ३ ॥
 पुलकितवदन मंदनपितु-भामिनि, निज निज
 सदन सिधारी । दौलत जोदववंशव्योमशाशि, जयो
 जमत हितकारी ॥ लाल० ॥ ४ ॥

१००

शिवपुरकी डंगर समरससों भरी, सो विषय-
 धिरस-रधि धिरविसरी । शिव० ॥ टेक ॥ सम्यक-
 दरश-बोध-व्रतमधे भव, -दुखदावानल-मेघधरी ।

१ ओंकार । २ मगनवति-येहा भी पाठ है । मदनपितुभामिनि-मदन-प्रभुज
 का मनेमके मिलाकी कर्वाह भीहमकी-किले । ३ ब्याहकबूलकरोमयनि-येहा
 भी पाठ है । मधुवंशधरी आकाशके-कनका, देविनाथ-पुत्र । ४ शरणे ४

शिवपुर० ॥ १ ॥ ताहि न पाय तपाय देह बहु,
जनममरन करि विपति भरी । काल पाय जिन-
धुनि सुनि मैं जन, ताहि लहूं सोह धन्य घरी ॥
शिव० ॥ २ ॥ ते जन धनि या माहिं चरत नित,
तिन कीरति सुरपति उचरी । विषयचाह भवराह
त्याग अब, दौल हरो रजरहासिअरी ॥ शिव० ॥ ३ ॥

१०१

तोहि समझायो सौ सौ बार, जिया तोहि
समझायो० ॥ टेक ॥ देख सुगुरुकी परहितमें रति,
हितउपदेश सुनायो । सौ सौ बार० ॥ १ ॥ विषय-
भुजंग सेय दुख पायो, पुनि तिनसों लपटायो ।
स्वपदविसार रच्यो परपदमें, मंदरत ज्यों बोरायो ।
सौ सौ बार० ॥ २ ॥ तन धन स्वजन नहीं हैं तेरे,
नाहक नेह लगायो । क्यों न तजै भ्रम चाख समा-
मृत, जो नित संतसुहायो ॥ सौ सौ बार० ॥ ३ ॥
अब हू समुझि कठिन यह नरभव, जिंन वृषं विना

१ चारपातिवा कर्म । २ करावी-नकव । ३ समता कही समृत । ४ किन्हेमें ।
५ वर्ष ।

गमायो । ते विलखेँ मनि डार उदधिमें, दौलतको
पछतायो ॥ सौ सौ ० ॥ ४ ॥

१०२

न मानत यह जिय निपट अनारी । सिखदेत
सुगुरुहितकारी ॥ न मानत ० ॥ टेक ॥ कुमति-
कुनारिसंग रति मानत, सुमतिसुनारि विसारी ।
न मानत ० ॥ १ ॥ नरपरजाय सुरेश चैं सो, वसि
विषविषय विगारी । त्याग अनाकुल ज्ञान चाह
पर, आकुलता विसतारी ॥ न मानत ० ॥ २ ॥
अपनी भूल आप समतानिधि, भवदुख भरत
भिखारी । परद्रव्यनकी परनतिको शठ, वृथा बनत
कर्तारी ॥ न मानत ० ॥ ३ ॥ जिस कषाय दव
जरत तहां अभि, लाषछटा घृत डारी । दुखसों
डरें करें दुखकारन, तैं नित प्रीतिकरौरी ॥ न
मानत ० ॥ ४ ॥ अतिदुर्लभ जिनवैन श्रवनकरि,
संशयमोह निवारी । दौल स्वपर हित अहित
जानके, होवहु शिवमगचारी ॥ न मानत ० ॥ ५ ॥

१०३

हम तो कबहूँ न हित उपजाये । सुकुल-सुदेव-
सुगुरु-सुसंगहित, कारन पाय गमाये । हम तो० ॥
टेर ॥ ज्यों शिशु नाचत आप न भाचत, लखन-
हार बौराये । त्यों श्रुतबांचत आप न राचत,
औरनको समुझाये ॥ हम तो० ॥ १ ॥ सुजस-
लौहकी चाह न तज निज, प्रभुता लखि हरखाये ।
विषय तजे न रँजे निजपदमें, परपद अपद लुभाये ॥
हम तो० ॥ २ ॥ पापत्याग जिन-जाप न कीन्हों,
सुमनचापतप-ताये । चेतन तनको कहत भिन्न पर,
देह सनेही थाये ॥ हम तो० ॥ ३ ॥ यह चिर
भूल भई हमरी अब, कहा होत पछताये । दौल
अजों भवभोग रचौ मत, यों गुरु वचन सुनाये
॥ हम तो० ॥ ४ ॥

१०४

हम तो कबहूँ न निःसुन भाँये । तन निज
मान जान तनदुखसुख-में विलखे हरखाये । हम

१ मम होते । २ साधक पढ़ते । ३ सुमनके-कामकी । ४ रचे-मम हुये । ५ निज
देवका जाप । ६ सुमनचाप अर्थात् कामदेवकी तन्मयी तप । ७ इतिवत् इति ।

तो० ॥ टेक ॥ तनको गरन मरनलखि तनको,
 धरन मान हम जाये । या भ्रमभौर परे भवजल-
 चिर, चहुंगति विपत लहाये ॥ हम तो० ॥ १ ॥
 दरशबोधप्रतसुधा न चाल्यो, विविध विषय-विष
 खाये । सुगुरु दयाल सीख दई पुनि पुनि, सुनि
 सुनि उर नहिं लाये ॥ हम तो० ॥ २ ॥ बहिरा-
 तमता तर्जा न अन्तर-दृष्टि न ह्वै निज ध्याये ।
 धाम-काम-धन-रामाकी नित, आश-हुताश जलाये
 ॥ हम तो० ॥ ३ ॥ अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी
 सबसुखमय मुनि गाये । दौल चिदानंद स्वगुन
 मगन जे, ते जिय सुखिया थाये ॥ हम तो० ॥ ४ ॥

१०५

हम तो कबहूं न निज घर आये । परघर
 फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये । हम
 तो० ॥ टेक ॥ षरषदु निजपद मानि मगन ह्वै,
 परपरनीति लपटाये । शुद्ध बुद्ध सुखकंद मनोहर,
 चेतनभाव न भाये । हम तो० ॥ १ ॥ नर पशु

देव नरक निज जान्यो, परजय-बुद्धि लहाये ।
अमल अखंड अतुल अविनाशी, आत्मगुण नहिं
गाये ॥ हम तो० ॥२॥ यह बहु भूल भई हमरी
फिर, कहा काज पछताये । दौल तजो अजहूँ विष-
यनको, सतगुरु वचन सुनाये ॥ हम तो० ॥ ३ ॥

१०६

मानत क्यों नहिं रे, हे नर! सीख सयानी । भयो
अचेत मोह-मद पीके, अपनी सुधि विसरानी ॥
।।टेक ॥ दुखी अनादि कुबोध-अवृत्तों, फिर तिनसो
रति ठानी । ज्ञानसुधा निजभाव न चारुयो, परप-
रनति मतिरानी ॥ मानत० ॥ १ ॥ भव असारता
लखै न क्यों जहँ, नृप द्वे कृमि विटै-बानी । सधन
निधन नृप दास स्वजन रिपु, दुखिया हैरिसे
प्रानी ॥ मानत० ॥ २ ॥ देह यह गँद-गेह नेह
इस, हैं बहु विपतिनिसानी । जड मलीन छिनछीन
करमकृत, बंधन शिवसुखहानी ॥ मानत० ॥ ३ ॥
चाह-ज्वलन इंधन-विधि-वन-धन, आकुलता कुल-

खानी । ज्ञान-सुधासर-शोषनरविये, विषय अमित
 स्रुतुदानी ॥ मानत० ॥ ४ ॥ यों लखि भव-तन-
 भोग विरचिकरि, निजहित सुन जिनवानी, तज
 रुषराग दौल अब, अवसर, यह जिनचंद्र बखानी
 ॥ मानत० ॥ ५ ॥

१०७

जानत क्यों नहिं रे, हे नर आतमज्ञानी ॥ जानत० ॥
 टैक ॥ रागदोष पुद्गलकी संपति, निहचै शुद्धनिसानी ॥
 जानत० ॥ १ ॥ जाय नरकपशुनरसुरगतिमें, यह
 परजाय विरानी । सिद्धसरूप सदा आविनाशी,
 मानत विरले प्राणी ॥ जानत० ॥ २ ॥ कियो न काहू
 हरै न कोऊ, गुरु-शिख कौन कहानी । जनममरन-
 मलरहित विमल हैं, कीच विना जिमि पानी ॥ जानत
 ० ॥ ३ ॥ सारपदारथ है तिहुंजगमें नहिं क्रोधी नहिं
 मानी । दौलत सो घटमाहिं विराजै, लखि हूजै
 शिवथानी ॥ जानत० ॥ ४ ॥

१०८

हे हितबाँछक प्राणी रे, कर यह रीति सयानी ॥

हे हित० ॥ टेक ॥ श्रीजिनचरनचितार धार गुन,
 परम विराग विज्ञानी । हे हित० ॥ १ ॥ हरन
 भयामय स्वपरदयामय, सरधो वृष सुखदानी । दुविष
 उपाधि बाध शिवसाधक, सुगुरु भजो गुणथानी ॥
 हे० ॥२॥ मोह-तिमिर-हर मिहैर भजो श्रुत, स्या-
 त्यद जास निशानी । समतत्त्व नव अर्थ विचारहु,
 जो बरने जिनबानी ॥ हे हित० ॥३॥ निज पर भि-
 न्न पिछान मान पुनि, होहु आप सरधानी । जो इ-
 नको विशेष जानन सो, ज्ञायकथा मुनि मानी ॥
 हे हित० ॥ ४ ॥ फिर व्रत समिति गुपति सजि
 अरु तज, प्रवृत्ति शुभासवदानी । शुद्ध स्वरूपाच-
 रन लीन द्वै, दौल वरो शिवरानी ॥ हे हित० ॥ ५ ॥

१०९

हे नर भ्रमर्नाद क्यो न छँडत दुखदाई । सोवत-
 चिरकाल सोंज, आपनी ठगाई ॥ हे नर० ॥ टेक ॥

१ हर और रोग । २ कर्म । ३ सुख ।

सूरस अथ कर्म कहा, भेद नहिं मर्म लहा, लागे
 दुस्तम्बालाकी न, देहके तताई ॥ हे नर० ॥ १ ॥ जमके
 रव बाजते, सुभैरव अति गाजते, अनेक प्रान त्या-
 गते, सुने कहा न भाई ॥ हे नर० ॥ २ ॥ परको
 भपनाय आप, रूपको भुलाय हाय, करनविषय
 दारू जार, चाहदौ बढाई ॥ हे नर० ॥ ३ ॥ अब
 सुन जिनबानि, राग द्वेषको जघान, मोक्ष रूप
 निज पिछान, दौल भज विरागताई ॥ हे नर० ॥ ४ ॥

११०

प्रभु थारी आज महिमा जानी, प्रभु थारी० ॥
 टेक ॥ अवतों माह बडाभद पिय में, थारी सुधि
 विसरानी । भाग जगे तुम शानि छयों लखि,
 जड़ता नींद विलानी ॥ प्रभु० ॥ १ ॥ जगविजयी
 दुग्धदाय रागरूप, तुम तिनकी धिति भानी । शां-
 तिसुधासागर गुनआगर, परमविराग विज्ञानी ।
 प्रभु० ॥ २ ॥ समवसरन अतिशय कमलाजुत, पे

१ 'सुधर अथ करम जान' 'भेद नहिं मरमथान' ऐसा जो पाठ है ।

निर्ग्रन्थ निदानी । क्रोधनिना दुठ बोह विदारक,
 त्रिभुवन पूज्य अमानी । प्रभु० ॥ ३ ॥ एकस्वरूप
 सकलज्ञेयाकृत, जग-उदास जग-ज्ञानी । शत्रुभिन्न
 सबमें तुम सम हो, जो दुखसुख फल थानी ॥
 ४ ॥ परम ब्रह्मचारी है प्यारी, तुम हेरी शिवरानी ।
 है कृतकृत्य तदपि तुम शिवमग, उपदेशक अग-
 वानी ॥ ५ ॥ भई कृपा तुमरी तुममेंतैं, भक्ति सु
 मुक्ति निसानी । है दयाल अब देहु दौलको, जो
 तुमने कृति ठानी ॥ ६ ॥

१११

तुम सुनिधो श्रीजिननाथ अरज इक मेरी
 जी । तुम० ॥ देह ॥ तुम तिन हेत जगत उप-
 कारा, वसु कर्मन मोहि कियो दुखारी, ज्ञानादिक
 निधि हरी हमारी आवां संगी ममके जी ॥ तुम
 सुनि० ॥ १ ॥ मैं निज भूलि तिनहि सँगलाग्यो,
 तिन कृतकरन-विषयरस पाग्यो, तातैं जन्म-जरा
 दव-दाग्यो, कर समता सम नेरी जी ॥ तुम सु०

॥ २ ॥ वे अनेक प्रभु में जु अकेला, चहुंगति वि-
पतिमाहिं मोहि पेला, भाग जगे तुमसों भयो भे-
ला, तुम हो न्याबनिवेरी जी ॥ तुम सु० ॥ ३ ॥
तुम दयाल बेहाल हमारो, जगतपाल निज विरद
समारो, ढील न कीजे बेग निवारो, दौलतनी
भव फेरी जी ॥ तुम सु० ॥ ४ ॥

११२

अरे जिया जग घोखेकी टाटी । अरे० ॥ टेक ॥
झूठा उद्यम लोग करत हैं, जिसमें निशदिन घाटी ।
अरे० ॥ १ ॥ जान बूझके अन्ध बने हैं, आंखन
बांधी पाटी ॥ अरे० ॥ २ ॥ निकलि जांयगे प्राण
छिनकमें, पडी रहेगी माटी ॥ अरे० ॥ ३ ॥
दौलतराम समझ मन अपने, दिलकी खोल
कपाटी । अरे० ॥ ४ ॥

११३

जय वीर जिनवीर जिनचंद कलुषनिकंद मुनिह-
दसुखकंदा । जय वीर० ॥ टेक ॥ सिद्धारथनंद

१ इस मन्त्रके प्रत्येक शरणके अन्तमें "हे" शराबसे इकतीस कवित्त बक
जाता है ।

त्रिभुवनको दिनेन्दचन्द, जावचकिरन भ्रम तिमि-
रनिकंद । जय वीर ॥ १ ॥ जाके पद अरविन्द
सेवत सुरेंद वृंद, जाके गुन रटत कटत भवफंद ।
जय वीर ० ॥ २ ॥ जाकी शान्ति मुद्रा निरखत
हरखत रिखि, जाके अनुभवत लहत चिदानन्द ।
जय वीर ० ॥ ३ ॥ जाके घातिकर्म विघटत प्रघ-
टत भये, अनन्त दरस बोध-वीरज अनन्द । जय
वीर ० ॥ ४ ॥ लोकालोकज्ञाता पै स्वभावरत रा-
ता प्रभु, जगको कुशलदाता त्राता पै अद्वंद । जय
वीर ० ॥ ५ ॥ जाकी महिमा अपार गणी न स-
के उचार, दौलत नमत सुख चहत अमंद ॥ जय
वीर ० ॥ ६ ॥

जकरी ११४

अब मन मेरा बे, सीखवचन सुन मेरा । भजि
जिनवरपद बे जो विनशै दुख तेरा ॥ विनशै
दुख तेरा भववनकेरा, मनवचतन जिनचरन भजौ ।
पंचकरन वश राख सुझानी, मिथ्यामतमग दौर

तजो ॥ मिथ्यामतमगपगि अनादितैं, तैं चहुंगति
 कीन्हा फेरा । अब हू चेत अचेत होय मत, सीस्व
 बचन सुनि मन मेरा ॥ १ ॥ इस भववनमें बे, तैं
 साता नहिं पाई । वसुविधिवश ह्वै बे, तैं निज
 सुधि बिसराई ॥ तैं निज सुधि बिसराई भाई,
 तातैं विमल न बोध लहा । परपरनतिमें मगन
 भयो तू, जन्म-जरा-मृत-दाह दहा ॥ जिनमत सार-
 सरोवरकूं अव, गाहि लागि निजचिंतनमें । तो
 दुखदाह नशै सब नातर, फेर बसै इस भववनमें ॥
 ॥ २ ॥ इस तनमें तू बे, क्या गुन देख लुभाया ।
 महा अपावन बे, सतगुरु याहि बताया ॥ सत-
 गुरु याहि अपावन गाया, मलमूत्रादिकका गेहा ।
 कृमि-कुल-कलित लखत धिन आवै, यासों क्या
 कीजे नेहा ॥ यह तन पाय लगाय आपनी, परनति
 शिवमगसाधनमें । तो दुखदंद नशै सब तेरा, यही
 सार है इस तनमें ॥ ३ ॥ भोग भले न सही, रोग
 शोकके दानी । शुभगति रोकन बे, दुर्गति-यथ-अ-

गवानी ॥ दुर्मतिपथअगवानी हैं जे, जिनकी लगन
 लगी इनसों । तिन नानाविधि विपति सही है, वि-
 सुख भया निज सुख तिनसों ॥ कुंजर ह्रस्व अलि
 शर्लभ हिरन इन, एकअक्षवशं मृत्यु लही । यातें
 देख समझ मनमाहीं, भवमें भोग भले न सही ॥
 ॥ ४ ॥ काज सरै तब बे, जब निजपद आराधै ।
 नशै भवावलि बे, निरावाधपद लाधै ॥ निरावाध-
 पद लाधै तब तोहि, केवल दर्शन ज्ञान जहाँ ।
 सुख अनन्त अतिइन्द्रियमंडित, वीरज अबल
 अनंत तहाँ ॥ ऐसा पद चाहै तो भज निजै,
 बारबार अब को उचरै । दौल मुख्य उपचार र-
 तत्रय, जो सैवे तो काज सरै ॥ ५ ॥

जकड़ी ११५

वृषभादि जिनेश्वर ध्याऊं, शारद अंबा चित
 लाऊं । द्वैविधि-परिग्रह -परिहारी, गुरु नमहुं स्व-
 परहितकारी ॥ हितकार तारक देव श्रुत गुरु,

१ हाथ । २ मछली । ३ शौच-भ्रमर । ४ पतंग । ५ एक एक इन्द्रियके
 नाम । ६ अर्थका समुह । ७ 'मिन' की बात है ।

परस्व निज उर लाइये । दुखदाय कुपथ विहाय
 शिवसुख,—दाय जिनवृष ध्याइये ॥ चिरतैं कुमग
 पागि मोहठगकर, ठग्यौ भव-कानन परचौ । व्यौ-
 लीस-द्विकलख जानिमें, जर-मरनै-जामन-दव ज-
 रचौ ॥ १ ॥ जब मोहरिपु दीन्हीं घुमरिया, तसवश
 निगोदमें परिया । तहाँ स्वास एकके माहीं, अष्टा-
 दश मरन लहाहीं ॥ लहि मरन अन्तमुहूर्तमें,
 छयासठसहस शत तीन ही । षट्तीस काल अनंत
 यों दुख, सहे उपमा ही नहीं ॥ कबहूं लही वर
 आयु छिति-जल, पवन-पावक-तरुतणी । तसु
 भेद किंचित कहुं सो सुन, कह्यौ गौतमगणी
 ॥ २ ॥ पृथिवी द्रव्य भेद बखाना, मृदु माटी क-
 ठिन पखाना । मृदु द्वादशसहस बरसकी, पाहन
 बाईस सहसकी ॥ पुनि सहस सात कही उदैक
 त्रय, सहसवर्ष समीरकी । दिन तीन पावक दश-
 सहस तरु, प्रमित नाश सुपीरकी ॥ विनघातः

१ संसारकरी बन । २ चौबत्ती कास बोनि । ३-सुख-वस्था, मृदु, जन्मकरी
 कालमें बला । ४ पृथ्वी । ५ प्रसी ।

सूच्छम देहधारी, घातजुत गुरुतन लह्यौ । तहँ
 खनन तापन जलन व्यंजन, छेद भेदन दुख सह्यौ ॥३॥
 शंखादि दुहंद्री प्राणी, थिति द्वादशवर्ष बखानी ।
 धूकादि तिहंद्री हैं जे, वासर उनचास जियें ते ॥
 जीवैं छमास अलीप्रमुख, व्यालीससहस उरगतनी ।
 खगकी बहत्तरसहस, नवपूर्वांग सरिसृपकी भनी ॥
 नर मत्स्य पूरवकोटकी थिति, करमभूमि बखा-
 निये । जलचर विकल विन भोगँभूनर, पशु त्रिपत्य
 प्रमानिये ॥ ४ ॥ अघ-वशकर नरकबसेरा, भुगतै
 तहँ कष्ट घनेरा । छेदै तिल-तिल तन सारा, छेपैद्रह-
 पूतिमझारा ॥ मंझार वज्रानिल पचावैं, घरहिं
 शूली उपरें । सींचै जु खारे वारिसों टुठ, कहें व्रण
 नीके करें ॥ वैतरणिसरिता समलजल अति, दुखद
 तरु सेंवलतने । अति भीम वन अंसिक्रान्तसम
 दैल, लगत दुख देवें घने ॥ ५ ॥ तिस भूमें हिम
 गरमाई, सुर-गिरिसम अस गल जाई । तामें थिति

१ सूं आदि । २ अक्षर आदि । ३ कर्पभिक्ष । ४ जीवसृष्टिवा कश्चन जीव
 पशु । ५ दुर्बलिके नर ताकाव । ६ कीड़े । ७ तलवारकी मार । ८ कल । ९ कौह ।

सिंधुतनी है, यों दुखद नरक अर्वनी है ॥ अर्वनी
 तहांकीतें निकासि, कबहूं जनम पायो नरो । सर्वांग
 सकुचित अति अपावन, जठर जननीके परो ॥
 तहैं अघोमुख जननीरसांशः थकी जियो नवमास
 लों । ता पीरमें कोउ सीर नाही, सहै आप निकास
 लों ॥ ६ ॥ जनमत जो संकट पायो, रसनातें
 जात न गायो । लहि बालपनै दुख भारी, तरु-
 नापो लयो दुखकारी ॥ दुखकारि इष्टवियोग
 अशुभ, सँयोग सोग सरोगता । परसेव श्रीषम
 सीत पावस सहै दुख अति भोगता ॥ काहू
 कुतिय काहू कुबांधव, कहूँ सुता व्यभिचारिणी ।
 किसहू बिसँनरत पुत्र दुष्ट, कलत्र कोऊ परऋणी
 ॥ ७ ॥ वृद्धापनके दुख जेतै, लखिये सब नयन-
 नतें ते । मुख लौल बहै तन हालै, विन शक्ति न
 बसन सँभालै ॥ न सँभाल जाके देहकी तो, कहो
 वृषकी का कथा ? । तब ही अचानक आन जम्

१. १ सुखी । २. दुखीके लेख-लेखनी । ३. दुख की । ४. अर्वनी । ५. काका,
 कल । ६. नर्वनी ।

गह, मनुज जन्म गयो वृथा ॥ काहू जनम शुभठान
 किंचित, लह्यो पद चेहुंदेवको । अभियोग किलिष
 नाम पायो, सह्यो दुख परसेवको ॥ ८ ॥ तहाँ
 देख महत् सुरऋद्धी, झुरयो विषयनकरि गृद्धी ।
 कबहू परिवार नसानो, शोकाकुल है बिललानो ॥
 बिललाय आति जब मरन निकस्यो, सह्यो संकट
 मानसी । सुराविभव दुखद लगी जबै तब, लखी
 मैल मैलानसी ॥ तब ही जु सुर उपदेशहित,
 समुझायियो समुझ्योन त्यो । मिथ्यात्वजुत च्युत
 कुगति पाई, लहै फिर सो स्वपद क्यों ? ॥ ९ ॥
 यो चिरभव अटवीगाही, किंचित सातान लहाही ।
 जिनकथित धरम नहि जान्यो, परमाहि अप-
 नपो मान्यो ॥ मान्यो न सम्यक त्रयात्तम, आतम
 अनातममें फस्यो । मिथ्याचरन दृगज्ञान रंज्यो,
 जाय नवर्षावक बस्यो ॥ पै लह्यो नहि जिनकथित
 शिवमग, वृथा भ्रम भूल्यो जिथा । चिदभावके

- १ चर अकारके दोष । २-३ आभियोग और किलिष दोषोंमें एक अकारके
 नीचे दोषकोकि लक्षण देव होते हैं । ४ मात्र । ५ अकार-सुरऋद्धी-गृद्धी ।

दरसाव विन सब, गये अहेले तप क्रिया ॥ १० ॥
 ॥ अब अद्भुत पुण्य उपायो, कुल जात विमल
 तू पायो । यातें सुन सीख सयाने, विषयनसों रति
 मति ठाने ॥ ठाने कहा रति विषयमें ये, विषम
 विषैधरसम लखो । यह देह मरत अनंत इनको,
 त्याग आतमरस चखो ॥ या रस-रसिकजन
 बसे शिव अब, बसें पुनि बसि हैं सही । दौलत
 स्वरचि परविरचि सतगुरु, शीख नित उरधर
 यही ॥ ११ ॥

दोहा ११६

ज्ञानी ऐसी होली मचाई ॥०॥टेक॥ राग कियो
 विपरीत विपन घर, कुमतिकुसौति सुहाई । धार
 दिगंबर कीन्ह सुसंवर, निज-पर-भेद लखाई ।
 घात विषयनिकी बचाई ॥ ज्ञानी ऐसी० ॥ १ ॥
 कुमति सखा भाजि ध्यानभेद सम, तनमें तान उ-
 ढाई । कुंभक ताल मृदंगसों पूरक, रेचक बीन ब-
 जाई । लगन अनुभवसों लगाई ॥ ज्ञानी ऐसी० ॥

॥२॥ कर्मबलीता रूप नाम अग्नि, वेद सुइन्द्रिग-
नाई । दे तप अग्नि भस्म करि तिनको, धूल अ-
घाति उड़ाई । करी शिव तियकी मिलाई ॥ ज्ञानी
ऐसी० ॥ ३ ॥ ज्ञानकी फाग भागवश आवै, ला-
ख करौ चतुराई । सो गुरु दीनदयाल कृपाकरि,
दौलत तोहि बताई । नहीं चितसे विसराई ॥
ज्ञानी ऐसी होली मचाई ॥ ४ ॥

११७

मेरो मन ऐसी खेलत होरी॥टेक॥ मन मिरदंग
साजकरि थारी, तनको तमूरा बनोरी । सुमति
सुरंग सरंगी बजाई, ताल दोउ कर जोरी । राग
पांचों पद कोरी ॥ मेरो मन० ॥ १ ॥ समकित
रूप नीर भर झारी, करुनाकेशर घोरी । ज्ञानमई
लेकर पिचकारी, दोउ करमाहिं सभ्होरी । इन्द्रि
पांचों सखि बोरी ॥ मेरो मन० ॥ २ ॥ चतुर
दानको है गुलाल सो, भरि भरि मूठि चलोरी । तपमें
मेवांकी भरि निज झोरी, यशको अबीर उड़ोरी ।

रंग जिनधाम मचौरी ॥ मेरो मन० ॥ १ ॥
 दौल बाल खेलें अस होरी, भवभव दुःख टलो-
 री । शरना ले इक श्रीजिनकोरी, जगमें लाज
 हो तोरी । मिलै फगुआ शिवगौरी ॥ मेरो मन०
 ॥ ४ ॥

११८

निरखत जिनचंदरी माई ॥ टेक ॥ प्रभुदुति
 देख मंद भयौ निशिपति, आन सु पग लिप-
 टाई । प्रभु सुचंद वह मंद होत है, जिन लखि
 सूर छिपाई । सीत अदभुत सो बताई ॥ निर-
 खत जिन० ॥ १ ॥ अंबर शुभ्र निजंतर दीसै,
 तत्त्वमित्र सरसाई । फैलि रही जग धर्म जुन्हा-
 ई, चारन चार लखाई । गिरा अग्रत जो गना-
 ई ॥ निरखत जिन० ॥ २ ॥ भये प्रफुलित भव्य
 कुमुदमन, मिथ्यातम सो नसाई । दूर भये भव-
 ताप सबनके, बुध अंबुर्घसों बढाई । मदन चकवे-
 की जुदाई ॥ निरखत जिन० ॥ ३ ॥ श्री जि-
 नचंद बंद अब दौलत, चितकर चंद लगाई ।

कर्मबंध निर्वंध होत हैं, नागसुदमनि लसाई ।
होत निर्विष सरपाई ॥ निरखत जिन० ॥ ४ ॥

११९

जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर थारो
शुभथान । जिया० ॥ टेक ॥ लख चौरासीमें बहु
भटके, लह्यो न सुखरो लेश ॥ जिया० ॥ १ ॥
मिथ्यारूप धरे बहुतेरे, भटक्यो बहुत विदेश ॥
जिया० ॥ २ ॥ विषयादिक बहुते दुख पाये, भुग-
त्ते बहुत कलेश ॥ जिया० ॥ ३ ॥ भयो तिरजंघ
नारकां नरसुर, करि करि नाना भेष ॥ जिया० ॥ ४ ॥
दौलतराम तोड़ जगनाता, सुनो सुगुरु उपदेश ॥
जिया० ॥ ५ ॥

१२०

जय जय जग-भरम-तिमर,-हरन जिन धुनी
॥ टेक ॥ या विन समझे अजों न, सौंज निज
मुनी । यह लखि हम निजपर अवि,—वेकता
लुनी ॥ जय जय० ॥ १ ॥ याको गनराज अं-
ग,-पूर्वमय चुनी । सोई कही है कुंदकुंद, प्रमुख

बहुमुनी ॥ जय जय० ॥ २ ॥ जे चर जड़ भये
 पाय, मोह वारुनी । तत्त्व पाय चेतें जिन, थिर
 सुचित सुनी ॥ जय जय० ॥ ३ ॥ कर्ममल
 पखारनेहि, विमलसुरधुनी । तज विलंब अंब
 करो, दौल उर पुनी ॥ जय जय० ॥ ४ ॥

१२१

अब मोहि जानि परी, भवोदधि तारनको है
 जैन ॥ टेक ॥ मोहतिमिरतें सदा कालके, छाय
 रहे मेरे नैन । ताके नाशन हेत लियो मैं, अं-
 जन जैन सु ऐन ॥ अब० ॥ १ ॥ मिथ्यामती
 भेषको लेकर, भाषत हैं जो बैन । सो वे बैन
 असार लखे मैं, ज्यों पानीके फैन ॥ अब मो०२॥
 मिथ्यामती बेल जग फैली, सो दुख फलकी दैन ।
 सतगुरु भक्तिकुठार हाथ लै, छेद लियो अति
 चैन ॥ अब० ॥ ३ ॥ जा विन जीव सदैव का-
 लतें, विधिवश सुखन (?) लहै न । अशरनु-
 शरन अभय दौलत अब, भजो रैनदिन जैन
 ॥ अब० ॥ ४ ॥

१२२

सुन जिन वैन, श्रवन सुख पायौ ॥ टेक ॥
 नस्यो तत्त्व दुर अभिनिवेशतम, स्याद उजास
 कहायौ । चिर विसस्यो लस्यो आतम रेन ॥
 श्रवन० ॥ १ ॥ दस्यौ अनादि असंजम दवर्ते,
 लहि व्रत सुधा सिरायौ । धीर धरी मन जीतन
 मैन ॥ श्रवन सुख० ॥ २ ॥ भरयो विभाव अभाव
 सकल अब, सकलरूप चित लायौ । दास लस्यो
 अब अविचल चैन ॥ श्रवन सुख० ॥ ३ ॥

१२३

बामा घर बजत बघाई, चलि देखि री माई ॥ टेक ॥
 सुगुनरास जग-आस-भरन तिन, जने पार्श्व जि-
 नराई । श्री-ही धृति कीरति, बुधिलछमी हर्षत
 अंग न माई ॥ चलि० ॥ १ ॥ वरन वरन मनि
 चूर सवी सब, पूरत चौक सुहाई । हाहा हूह
 नारदतुंबर, गावत श्रुतसुखदाई ॥ चलि० ॥ २ ॥
 तांडव नृत्य नटत हरिनट तिन, नख नखसुरीं नचाई
 किन्नर कर घर वीन बजावत, दृगमनहर छवि

छाई ॥ चलि० ॥ ३ ॥ दौल तासु प्रमुकी महिमा
सुर, गुरुपै कहिय न जाई । जाके जन्म समय
नरकनमें, नारकि साता पाई ॥ चलि० ॥ ४ ॥

१२४

जय श्री ऋषभ त्रिनेन्दा । नाश तो करौ स्वामी
मेरे दुखदंदा ॥ मातु मरुदेवी प्यारे, पिता नाभिके
दुलारे, वंश तो इक्ष्वाक जैसे, नभवीच चंदा ॥ जय
श्री० ॥ १ ॥ कनक वरन तन, मोहत भविक जन,
रवि शशि कोटि लाजें, लाजें मकरन्दा ॥ जयश्री
० ॥ २ ॥ दोष तो अठारा नासे, गुन छियालीस भासे,
अष्टकर्म काट स्वामी, भये निरफंदा ॥ जयश्री० ॥
॥ ३ ॥ चार ज्ञानधारी गनी, पार नाहिं पावें
मुनी, दौलत नमत सुख, चाहत अमंदा ॥ जय
श्री ऋषभ० ॥ ४ ॥



भजनोंकी उत्तमोत्तम पुस्तकें ।

धृन्दावनविलास—स्व. कविवर धृन्दावनकृत ...	॥१॥
जिनेश्वरपदसंग्रह—स्व. पं. जिनेश्वरदासकृत ...	॥१॥
बलदेवभजनमाला—कवि बलदेवदासकृत ...	॥२॥
जैनसुरसपदें—ब्र. हीराचंद अमोलककृत ...	॥३॥
बनिता-बिहार—स्त्रियोंके गायन-वैद्य मन्बूलालकृत	॥१॥
ज्ञानानंदरत्नाकर—डि० भा० मुन्शी नाथूराम लमंचुकृत	॥१॥
जिनेन्द्रभजनमाला—बाबू न्यायानंदकृत ...	॥१॥
जैनभजनरत्नावली—	॥१॥
जैनभजनमुक्तावली—	॥१॥
राजुलभजनपदावली—	॥१॥
श्रीगानजनभजनपदावली—	॥१॥
कलियुगार्थावलीभजनावली—	॥१॥
अनाथ रदन—	॥१॥
जैनभजनशतक	॥१॥
ध्यात्रिकल जैनभजनमंजरी	॥१॥
मूर्त्तिमंडनप्रकाश—	॥१॥
सुखसागर भजनावली—ब्र. शीतलप्रसादकृत ...	॥१॥
द्वितीयागायन—कवि भूरामलकृत	॥१॥

मिहनेका पना—मनेजर, जैनग्रंथरत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग, बम्बई, नं० १.

जैनपदसंग्रह

द्वितीय भाग ।



प्रकाशक

जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय ।



श्रीवीतरागाय नमः ।

जैनपदसंग्रह

द्वितीय भाग ।

पं० भागचन्द्रजीके पदोंका संग्रह ।



प्रकाशक

जैन ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय,
हीरावाग, बम्बई ।

श्रावण, वि० स० १९८३ ।

[चौथी बार]

[मूल्य चार आने]


प्रकाशक—

छगनमल बाकलीवाल

मालिक

जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,

हरीगवाग, पो० गिरगांव—बम्बई ।




मुद्रक—

मंगेश नागायण कुलकर्णी

कनाटक प्रेस,

३१८ ए, टाकुरद्वार—बम्बई ।

पदोंकी वर्णानुक्रमणिका ।



पद संख्या	पद संख्या		
अति संकेश विशुद्ध शुद्ध पुनि	१३	जे गदज होशके सिलारी	७७
धने हो अज्ञानी तूने कठिन	१०	जेनमन्दिर हमको लागे प्यारा	७४
अरे हो जिन्ना धर्ममें चित्त	१५	तुम गनसमानाधि हो अरहत	२५
अहो यह उपदेशमाही	८	तुम परम पावन देग जिन	६०
आकल रतिव होय हमि निशदिन	९	तू स्वरूप जाने भिन दुःखी	७०
आत्म अनुभव आवै जब निज	२१	तेरे जानावरनडा परदा	७३
आत्म अनुभव आवै जब निज	५७	थोका लो वानीमें हो	३८
आनन्दाधु वह लोचनते	८१	धन धन जेना मातृ भवाधिन	२
आपै न भोगनमें तांदि गिलान	३७	धन धन धोपेवाप्य कुमार	२३
टणजिन केवली झाकै	३२	धनि ते प्रांत, जिनके तत्त्वाग्र	५८
उग्रसेन गृह व्याहन आये	१४	धन्य धन्य हो घरी आजकी	५१
ऐसे जेना मुनिमहाराज	२३	नाथ भये ब्रह्मवारी, गयी घरमें	६८
ऐसे विमल भाव जब पावै	४४	निज काज कहै न सारि रे	६२
ऐसे माधु मगुरु कव मिलि है	४५	परन्ति सब जावनका तनि भाति	५
करै रे भाई तत्त्वाग्र महाराज	८०	प्रभु नम मुस्त दगमो निरगै हरखे	१६
काजिये कृपा मोह दीजिये स्वपद	६१	प्रभु भायो तांभ समचित	४३
केवल जाति मजागी जा	४६	प्रभु झाका माध	४६
गिरनारीपै भ्यान लगायी	६७	प्रभुप गद वरदान सपाक	५०
गिरिवनवामी मुनिराज	३५	प्राता समकित ती शवपथा	५२
चेतन निज भ्रमते भ्रमन रहै	५८	प्रेम अथ व्यामर पुडलका	८५
जानके मुजाली, जेनवानीका	६९	बुाजन पदपात नाज प्रगा	१२
जिनमन्दिर चल भाई	५९	भव बनमे नाग मर्दिने भाई	१६
जिन स्वपराहताहित जाना	८३	महाराज प्राजिनवरजा	८२
जीव तू भ्रमन मईव अकेला	६	महिमा जिनमनका	७१
जीवनके परिनामनकी यह	६	महिमा है अगम जिनगमका	२२
जे दिन तुम विवेक विन न्योये	५३	मान न कोजिये हो परबीन	३५

पद संख्या	पद संख्या
मेघघटासम श्रीजिनवानी ४२	मन्त निरन्तर चिन्तन ऐसे १
मैं तुम शत्रुन लियो तुम मांचे ५६	सफल है धन्य धन्य वा घरी ५२
म्हाकें जिनमूर्ति हृदय वसी वसी २७	सम आगम विहारी ३१
म्हाकें घट जिन धुनि अव प्रगटी ३६	समझाओजी.आज कोई ६६
यह मोह उदय दुख पावे ८४	सहज अवाध समाध धाम तहा ८६
यही एक धर्ममूल है मोता ३	सांची तो गगा यह बीतरागवानी १५
लखिके स्वामी रूपको ७८	सागे दिन निरफल न्यायवा ३०
वरमन ज्ञान मुनीर हो ४१	गुन्दर देशालच्छन वृष, मेय ८
विन काम ध्यानमुद्राभिगम ४७	मुसर मन समवरन मुत्तदाई ६४
विश्वभाव व्यापार तदपि, एक विमल ५९	मुसर सदा मन आत्मराम १९
वीतराग जिन माहमा थारी ११	गोई है साचा महादेव हमारग ६५
शान्ति वरन मुनि राडेवर लागि २६	स्वामीजी तुम गुन अपरंसार ३८
श्रीगुरु है उपगारी ऐसे २९	स्वामी मोहि अपनो जान तारी ३३
श्रीजिनवर दरश आज, करत साम्य १०	स्वाभीरूप अनुपांशाल ३९
श्रीजिनवरपद ध्यावे जो नर १८	दृग तेरी मति नर कौनें दृग ६३
श्रीमुनि राजत समता संग २०	ज्ञानी ज्ञानके भय होय ५५
षोडशकारन मुहृदय धारन कर भाई ९	ज्ञाना मुान छे ऐसे स्वामी २८
सत्ता रंगभूमिमें नष्टत ब्रह्मनटराय ८७	



ओंनमः सिद्धेभ्यः ।

जैनपदसंग्रह ।

द्वितीय भाग ।



१

गगन दृमरी ।

मन्त निरन्तर चिन्तत ऐसैं, आतमरूप अबाधित
ज्ञानी ॥ टेक ॥ रागादिक नो देहाधित हैं. इनतें हांत
न मेरी हानी । दहन दहन ज्यों दहन न तदगत, गगन
दहन ताकी विधि ठानी ॥ १ ॥ वरणादिक विकार
पुदगलके, इनमें नहिं चैतन्य निशानी । यद्यपि एक
क्षेत्र अवगाही, तद्यपि लक्षण भिन्न पिछानी ॥ २ ॥ मैं
सर्वांगपूर्ण ज्ञायक रस, लवण विल्लवत लीला ठानी ।
मिलौ निराकुल स्वाद न यावत, तावत परपरनति
हित मानी ॥ ३ ॥ भागचन्द्र निरद्वन्द निरामय,
मूरति निश्चय सिद्धसमानी । नित अकलंक अवंक
शंक विन, निर्मल पंक विना जिमि पानी ॥ मन्त
निरन्तर चि० ॥ ४ ॥

२

धन धन जैनी साधु अबाधित, तत्त्वज्ञानविलासी
हो ॥ टेक ॥ दर्शन-बोधमई निजमूरति, जिनकों

अपनी भासी हो । त्यागी अन्य समस्त वस्तुमें,
 अहंबुद्धि दुखदा सी हो ॥ १ ॥ जिन अशुभोपयोगकी
 परनति, सत्तासहित विनाशी हो । होय कदाच
 शुभोपयोग तो, तहँ भी रहत उदासी हो ॥ २ ॥
 छेदत जे अनादि दुखदायक, दुविधि बंधकी फाँसी
 हो । मोह क्षोभ रहित जिन परनति, विमल मयंक-
 कला सी हो ॥ ३ ॥ विषय-चाह-दव-दाह खुजावन,
 साम्य सुधारस-रासी हो । भागचन्द ज्ञानानंदी पद,
 साधत सदा हुलासी हो ॥ धन० ॥ ४ ॥

३

यही इक धर्ममूल है मीना ! निज समकितसार-
 सहीता । यही० ॥ टेक ॥ समकित सहित भरकपदवास,
 खासा बुधजन गीता । तहँतें निकसि होष तीरैकर,
 सुरगन जजन सप्रीता ॥ १ ॥ स्वर्गवास हू नीको नार्हीं,
 विन समकित अविनीता । तहँतें चय एकेंद्री उपजत,
 भमत सदा भयभीता ॥ २ ॥ खेत बहुत जोते हु बीज
 विन, रहत धान्यसां रीता ॥ ३ ॥ सिद्धि न लहत कोटि
 तपहतें, वृथा कलेश सहीता ॥ ३ ॥ समकित अतुल
 अखंड सुधारस, जिन पुरुषननें पीता । भागचन्द ते
 अजर अमर भये, तिनहीनें जग जीता ॥ यही इक
 धर्म० ॥ ४ ॥

४

राग ठुमरी ।

जीवनके परिनामनिकी यह, अति विशिष्टता देखहु
ज्ञानी ॥ टेक ॥ नित्य निगोदमाहितैं कढिकर, नर पर-
जाय पाय सुखदानी । समकित लहि अंतर्मुहूर्तमें, केवल
पाय वरै शिवरानी ॥ १ ॥ मुनि एकादश गुणथानक
चढ़ि, गिरत तहांतैं चितभ्रम ठानी । भ्रमत अर्धपुद्ग-
लप्रावर्तन, किंचित् ऊन काल परमानी ॥ २ ॥ निज
परिनामनिकी मँभालमें, तातैं गाफिल मत है प्रानी ।
बंध मोक्ष परिनामनिहीसों, कहत सदा श्रीजिनब-
रवानी ॥ ३ ॥ सकल उपाधिनिमित्त भावनिसों, भिन्न
सु निज परनतिको छानी । ताहि जानि रुचि ठानि
होहु थिर, भागचन्द यह सीख सयानी ॥ जीवनके
पर० ॥ ४ ॥ •

५

परनति सब जीवनकी, तीन भाँति वरनी ।
एक पुण्य एक पाप, एक रागहरनी ॥ परनति० ॥ टेक ॥
तामें शुभ अशुभ अंध, दाय करैं कर्मबंध,
वीतराग परनति ही, भवसमुद्रतरनी ॥ १ ॥
जावत शुद्धोपयोग, पावत नाहीं मनांग,
तावत ही करन जोग, कही पुण्य करनी ॥ २ ॥
त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप,
शुभमें न मगन हाय, शुद्धता विसरना ॥ ३ ॥

ऊंच ऊंच दशा धारि, चित्त प्रमादको विडारि,
 ऊंचली दशानें मति, गिरो अधो घरनी ॥ ४ ॥
 भागचन्द या प्रकार, जीव लहै सुख अपार,
 याके निरधार स्याद,-वादकी उचरनी ॥ परनि० ॥५॥

६

जीव ! तू भ्रमत सदीव अकेला । संग साथी कोई
 नहीं तेरा ॥ टेक ॥ अपना सुखदुख आप ही भुगतै, होत
 कुटुंब न भेला । स्वार्थ भयें सब विछुरि जात हैं,
 विघट जात ज्यों मेला ॥ १ ॥ रक्षक कोइ न पूरन है जय,
 आयु अंतकी बेला । फूटत पारि बंधत नहीं जैसें, दुद्धर-
 जलको ठेला ॥ २ ॥ तन धन जीवन विनशि जात
 ज्यों, इन्द्रजालका खेला । भागचन्द इमि लग्न करि
 भाई, हो सतगुरुका चेला ॥ जीव तू भ्रमत० ॥ ३ ॥

७

आकुलरहित होय इमि निशदिन, कीजे तत्त्व-
 विचारा हो । को मैं कहा रूप है मेरा, पर है कौन
 प्रकारा हो ॥ टेक ॥ १ ॥ को भव-कारण बंध कहा को,
 आस्रवरोकनहारा हो । खिपत कर्मबंधन काहेसों,
 थानक कौन हमारा हो ॥ २ ॥ इमि अभ्यास कियें
 पावत है, परमानंद अपारा हो । भागचंद यह सार जान
 करि, कीजे वारंवारा हो ॥ आकुलरहित होय० ॥ ३ ॥

८

राग भैरव ।

सुन्दर दशलच्छन वृष, सेय सदा भाई ।
जासतै नतच्छन जन, होय विश्वराई ॥ टेक ॥
क्रोधको निरोध शान्त, सुधाको निनांत शोध,
मानको तजौ भजौ स्वभाव कोमलाई ॥ १ ॥
छल बल तजि सदा विमलभाव सरलताई भजि,
सर्व जीव चैन दैन; वैन कह सुहाई ॥ २ ॥
ज्ञान तीर्थ स्नान दान, ध्यान भान हृदय आन,
दया-चरन धारि करन-विषय सब बिहाई ॥ ३ ॥
आलस हरि द्वादश तप, धारि शुद्ध मानस करि,
खेहगोह देह जानि, तजौ नेहताई ॥ ४ ॥
अंतरंग वाह्य संग, त्यागि आत्मरंग पागि,
शीलमाल अति विशाल, पहिर शोभनाई ॥ ५ ॥
यह वृष-सोपान-राज, मोक्षधाम चढ़न काज,
तनमुख (?) निज गुनसमाज, केवली बताई ॥ सुन्दर०॥६

९

प्रभानी ।

षोडशकारन सुहृदय, धारन कर भाई !
जिनतै जगतारन जिन, होय विश्वराई ॥ टेक ॥
निर्मल श्रद्धान ठान, शंकादिक मल जघान,
देवादिक विनय सरल-भावतै कराई ॥ १ ॥

शील निरतिचार धार, मारको सदैव मार,
 अंतरंग पूर्ण ज्ञान, रागको विंधाई ॥ २ ॥
 यथाशक्ति द्वादश तप, तपो शुद्ध मानस कर,
 आर्त रौद्र ध्यान त्यागि, धर्म शुद्ध ध्याई ॥ ३ ॥
 जथाशक्ति वैयावृत, धार अष्टमान टार,
 भक्ति श्रीजिनेन्द्रकी, सदैव चित्त लाई ॥ ४ ॥
 आरज आचारजके, वंदि पाद-वारिजकों,
 भक्ति उपाध्यायकी, निधाय मौग्यदाई ॥ ५ ॥
 प्रवचनकी भक्ति जननसेनि बुद्धि धरी नित्य,
 आवश्यक क्रियामें न, हानि कर कदाई ॥ ६ ॥
 धर्मकी प्रभावना मु, शर्मकर बढावना मु,
 जिनप्रणीत मंत्रमाहिं, प्रीति कर अघाई ॥ ७ ॥
 ऐसे जो भावत चित्त, कल्पता बहावत तमु,
 चरनकमल ध्यावन बुध, भागचंद गाई ॥ षोडश० ॥ ८ ॥

१०

प्रभार्ती ।

श्रीजिनवर दरश आज, करत मौग्य पाया ।
 अष्ट प्रातिहार्यसहित, पाय शान्ति काया ॥ टेक ॥
 वृक्ष है अशोक जहां, भ्रमर गान गाया ।
 सुन्दर मन्दार-पहुप, वृष्टि होत आया ॥ १ ॥
 ज्ञानामृत भरी वानि, खिरै भ्रम नसाया ।
 विमल चमर दोरत हरि, हृदय भक्ति लाया ॥ २ ॥

सिंहासन प्रभाचक्र, बालजग सुहाया ।
 देव दुंदुभी विशाल, जहां सुर बजाया ॥ ४ ॥
 मुक्ताफल माल सहित, छत्र तीन छाया ।
 भागचन्द अद्भुत छवि, कही नहीं जाया ॥ श्रीजिन०॥५॥

??

राग टुमरी ।

वीतराग जिन महिमा थारी, वरन सकै को जन त्रिभु-
 वनमें ॥ वीतराग० ॥ १ ॥ तुमरे अतट चतुष्टय प्रगट्यो,
 निःशेषावरनच्छय छिनमें । मेव पटल विद्यनतै प्रगटत,
 जिमि मारुंड प्रकाश गगनमें ॥ वीतराग० ॥ १ ॥
 अप्रमेय ज्ञेयनके ज्ञायक, नहिं परिनमत तदपि ज्ञेय-
 नमें । देखत नयन अनेकरूप जिमि, मिलत नहीं पुनि
 निज विषयनमें ॥ वीतराग० ॥ २ ॥ निज उपयोग आपनै
 स्वामी; गाल दिया निश्चल आपनमें । है अममर्थ
 बाध्य निकसनको, लवन घुला जैसें जीवनमें ॥ वीत-
 राग० ॥ ३ ॥ तुमरे भक्त परम मुख पावन, परत
 अभक्त अनंत दुखनमें । जैसें मुख देखा तैसौ है,
 भासत जिम निर्मल दरपनमें ॥ वीतराग० ॥ ४ ॥
 तुम कषाय विन परम शान्त हो, तदपि दक्ष कर्मा-
 रिहतनमें । जैसें अतिशीतल तुषार पुनि, जार देत
 द्रुम भारि गहनमें ॥ वीतराग० ॥ ५ ॥ अब तुम रूप

१ जीवन शब्दका अर्थ जल भी होता है ।

जथारथ पायो, अब इच्छा नहीं अन कुमननमें । भा-
गचन्द अम्रतरस पीकर, फिर को चाहै विष निज
मनमें ॥ वीतराग० ॥ ६ ॥

१२

गग दुर्मर्ग ।

बुधजन पक्षपात नज देखो, मांचा देव कौन है
इनमें ॥ बुधजन० ॥ टेक ॥ ब्रह्मा दंड कर्मंडलधारि,
स्वांत भ्रांत वशि सुरनारिनमें । मृगछाला माला
मौंजी पुनि, विषयासक्त निवास नलिनमें ॥ बुधजन०
॥ १ ॥ शंभू खट्वाअंगसहित पुनि, गिरिजा भोगमगन
निशदिनमें । हस्त कपाल व्याल भूषण पुनि, मंडमाल
तन भस्म मलिनमें ॥ बुधजन० ॥ २ ॥ विष्णु चक्रधर
मदनवानवश, लज्जा तजि रमता गोपिनमें । क्रोधा-
नल ज्वाजल्यमान पुनि, तिनके होन प्रचंड अरिनमें
॥ बुधजन० ॥ ३ ॥ श्रीअरहंत परम वैरागी, दूषण
लेश प्रवेश न जिनमें । भागचंद इनको स्वरूप यह,
अब कहो पूज्यपनो है किनमें ? ॥ बुधजन० ॥ ४ ॥

१३

अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि, त्रिविध जीव प-
रिनाम वखाने ॥ अति० ॥ टेक ॥ तीव्र कषाय उद-
यतै भावित, दर्वित हिंसादिक अघ ठाने । सो
संक्लेश भावफल नरकादिक गति दुख भोगत अस-

हाने ॥ अति० ॥ १ ॥ शुध उपयोग कारननमें जो,
 रागकषाय मंद उदयाने । सो विशुद्ध तसु फल इंद्रा-
 दिक, विभव समाज सकल परमाने ॥ अति० ॥ २ ॥
 परकारन मोहादिकतैं च्युत, दरसन ज्ञान चरन रस
 पाने । सो है शुद्ध भाव तसु फलतैं, पहुँचत परमानंद
 ठिकाने ॥ अति संक्रे० ॥ ३ ॥ इनमें जुगल बंधके कारन,
 परद्रव्याश्रित ह्यप्रमाने । ' भागचंद ' स्वसमय निज
 हिन लखि, तामैं रम रहिये भ्रम हाने ॥ अति० ॥ ४ ॥

१४

उग्रसेन गृह व्याहन आये, समदविजयके लाला
 ये ॥ उग्रसेन० ॥ टेक ॥ अशरन पशु आक्रंदन लखिकै,
 करुना भाव उपाये । जगत विभूनि भूनि मम तजिकै,
 अधिक विराग बढ़ाये ॥ उग्रसेन० ॥ १ ॥ मुद्रा नगन
 धरि तंद्रा विन, आत्मब्रह्मरुचि लाये । उर्जयंतगिरि
 शिखरोपरि चढि, शुचि थानकमें थाये ॥ उग्रसेन० ॥ २ ॥
 पंचमुष्टि कच लुँच मुँच रज, मिद्धनको शिर नाये ।
 धवल ध्यान पावक ज्वालानैं, करम कलंक जलाये
 ॥ उग्र० ॥ ३ ॥ वस्तु समस्त हस्तरेखावत, जुगपत ही
 दरसाये । निरवशेष विध्वस्त कर्मकर, शिवपुरकाज
 सिधाये ॥ उग्रसेन० ॥ ४ ॥ अव्यावाध अगाध बोध-
 मयतत्रानंद सुहाये । जगभूषन दूषनविन स्वामी,
 भागचंद गुन गाये ॥ उग्रसेन० ॥ ५ ॥

१५

राग चर्चरी ।

सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छन्न धारा
 निज धर्मकी कहानी ॥ सांची० ॥ टेक ॥ जामें अति
 ही विमल अगाध ज्ञानपानी, जहां नहीं संशयादि
 पंककी निशानी ॥ सांची० ॥ १ ॥ ससभंग जहँ तरंग
 उछलत मुखदानी, संतचित मरालवृंद रमै नित्य
 ज्ञानी ॥ सांची० ॥ २ ॥ जाके अवगाहनतें शुद्ध होय
 प्रानी, भागचंद्र निहचै घटमाहिं या प्रमानी ॥ सांची० ॥ २ ॥

१६

राग प्रभाती ।

प्रभु तुम मूरत दृगसों निरखै हरखै मोरो जीयग
 ॥ प्रभु तुम० ॥ टेक ॥ भुजत कषायानल पुनि उपजै,
 ज्ञानसुधारम सीयरा ॥ प्रभु तुम० ॥ १ ॥ वीतरागता
 प्रगट होत है, शिवथल दीसै नीयरा ॥ प्रभु तुम० ॥ २ ॥
 भागचंद तुम चरन कमलमें, वसत संतजन हीयरा
 ॥ प्रभु ० ॥ ३ ॥

१७

राग प्रभाती ।

अरे हो जियरा धर्ममें चित्त लगाय रे ॥ अरे हो०
 ॥ टेक ॥ विषय विषसम जान भौदं, वृथा क्यों लुभाय-
 रे । अरे हो० ॥ १ ॥ संग भार विषाद नोकौं, करत

क्या नहीं भाय रे । रोग-उरग-निवास-वामी, कहा
 नहीं यह काय रे ॥ अरे हो० ॥ २ ॥ काल हरिकी
 गर्जना क्या, तोहि मुन न पराय रे । आपदा भर
 नित्य नोकों, कहा नहीं दुःख दायरे ॥ अरे हो० ॥ ३ ॥
 यदि तोहि कहा नहीं दुःख, नरकके अमहाय रे । नदी
 वंतरनी जहां जिय, परै अति बिललाय रे ॥ अरे हो०
 ॥ ४ ॥ तन धनादिक घनपटल सम, छिनकमांहीं
 बिलाय रे । भागचंद मुजान इमि जदु-कुल-निलक
 गुन गाय रे ॥ अरे हो० ॥ ५ ॥

१८

श्रीजिनवरपद ध्यावैं जो नर श्रीजिनवर पद ध्यावैं
 ॥ टेक ॥ तिनकी कर्मकालिमा विनशैं, परम ब्रह्म हो
 जावैं । उपल अग्नि संजोग पाय जिमि, कंचन विमल
 कहावैं ॥ श्रीजिनवर० ॥ १ ॥ चन्द्रोज्वल जम तिनको
 जगमें, पंडित जन नित गावैं । जैसे कमलमुगंध
 दशोंदिश, पवन सहज फैलावैं ॥ श्रीजिनवर० ॥ २ ॥
 तिनहिं मिलनको मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा
 ल्यावै । कृषिमं तृण जिम सहज ऊपजै त्यों स्वर्गा-
 दिक पावै ॥ श्रीजिनवर० ॥ ३ ॥ जनमजरासृन दावानल
 ये; भाव सलिलतैं बुझावैं । भागचन्द कहाँ ताई बरनै,
 तिनहिं इंद्र शिर नावैं ॥ श्रीजिनवर० ॥ ४ ॥

१९

राग विलावल ।

सुमर सदा मन आतमराम, सुमर सदा मन आत-
 मराम ॥ टेक ॥ स्वजन कुटुंबी जन तू पोषै, तिनको
 होय सदैव गुलाम । सो तो हैं स्वार्थके साथी, अंतकाल
 नहिं आवत काम ॥ सुमर सदा० ॥ १ ॥ जिमि मरी-
 चिकामें मृग भटकै, परत सो जब ग्रीषम अति घाम ।
 तैसे तू भवमाहीं भटकै, धरत न इक छिनहु विसराम
 ॥ सुमर० ॥२॥ करत न ग्लानि अब भोगनमें, धरत
 न वीतराग परिनाम । फिर किमि नरकमाहिं दुख
 सहसी, जहाँ सुख लेश न आठौं जाम ॥ ३ ॥ तानें
 आकुलना अब तजिकै, धिर है बैठा अपने धाम ।
 भागचंद वसि ज्ञान नगरमें, तजि रागादिक ठग
 सब ग्राम ॥ सुमर० ॥ ४ ॥

२०

राग सारंग ।

श्रीमुनि राजत समता मंग । कायोत्सर्ग समायत
 अंग ॥ टेक ॥ करतैं नहिं कछु कारज तातैं, आलम्बित
 भुज कीन अभंग । गमन काज कछु हू नहिं तातैं,
 गति तजि छाके निज रसरंग ॥ श्रीमुनि० ॥ १ ॥
 लोचनतैं लखिवौ कछु नाहीं, तातैं नासा दृग अचलंग ।
 सुनिवे जोग रथो कछु नाहीं, तानैं प्राप्त इकंत सुचंग

॥श्रीमुनि०॥२॥ तहँ मध्यान्हमाहिं निज ऊपर, आयो
उग्र प्रताप पतंग । कैधौ ज्ञान पवनबल प्रज्वालेत, ध्याना-
नलसौं उछलि फुलिंग ॥ श्रीमु० ॥३॥ चित्त निराकुल
अतुल उठत जहँ, परमानंद पियूषतरंग । भागचंद ऐसे
श्रीगुरूपद, वंदत मिलत स्वपद उत्तंग ॥ श्रीमुनि० ॥४॥

२१

राग गौरी ।

आतम अनुभव आवै जब निज, आतम अनुभव
आवै । और कछु न सुहावै, जब निज० ॥ टंक ॥ रस
नीरस हो जात तनच्छिन, अच्छ विषय नहीं भावै ॥
आतम० ॥ ॥१॥ गोप्री कथा कुतुहल विघटै, पुद्गलप्रीति
नसावै ॥ आतम० ॥ २ ॥ राग दांप जुग चपल पक्षजुत
मन पक्षी मर जावै ॥ आतम० ॥ ३ ॥ ज्ञानानन्द सुधारस
उमगै, घट अंतर न समावै ॥ आतम० ॥ भागचंद ऐसे
अनुभवकं हाथ जोरि सिर नावै ॥ आतम० ॥ ४ ॥

२२

राग ईमन ।

महिमा है अगम जिनागमकी ॥ टंक ॥ जाहि सुनत
जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्मूरनि आतमकी ॥ महिमा०
॥१॥ रागादिक दुखकारन जानें, त्याग वुद्धि दीनी
भ्रमकी । ज्ञान ज्योति जागी घर अंतर, रुचि बाढी
पुनि शमदमकी ॥ महि० ॥ २ ॥ कर्म बंधकी भई
निरजरा, कारण परंपरा क्रमकी । भागचन्द शिव-

लालच लागो, पहुंच नहीं है जहँ जमकी ॥ महि-
मा० ॥ ३ ॥

२३

राग ईमन ।

धन धन श्रीश्रेयांसकुमार । तीर्थदान करतार ॥
टेक ॥ प्रभु लखि जाहि पूर्वश्रुत आई, चित हरषाय
उदार । नवधा भक्ति समेत ईश्वरस, प्रासुक दियो
अहार ॥ धन० ॥ १ ॥ रतनवृष्टि सुरगन तब कीनी,
अमित अमोघ सुधार । कल्पवृक्ष पहुपनकी वर्षा,
जहँ अलि करत गुँजार ॥ धन० ॥ २ ॥ सुरदुंभुभि सु-
न्दर अति बाजी, मन्द सुगंधि वयार । धन धन यह
दाता इमि नभमें, चहुँदिशि होत उचार ॥ धन० ॥
३ ॥ जस ताको अमरी नित गावत, चन्द्रोज्ज्वल
अविकार । भागचन्द लघुमति क्या वरनै, सो तो
पुन्य अपार ॥ धन० ॥ ४ ॥

२४

ऐसे जैनी भुनिमहाराज, सदा उर मो बसो ॥ टेक ॥
तिन समस्त परद्रव्यनिमाहीं, अहंबुद्धि तजि दीनी ॥
गुन अनंत ज्ञानादिक मम पुनि, स्वानुभूति लखि
लीनी ॥ ऐस० ॥ १ ॥ जे निजबुद्धिपूर्व रागादिक,
सकल विभाव निवारै । पुनि अबुद्धिपूर्वकनाशनको,
अपने शक्ति सम्हारै ॥ ऐस० ॥ २ ॥ कर्म शुभाशुभ

बंध उदयमें हर्ष विषाद न राखैं । सम्यग्दर्शनज्ञान-
चरनतप, भावसुधारस चाखैं ॥ ऐसे० ॥ ३ ॥ परकी
इच्छा तजि निजबल सजि, पूरब कर्म खिरावैं । स-
कल कर्मतैं भिन्न अवस्था सुखमय लखि चित चावैं
॥ ऐसे० ॥ ४ ॥ उदासीन शुद्धोपयोगरत सबके दृष्टा
ज्ञाता । बाहिररूप नगन समताकर, भागचन्द सुख-
दाता ॥ ऐसे० ॥ ५ ॥

२५

राग जंगला ।

तुम गुनमनिनिधि हौ अरहंत ॥ टेक ॥ पार न
पावत तुमरो गनपति, चार ज्ञान धरि संत ॥ तुम
गुन० ॥ १ ॥ ज्ञानकोष सब दोष रहिन तुम, अलख
अमूर्ति अर्चित ॥ तुम गुन० ॥ २ ॥ हरिगन अरचत
तुम पदवारिज, परमेष्ठी भगवंत ॥ तुम गुन० ॥ ३ ॥
भागचन्दकं घटमंदिरमें, वसहु सदा जयवंत ॥ तुम
गुन० ॥ ४ ॥

२६

राग जंगला ।

शांति वरन मुनिराई वर लखि । उत्तर गुनगन
सहित (मूल गुन सुभग) बरान सुहाई ॥ टेक ॥ तप
रथपै आरूढ अनूपम, धरम सुमंगलदाई ॥ शांति व-
रन० ॥ १ ॥ शिवरमनीको पानिग्रहण करि, ज्ञाना
नन्द उपाई ॥ शांति वरन० ॥ २ ॥ भागचन्द ऐसे

बनराको, हाथ जोर सिरनाई ॥ शांति वरन० ॥ ३ ॥

२७

राग जंगला ।

म्हाकै जिनमूरति हृदय बसी बसी ॥ टेक ॥ यद्यपि
करुनारसमय तद्यपि, मोह शत्रु हनि असी असी
॥ म्हा० ॥ १ ॥ भामंडल ताको अति निर्मल, निःक-
लंक जिमि समी ससी ॥ म्हाकै० ॥ २ ॥ लखन होत
अति शीतल मति जिमि, सुधा जलधिमें धमी धमी
॥ म्हाकै० ॥ ३ ॥ भागचन्द जिम ध्यानमंत्रसां, म-
मता नागिन नसी नसी ॥ म्हाकै० ॥ ४ ॥

२८

राग ग्यमाच ।

ज्ञानी मुनि छै ऐसे स्वामी गुनराम ॥ टेक ॥ जि-
नके शैलनगर मंदिर पुनि, गिरिकंदर सुखवास ॥
॥ ज्ञानी० ॥ १ ॥ निःकलंक परंजक शिला पुनि, दीप
मृगांक उजाम ॥ ज्ञा० ॥ २ ॥ मृग किंकर करुना
वनिता पुनि, शील सलिल तपग्राम ॥ ज्ञानी० ॥ ३ ॥
भागचन्द ते हें गुरु हमरे, निनहीके हम दास ॥
ज्ञानी० ॥ ४ ॥

२९

राग ग्यमाच ।

श्रीगुरु है उपगारी ऐसे वीतराग गुनधारी वे ॥

टेक ॥ स्वानुभूति रमनी सँग कीड़ें, ज्ञानसंपदा भारी
वे ॥ श्रीगुरु० ॥ १ ॥ ध्यान पिंजरामें जिन रोकौ
चित खग चंचलचारी वे ॥ श्रीगुरु है० ॥ २ ॥ तिनके
चरनसरोरूह ध्यावै, भागचन्द अघटारी वे ॥ श्री-
गुरु० ॥ ३ ॥

३०

राग खमाच ।

सारौ दिन निरफल खोयबौ करै छै । नरभव ल-
हिकर प्राणी विनज्ञान, सारौ दिन नि० ॥ टेक ॥
परसंपनि लखि निजचितमार्हीं, विरथा मूरख रोयबौ
करै छै ॥ सारौ० ॥ १ ॥ कामानलतें जरत मदा ही,
मुन्दर कामिनी जोयबौ करै छै ॥ सारौ० ॥ २ ॥
जिनमन तीर्थस्थान न टानै, जलसों पुटल धोयबौ
करै छै ॥ सारौ० ॥ ३ ॥ भागचन्द इमि धर्म विना
शठ, मोहनीदमें सोयबौ करै छै ॥ सारौ० ॥ ४ ॥

३१

राग परज ।

सम आराम विहारी, साधुजन सम आराम वि-
हारी ॥ टेक ॥ एक कल्पतरु पुष्पन मेती, जजन भक्ति
विस्तारी ॥ एक कंठविच सर्प नाखिया, क्रोध दर्पजुत
भारी ॥ राखत एक वृत्ति दोउनमें, सबहीके उपगारी
॥ सम आरा० ॥ १ ॥ सारंगी हरिबाल चुखावै, पुनि

मराल मंजारी । व्याघ्रबालकरि सहित नन्दिनी,
 व्याल नकुलकी नारी ॥ तिनके चरनकमल आश्रयतैं,
 अरिता सकल निवारी ॥ सम आ० ॥ २ ॥ अक्षय
 अनुल प्रमोद विधायक, ताकौ धाम अपारी । काम
 धरा विव गद्दी सो चिरतैं, आनमनिधि अविकारी ॥
 खनन ताहि लै कर करमैं जे, तीक्ष्ण बुद्धि कुदारी
 ॥सम आराम० ॥३॥ निज शुद्धोपयोगरम चाखन, पर-
 ममता न लगारी । निज मरधान ज्ञान चरनात्मक,
 निश्चय शिवमगचारी ॥ भागचंद ऐंमे श्रीपति प्रति,
 फिर फिर ढोक हमारी ॥ सम आराम वि० ॥ ४ ॥

३२

राग सोरठ ।

इष्टजिन केवली म्हाकै इष्टजिन केवली, जिन सकल
 कलिमल दली ॥ टेक ॥ शान्ति छबि जिनकी विमल
 जिमि, चन्द्रदुति मंडली । संत-जन-मन-केकि-तर्पन
 मघन घनपटली ॥ इष्टजिन के० ॥ १ ॥ स्यात्पदांकित
 धुनि सुजिनकी, वदनतैं निकली । वस्तुनत्त्वप्रकाशिनी
 जिमि, भानु किरनावली ॥ इष्टजिन० ॥ २ ॥ जासुपद
 अरविंदकी, मकरंद अति निरमली । ताहि घान करै
 नमित हर, मुकुट-दुति-मनि अली ॥ इष्टजिन० ॥ ३ ॥
 जाहि जजन विराग उपजन, मोहनिद्रा टली । ज्ञान-
 लोचनतैं प्रगट लखि, धरत शिववटगली ॥ इष्टजिन०

॥ ४ ॥ जासु गुन नहिं पार पावन, बुद्धि ऋद्धि बली ।
भागचंद सु अल्पमनि जन,—की तहां क्या चली
॥ इष्टजिन० ॥ ५ ॥

३३

राग सोरठ ।

स्वामी मोहि अपनो जानि तारौ, या विनती अब
चिन धारौ ॥ टंक ॥ जगत उजागर करुणासागर, नागर
नाम तिहारौ ॥ स्वामी मोहि० ॥ १ ॥ भव अटवीमें
भटकन भटकन, अब में अति ही हारौ ॥ स्वामी मोहि०
॥ २ ॥ भागचन्द स्वच्छन्द ज्ञानमय, सुख अनंत
विस्तारौ ॥ स्वामी मोहि० ॥ ३ ॥

३४

राग सोरठ देशी ।

थांकी तो बानीमें हो, निज स्वपरप्रकाशक ज्ञान
॥ टंक ॥ एकीभाव भये जड़ चेतन, तिनकी करत पिछान
॥ थांकी तो० ॥ १ ॥ सकल पदार्थ प्रकाशत जामें,
मुकुर तुल्य अमलान ॥ थांकी तो० ॥ २ ॥ जग वृद्धामनि
शिव भये ते ही, तिन कीनों मरधान ॥ थांकी तो०
॥ ३ ॥ भागचंद वृधजन ताहीको, निशदिन करत
बखान ॥ थांकी तो० ॥ ४ ॥

३५

राग सोरठ मल्हारमें ।

गिरिवनवासी मुनिराज, मन वसिया म्हारैं हो

॥ टेक ॥ कारनविन उपगारी जगके, तारन-तरन-जिहाज
 ॥ गिरिवन० ॥ १ ॥ जनम-जरामृत-गद-गंजनको, करत
 विवेक इलाज ॥ गिरिवन० ॥ २ ॥ एकाकी जिमि रहत
 केसरी, निरभय स्वगुन समाज ॥ गिरिवन० ॥ ३ ॥
 निर्भूषन निर्वमन निराकुल, सजि रत्नत्रय साज ॥
 गिरिवन० ॥ ४ ॥ ध्यानाध्ययनमाहिं नत्पर नित, भाग-
 चन्द शिवकाज ॥ गिरिवन० ॥ ५ ॥

३६

राग सोरठ ।

म्हांकै घट जिनधुनि अब प्रगटी ॥ टेक ॥ जागृत दशा
 भई अब मेरी, मुस दशा विघटी । जगरचना दीसन
 अब मोकों, जैसी रहतघटी ॥ म्हांकै घट० ॥ १ ॥
 विभ्रम तिमिर-हरन निज दृगकी, जैसी अंजनवटी ।
 तानै स्वानुभूति प्रापतिनै, परपरनति सब हटी ॥ म्हांकै
 घट० ॥ २ ॥ ताके विन जो अवगम चाहै, सो तो
 शठ कपटी । तानै भागचन्द निशिवासर, इक ता-
 हीको रटी ॥ म्हांकै घट० ॥ ३ ॥

३७

राग सोरठ ।

आवै न भोगनमें तोहि गिलान ॥ टेक ॥ तीरथ-
 नाथ भोग तजि दीनै, तिननै मन भय आन । तू
 तिननै कहूँ डरपन नाहीं, दीसन अति बलवान ॥
 आवै न० ॥ १ ॥ इन्द्रियतृप्ति काज तू भोगै, विषय

महा अघखान । सो जैसे घृतधारा डारै, पाव-
कज्वाल बुझान ॥ आवै न० ॥ २ ॥ जे सुख तो ती-
छन दुखदाई, ज्यों मधुलिस-कृपान । तातैं भागचन्द
इनको तजि, आत्मस्वरूप पिछान ॥ आवै न० ॥ ३ ॥

३८

गग मारठ ।

स्वामीजी तुम गुन अपरंपार, चन्द्रोज्ज्वल अवि-
कार ॥ टेक ॥ जबै तुम गर्भमाहिं आयें, तबै सख
सुरगन मिलि आयें । रतन नगरीमें वरषायें, अमित
अमोघ सुठार ॥ स्वामीजी० ॥ १ ॥ जन्म प्रभु तुमने
जब लीना, न्हवन मंदिरपै हरि कीना । भक्ति करि
सची महिन भीना, बोला जयजयकार ॥ स्वामीजी०
॥ २ ॥ जगन छनभंगुर जब जाना, भये तब नगन-
वृत्ती वाना । स्तवन लौकांतिकसुर ठाना, त्याग
राजकां भार ॥ स्वामीजी० ॥ ३ ॥ घानिया प्रकृति
जबै नासी, चराचर वस्तु सबै भासी । धर्मकी वृष्टी
करी खासी, केवलज्ञान भंडार ॥ स्वामीजी० ॥ ४ ॥
अघाती प्रकृति सुविघटाई, मुक्तिकान्ता तब ही पाई ।
निराकुल आनंद असहाई, नीनलोकसरदार ॥ स्वा-
मीजी० ॥ ५ ॥ पार गनधर हू नहिं पावैं, कहां लगि
भागचन्द गावैं । तुम्हारे चरनांबुज ध्यावैं, भवसागर
सां तार ॥ स्वामीजी० ॥ ६ ॥

३९

राग मल्हार ।

मान नः कीजिये हो परवीन ॥ टेक ॥ जाय पलाय
चंचला कमला, तिष्ठै दो दिन तीन । धनजोवन छन-
भंगुर सच ही, होत सुछिन छिन छिन ॥ मान न०
॥ १ ॥ भरत नरेन्द्र खंड-खट-नायक, तेहु भये मद
हीन । तेरी बात कहा है भाई, तू तो सहज हि दीन
॥ मान न० ॥ २ ॥ भागचन्द्र मार्दव-रमसागर, -मार्हि
होहु लवलीन । तातैं जगनजालमें फिर कहूं, जनम
न होय नवीन ॥ मान न० ॥ ३ ॥

४०

राग मल्हार ।

अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मनुषभव पायो ॥ टेक ॥
लोचनरहित मनुषके करमें, ज्यों बटेर खग आयो
॥ अरे हो० ॥ १ ॥ मो तू खोवन विषयनमाहीं, धरम
नहीं चित लायो ॥ अरे हो० ॥ २ ॥ भागचन्द्र उप-
देश मान अब, जो श्रीगुरु परमायो ॥ अरे हो० ॥ ३ ॥

४१

राग मल्हार ।

वरसत ज्ञान सुनीर हो, श्रीजिनमुखधनसों ॥
टेक ॥ शीतल होत सुबुद्धिभेदिनी, मिटत भवानप-
पीर ॥ वरसत० ॥ १ ॥ स्याद्वाद नयदामिनि दमकै,
होत निनाद गंभीर ॥ वरसत० ॥ २ ॥ करुनानदी

वसै चहुं दिशिनैँ, भरी सो दोई नीर ॥ वरसन० ॥३॥
भागचन्द अनुभवमंदिरको, तजत न संत सुधीर ॥
वरसन० ॥ ४ ॥

४२

राग मल्हार ।

मेघघटासम श्रीजिनवानी ॥ टेक ॥ स्यात्पद
चपला चमकत जामें, वरमत ज्ञान सुपानी ॥ मेघघटा०
॥ १ ॥ धरममस्य जातैं बहू बाटैं, शिवआनंदफलदानी ॥
मेघघटा० ॥ २ ॥ मोहन धूल दबी सब यातैं, क्रोधानल
सुबुझानी ॥ मेघघटा० ॥ ३ ॥ भागचन्द बुधजन
केकीकुल, लखि हरखै चिनजानी ॥ मेघघटा० ॥ ४ ॥

४३

राग धनाश्री ।

प्रभू थांकां लखि ममचित हरपायां ॥ टेक ॥
सुंदर चितारतन अमोलक, रंकपुरुष जिमि पायो ॥
प्रभू० ॥ १ ॥ निर्मलरूप भयो अब मेरो, भक्तिनदीजल
न्हायो प्रभू० ॥ २ ॥ भागचन्द अब मम करतलमें
अविचल शिवथल आयो ॥ प्रभू० ॥ ३ ॥

४४

राग मल्हार ।

प्रभू म्हाकी सुधि, करुना करि लीजे ॥ टेक ॥
मेरे हक अवलम्बन तुम ही, अब न विलम्ब करीजे
॥ प्रभू० ॥ १ ॥ अन्य कुदेव तजे सब मैंने, तिनतैं

निजगुन छीजे ॥ प्रभू० ॥ २ ॥ भागचन्द तुम शरन
लियो है, अब निश्चलपद दीजे ॥ प्रभू० ॥ ३ ॥

४५

राग कलिगड़ा ।

ऐसे साधू सुगुरु कब मिल हैं ॥ टेक ॥ आप
तरं अरु परको तारें, निष्पेही निरमल हैं ॥ ऐसे०
॥ १ ॥ तिलतुषमात्र संग नहीं जाकै, ज्ञान-ध्यान-
गुण-बल हैं ॥ ऐसे साधू० ॥ २ ॥ शान्तदिगम्बर मुद्रा
जिनकी, मन्दिरतुल्य अचल हैं ॥ ऐसे० ॥ ३ ॥
भागचन्द तिनको नित चाहै, ज्यों कमलनिको अल
है ॥ ऐसे० ॥ ४ ॥

४६

राग कहरवा कलिगड़ा ।

केवल जोनि सुजागी जी, जब श्रीजिनवरके ॥ टेक ॥
लोकालोक विलोकन जैसे, हस्तामल वड़भागी जी ॥
के० ॥ १ ॥ हार-चूडामनिशिखा सहज ही, नम्र भूमितें
लागी जी ॥ केवल० ॥ २ ॥ समवसरन रचना सुर
कीन्हीं, देखत भ्रम जन त्यागी जी ॥ केवल० ॥ ३ ॥
भक्तिसहित अरचा तब कीन्हीं, परम धरम अनु-
रागी जी ॥ केवल० ॥ ४ ॥ दिव्यध्वनि सुनि सभा
दुवादश, आनंदरसमें पागी जी ॥ केवल० ॥ ५ ॥
भागचंद प्रभुभक्ति चहत है, और कछु नहीं मांगी
जी ॥ केवल० ॥ ६ ॥

४७

दयाल ।

विन काम ध्यानमुद्राभिराम, तुम हो जगनायकजी
॥ टेक ॥ यद्यपि, वीतरागमय तद्यपि, हो शिवदा-
यक जी ॥ विन काम० ॥ १ ॥ रागी देव आप ही
दुखिया, सो क्या लायक जी ॥ विन काम० ॥ २ ॥
दुर्जय मोह शत्रु हनवेको, तुम वच शायकजी ॥ विन
काम० ॥ ३ ॥ तुम भवमोचन ज्ञानसुलोचन, केवल-
क्षायकजी ॥ विन काम० ॥ ४ ॥ भागचन्द भागननें
प्रापति, तुम सब ज्ञायकजी ॥ विन काम० ॥ ५ ॥

४८

राग काफी ।

अहो यह उपदेशमाहीं, सुख चित्त लगावना ।
होयगा कल्याणनेरा, सुख अनंत बढावना ॥ टेक ॥
राहित दूषण विश्वभूषण, देव जिनपति ध्यावना ।
गगनवत निमल अचल मुनि, तिनहिं शीस नधावना
॥ अहो० ॥ १ ॥ धर्म अनुकंपा प्रधान, न जीव कोई
सतावना । ससतत्त्वपरीक्षणा करि, हृदय श्रद्धा लावना
॥ अहो० ॥ २ ॥ पुद्गलादिकनें पृथक्, चेतन्य ब्रह्म
लखावना । या विधि विमल सम्यक्त धरि, शंकादि
पंक वहावना ॥ अहो० ॥ ३ ॥ रुचें भव्यनको वचन
जे, शठनको न सुहावना । चन्द्र लखि जिमि कुमुद

विकसै, उपल नहिं विकसावना ॥ अहो० ॥ ४ ॥
 भागचंद विभावतजि, अनुभव स्वभाविन भावना ।
 या शरण न अन्य जगता-रन्यसें कहुं पावना ॥
 अहो० ॥ ५ ॥

४९

राग काफ़ी ।

ऐसें विमल भाव जब पावै, तब हम नरभव
 सुफल कहा वै ॥ क ॥ दरशबोधमय निज आत्म
 लखि, परद्रव्यनिको नहिं अपनावै । मोह-राग-रुष
 अहित जान तजि, झटित दूर निनको छिटकावै ॥
 ऐसे० ॥ १ ॥ कर्म शुभाशुभबंध उदयमें, हर्ष विषाद
 चित्त नहिं ल्यावै । निज-हित-हेन विराग ज्ञान लखि,
 निनसों अधिक प्रीति उपजावै ॥ ऐसे० ॥ २ ॥ विषय
 चाह तजि आत्मवीर्य मजि, दुखदायक विधिबंध
 खिरावै । भागचन्द शिवसुख सब सुखमय, आकुलता
 विन लखि चित चावै ॥ ऐसे० ॥ ३ ॥

५०

राग काफ़ी ।

प्रभूपै यह वरदान सुपाऊं, फिर जगकीचषीच
 नहिं आऊं ॥ टेक ॥ जल गंगाक्षत पुष्प सुमोदक, दीप
 धूप फल सुन्दर ल्याऊं । आनंदजनक कनकभाजन
 धरि, अर्घ अनर्घ बनाय चढाऊं ॥ प्रभूपै० ॥ १ ॥

आगमके अभ्यासमाहिं पुनि, खित एकाग्र सदैव
 लगाऊं । संतनकी संगति तजिकै मैं, अंत कहूं इक
 छिन नहिं जाऊं ॥ प्रभूपै० ॥ २ ॥ दोषवादमें मौन
 रहूं फिर, पुण्यपुरुषगुन निशिदिन गाऊं । मिष्ट स्पष्ट
 सबहिंसों भाषों, वीतराग निज भाव बदाऊं ॥
 प्रभूपै० ॥ ३ ॥ बाहिजदृष्टि गेंचके अन्तर, परमानन्द-
 स्वरूप लखाऊं । भागचन्द शिवप्राप्त न जौलीं तों
 लौं तुम चरनांबुज ध्याऊं ॥ प्रभूपै० ॥ ४ ॥

५१

लावनी ।

धन्य धन्य है घड़ी आजकी, जिनधुनि श्रवन परी ।
 तत्त्वप्रतीत भई अब मेरे, मिथ्यादृष्टि टरी ॥ टेक ॥
 जड़नैं भिन्न लावी चिन्मूरति, चेतन स्वरम भरी ।
 अहंकार ममकार बुद्धि पुनि, परमें सब परिहरी ॥
 धन्य० ॥ १ ॥ पापपुन्य विधिवंध अवस्था, भासी
 अतिदुखभरी । वीतराग विज्ञानभावमय, परिनत
 अति विस्तरि ॥ धन्य० ॥ २ ॥ चाह-दाह विनमी
 वरसी पुनि, समतामेघझरी । बाढ़ी प्रीति निराकुल
 पदसों, भागचन्द हमरी ॥ ३ ॥

५२

लावनी ।

सफल है धन्य धन्य वा घरी, जब ऐसी अति निर्मल

होसी, परमदशा हमरी ॥ टेक ॥ धारि दिगंबरदीक्षा
 सुंदर, त्याग परिग्रह अरी । वनवासी कर पात्र
 परीषह, सहि हों धीर धरी ॥ सफल० ॥ १ ॥ दुर्धर
 तप निर्भर नित तप हों, मोह कुवृक्ष करी । पंचा-
 चारक्रिया आचर ही, सकल सार सुथरी ॥ सफल०
 ॥ २ ॥ विभ्रमतापहरन झरसी निज, अनुभव-मेघ-
 झरी । परम शान्त भावनकी तातें, होसी वृद्धि
 खरी ॥ सफल० ॥ ३ ॥ त्रंसटिप्रकृति भंग जब होसी,
 जुत त्रिभंग मगरी । तब केवलदर्शनविबोध सुख,
 वीर्यकला पसरि ॥ सफल० ॥ ४ ॥ लखि हो सकल
 द्रव्य गुणपर्जय, परनति अति गहरी । भागचन्द्र जब
 सहजहि मिल है, अचल मुकति नगरी ॥ सफल०
 ॥ ५ ॥

५३

गग सोरठ ।

जे दिन तुम विवेक विन खोंये ॥ टेक ॥ मोह
 वारुणी पी अनादिनें, परपदमें चिर सोंये । सुखकरंड
 चिनपिंड आपपद, गुन अनंत नाहिं जोंये । जे दिन०
 ॥ १ ॥ होय बहिर्मुख ठानि राग रुख, कर्म बीज बहु
 बांये । तमु फल सुख दुख सामिग्री लखि, चितमें
 हरषे रांये ॥ जे दिन० ॥ २ ॥ धवल ध्यान शुचि
 सलिलपूरतें, आस्रव मल नाहिं धोये । परद्रव्यनिकी
 चाह न रोकी, विविध परिग्रह होये ॥ जे दिन० ॥

॥ ३ ॥ अब निजमें निज जान नियत तहां, निज परिनाम समोये । यह शिवमारग समरससागर, भागचन्द हित तो ये ॥ जे दिन० ॥ ४ ॥

५४

राग दादग ।

धनि ने प्रानि, जिनके तत्त्वारथ श्रद्धान ॥ टेक ॥ रहित सप्त भय तत्त्वारथमें, चित्त न संशय आन । कर्म कर्ममलकी नहीं इच्छा, परमें धरत न ग्लानि ॥ धनि० ॥ १ ॥ सकल भावमें मूढ़दृष्टितजि, करत साम्यरसपान । आत्म धर्म बढ़ावें वा, परदोष न उचरैं वान ॥ धनि० ॥ २ ॥ निज स्वभाव वा, जैनधर्ममें, निजपरथिरता दान, । रत्नत्रय महिमा प्रगटावैं, प्रीति स्वरूप महान ॥ धनि० ॥ ३ ॥ ये वसु अंगसहित निर्मल यह, समकित निज गुन जान । भागचन्द शिवमहल चढ़नको, अचल प्रथम सोपान ॥ धनि० ॥ ४ ॥

५५

राग जोड़ा ।

ज्ञानी जीवनके भय होय, न या परकार ॥ टेक ॥ इह भव परभव अन्य न भरो, ज्ञानलोक मम सार । मैं वेदक इक ज्ञानभावको, नहीं परवेदनहार ॥ ज्ञानी० ॥ १ ॥ निज सुभावको नाश न तातैं, चाहिये नहीं

रखवार । परमगुप्त निजरूप सहज ही, परका तहँ न
 सँचार ॥ ज्ञानी० ॥ २ ॥ चितस्वभाव निज प्रान ता-
 सको, कोई नहीं हरतार । मैं चितपिंड अखंड न
 तातैं, अकस्मान् भयभार ॥ ज्ञानी० ॥ ३ ॥ होय
 निशंक स्वरूप अनुभव, जिनके यह निरधार । मैं सो
 मैं पर सो मैं नाहीं, भागचन्द भ्रम डार ॥ ज्ञानी०
 ॥ ४ ॥

५६

गग जोड़ा ।

मैं तुम शरन लियो, तुम सांचे प्रभु अरहंत ॥ टेक ॥
 तुमरे दर्शन ज्ञान सुकरमें, दरशज्ञान झलकंत । अतु-
 ल निराकुल सुख आस्वादन, वीरज अरज (?) अनंत
 ॥ मैं तुम० ॥ १ ॥ रागद्वेष विभाग नाश भये, परम
 समरसी संत । पद देवाधिदेव पायां किय, दोष
 क्षुधादिक अंत ॥ मैं तुम० ॥ २ ॥ भूपन वसन
 शस्त्र कामादिक, करन विकार अनंत । तिन तुम
 परमौदारिक तन, मुद्रा सम शोभंत ॥ मैं तुम०
 ॥ ३ ॥ तुम वानीतैं धर्मतीर्थ जग, माहिं त्रिकाल
 चलंत । निजकल्याणहेतु इन्द्रादिक, तुम पदसेव
 करंत ॥ मैं तुम० ॥ ४ ॥ तुम गुन अनुभवतैं निज पर
 गुन, दरसत अगम अचिंत । भागचन्द निजरूपप्राप्ति
 अब, पावैं हम भगवंत ॥ मैं तुम० ॥ ५ ॥

५७

राग गौरी ।

आत्म अनुभव आवै जब निज, आत्म अनुभव आवै । और कछु न सुहावै जब निज, आत्म अनुभव आवै ॥ टेक ॥ जिनआज्ञानुसार प्रथम ही, तत्त्व प्रतीति अनावै । वरनादिक रागादिकनै निज, चिन्न भिन्न फिर ध्यावै ॥ आत्म० ॥ १ ॥ मतिज्ञान फरसादि विषय तजि, आत्म सम्मुख धावै । नय प्रमान निक्षेप सकल श्रुत, ज्ञानविकल्प नसावै ॥ आत्म० ॥ २ ॥ चिदहं शुद्धोऽहं इत्यादिक, आपमार्हिं बुध आवै । तन पै वज्रपात गिरनै ह, नेकु न चित्त डुलावै ॥ आत्म० ॥ ३ ॥ स्वमंवेद आनंद बहै अति, वचन कब्यो नहिं जावै । देखन जानन चरन तीन विच, इक स्वरूप बहरावै ॥ आत्म० ॥ ४ ॥ चितकर्ता चित कर्मभाव चित, परनति क्रिया कहावै । माधक साध्य ध्यान ध्येयादिक, भेद कछु न दिखावै ॥ आत्म० ॥ ५ ॥ आत्मप्रदेश अदृष्ट तदपि, रसस्वाद प्रगट दरसावै । ज्यां मिश्री दीसत न अंधको, सपरस मिष्ट चखावै ॥ आत्म० ॥ ६ ॥ जिन जीवनके, संसृत पारावार पार निकटावै । भागचंद ते सार अमोलक, परम रतन वर पावै ॥ आत्म० ॥ ७ ॥

५८

राग दादरा ।

चेतन निजं भ्रमनैं भ्रमत रहै ॥ टेक ॥ आप अभंग
 तथापि अंगके, संग महा दुख (पुंज) वहै । लोहपिंड
 संगति पावक ज्यों, दुर्धर घनकी चोट सहै ॥ चेतन०
 ॥ १ ॥ नामकर्मके उदय प्राप्त नर, नरकादिक परजाय
 धरै । तामें मान अपनपौ विरथा, जन्म जरा मृतु पाय
 डरै ॥ चेतन० ॥ २ ॥ कर्ता होय रागरुष टानै, परको
 साक्षी रहत न यहै । व्याप्य सुव्यापक भाव विना
 किमि, परको करता होत न यहै ॥ चे० ॥ ३ ॥ जब
 भ्रमनींद त्याग निजमें निज, हित हेत समहारत है ।
 वीतराग सर्वज्ञ होत तब, भागचन्द हितसीख कहै
 ॥ चेतन० ॥ ४ ॥

५९

दोहा ।

विश्वभावव्यापी तदपि, एक विमल चिद्रूप ।
 ज्ञानानंदमयी सदा, जयवंतौ जिनभूष ॥ १ ॥

छन्द चाल ।

सफली मम लोचनछंद । देखत तुमको जिनचंद
 मम तनमन शीतल एम । अम्रतरस सींचत जेम ॥२॥
 तुम बोध अमोघ अपारा । दर्शन पुनि सर्व निहारा ॥
 आनंद अतिन्द्रिय राजै । बल अतुल स्वरूप न त्याजै

॥३॥ इत्यादिक स्वगुण अनन्ता । अन्तर्लक्ष्मी भगवन्ता ।
 बाहिज विभूति बहु सांहे । वरनन समर्थ कवि को है
 ॥४॥ तुम वृच्छ अशोक सुम्बच्छ । सब शोकहरनको
 दच्छ । तहां चंचरीक गुंजारै । मानों तुम स्तोत्र उचारै
 ॥५॥ शुभ रत्नमयूख विचित्र । मिहामन शोभ पवित्र ।
 तह वीतराग छबि सांहे । तुम अंनरीछ मनमोहे ॥६॥
 वर कुन्दकुन्द अवदान । चामरव्रज सर्व सुहान । तुम
 ऊपर मघवा द्वारै । धर भक्ति भाव अघ टारै ॥ ७ ॥
 मुक्ताफल माल समन । तुम ऊर्ध्व छत्रत्रय सेन । मानों
 तारान्वित चन्द । त्रय मूर्ति धरी दुनि वृन्द ॥८॥ शुभ
 दिव्य पटह बहु बाजै । अनिशय जुन अधिक विराजै ।
 तुमरो जस घोके मानों । त्रैलोक्यनाथ यह जानों ॥९॥
 हरिचन्दन सुमन मुहाये । दशदिशि सुगंधि महकाये ॥
 अलिपुंज विगुंजन जामै । शुभ वृष्टि होन तुम सामै
 ॥१०॥ भामंडल दीसि अखंड । छिप जान कोट मार्तंड ।
 जग लोचनको सुखकारी । मिथ्यातमपटल निवारी
 ॥११॥ तुमरी दिव्यध्वनि गाजै । विन इच्छा भविहित
 काजै । जीवादिक तत्त्वप्रकाशी । भ्रमनमहर सूर्यकला-
 सी ॥१२॥ इत्यादि विभूति अनंत । बाहिज अतिशय
 अरहत । देवत मन भ्रमतम भागा । हित अहित ज्ञान
 उर जागा ॥१३॥ तुम सब लाषक उपगारी । मैं दीन दुखी
 संसारी । तानें सुनिये यह अरजी । तुम शरन लियो जि-
 नवरजी ॥१४॥ मैं जीवद्रव्य विन अंग । लागो अनादि
 विधि संग । ता निमित पाय दुख पाये । हम मिथ्यानादि

महा ये ॥१५॥ निज गुण कबहूँ नहिं भाये । सब परप-
 दार्थ अपनाये । रति अरति करी सुखदुखमें । व्है करि
 निजधर्म विमुख में ॥१६॥ पर-चाह-दाह नित दाहौ ।
 नहिं शांत सुधा अवगाहौ ॥ पशु नारक नर सुरगतमें ।
 चिर भ्रमत भयो भ्रममतमें ॥१७॥ कीनें बहु जामन
 मरना । नहिं पायो सांचो शरना । अब भाग उदय
 मो आयां । तुम दर्शन निर्मल पायां ॥ १८ ॥ मन
 शांत भयो उर मरो । बाढ़ो उछाह शिवकेरो ।
 परविषयरहित आनन्द । निज रम चाखो निरद्वन्द
 ॥१९॥ सुझ काजतनें कारज हो । तुम देव तरन तारन
 हो ॥ तातें ऐसी अब कीजे । तुम चरन भक्ति मोह
 दीजे ॥ २० ॥ दृग-ज्ञान-चरन परिपूर । पाऊं निश्चय
 भवचूर । दुखदायक विषय कपाय । इनमें परनति
 नहिं जाय ॥ २१ ॥ सुरराज समाज न चाहें ।
 आनम समाधि अवगाहें । पर इच्छा तो मनमानी ।
 पूरो सब केवलज्ञानी ॥ २२ ॥

दोहा ।

गनपति पार न पावहीं, तुम गुनजलधि विशाल ।
 भागचन्द तुव भक्ति ही, करै हमें वाचाल ॥ २३ ॥

६०

गीतिका ।

तुम परम पावन देख जिन, अरि-रजरहस्य

विनाशनं । तुम ज्ञान-दृग-जलबीच त्रिभुवन, कम-
लवन प्रतिभासनं ॥ आनंद निजज अनंत अन्य,
अचिन संतत परनये । बल अनुल कलित स्वभावतै
नहिं, खलित गुन अमिलित थये ॥ १ ॥ सब राग रूप
हनि परम श्रवन स्वभाव घन निर्मल दशा । इच्छा-
रहित भवहित खिरत, वच सुनत ही भ्रमतम नशा ।
एकान्त-गहन-सुदहन स्यात्पद, बहन मय निजपर
दया । जाके प्रमाद विषाद विन, मुनिजन मपदि
शिचपद लहा ॥ २ ॥ भूषन वसन सुमनादिविन तन,
ध्यानमय मुद्रा दिपे । नामाग्र नयन सुपलक हलय
न, तेज लखि खगगन छिपै ॥ पुनि वदन निरखत
प्रशम जल, वरखत सुहरखत उर धरा । बुधि स्वपर
परखत पुन्यआकर, कलिकलिल दुरखत जरा
॥ ३ ॥ इत्यादि बहिरंतर असाधारन, सुविभव-
निधान जी । इन्द्रादिवंद पदारविंद, अनिंद तुम
भगवान जी । मैं चिर दुखी परचाहते, तुम धम
नियत न उर धरो ॥ परदेवसेव करी बहुत, नहिं काज
एक तहां सरो ॥ ४ ॥ अब भागचन्द्रउदय भयां, मैं
शरन आयो तुम तने । इक दीजिये वरदान तुम जस,
स्वपद दायक बुध भने ॥ परमाहिं इष्ट-अनिष्ट-मति
तजि, मगन निज गुनमें रहों । दृग-ज्ञान-चर संपूर्ण
पार्ज, भागचंद न पर चहों ॥ ५ ॥

६१

राग दीपचन्दी ।

कीजिये कृपा मोह दीजिये स्वपद, मैं तो तेरो ही
 शरन लीनों हे नाथ जी ॥ टंक ॥ दूर करो यह मोह
 शत्रुको, फिरन सदा जी मेरे साथ जी ॥ कीजिये०
 ॥ १ ॥ तुमरे वचन कर्मगत-मोचन, संजीवन औषधी
 काथजी ॥ कीजि० ॥ २ ॥ तुमरे चरन कमल बुध ध्यावत,
 नावत हैं पुनि निजमाथ जी ॥ कीजि० ॥ ३ ॥ भागचंद मैं
 दास तिहारो, ठाडो जोरौं जुगल हाथ जी ॥ कीजि०
 ॥ ४ ॥

६२

राग दीपचन्दी ।

निज कारज काहे न सारै रे, भूले प्रानी ॥ टंक ॥
 परिग्रह भारथकी कहा नाहीं, आरत होत निहारै रे
 ॥ निज० ॥ १ ॥ रोगी नर तेरी वपुको कहा, तिस
 दिन नाहीं जाँरै रे ॥ निज का० ॥ २ ॥ क्रूरकुतांत
 सिंह कहा जगमें, जीवनको न पछारै रे ॥ निज का०
 ॥ ३ ॥ करनविषय विषभोजनवन कहा, अंत विसरता
 न धारै रे ॥ निज० ॥ ४ ॥ भागचन्द भवअंधकूपमें
 धर्म रतन काहे डारै रे ॥ निज का० ॥ ५ ॥

६३

हरी तेरी मति नर कौनें हरी । तजि चिन्तामन

कांच गहन शठ ॥ टेक ॥ विषय कषाय रुचत त्रोकौ
 नित, जे दुखकरन अरी । हरी० ॥ १ ॥ सांचे मित्र
 सुहिनकर श्रीगुरु, तिनकी सुधि विसरी । हरी तेरी०
 ॥ २ ॥ परपरननिमें आपो मानत, जो अति विपति
 भरी । हरी० ॥ ३ ॥ भागचन्द जिनराज भजन
 कहूं, करत न एक घरी । हरी तेरी० ॥ ४ ॥

६४

सुमर मन समवसरन सुखदाई । अशरन शरन
 धनदकृन प्रभुको ॥ टेक ॥ मानस्तंभ सरोवर सुंदर,
 विमल सलिलजुत खाई । पुष्पवाटिका तुंगकोट पुनि,
 नाथशाल मनभाई ॥ सुमर मन० ॥ १ ॥ उपवन
 जुगल विशाल वेदिका, धुजर्पकति हलकाई । हाटक
 कोट कल्पतरुवन पुनि, द्वादश सभा वरनि नहिं जाई
 ॥ सुमर० ॥ तहें त्रिपीठपर देव स्वयंभू, राजत
 श्रीजिनराई । जाहि पुरंदरजुत धुन्दारक-वृन्द सु वंदत
 आई । भागचन्द इमि ध्यावत ते जन, पावत जगठ-
 कुराई ॥ सुमर मन० ॥ ३ ॥

६५

सोई है सांचा महादेव हमारा । जाके नाहीं रागराष
 गद, मोहादिक विस्तारा ॥ टेक ॥ जाके अंग न भस्म
 लिस है, नहिं रुंडनकृत हारा । भूषण व्याल न माल
 चन्द्र नहिं, शीस जटा नहिं धारा ॥ सोई है० ॥ १ ॥

जाके गीन न नृत्य न, मृत्यु न, बैलननो न सवारा ।
 नहिं कोपीन न काम कामिनी, नहिं धन धान्य पसारा
 ॥ सोई है० ॥२॥ सो तो प्रगट समस्त वस्तुको, देखन
 जाननहारा । भागचन्द ताहीको ध्यावन, पूजत वार-
 वारा ॥ सोई है० ॥ ३ ॥

६६

समझाओ जी आज कोई करुनाधरन, आये थे
 व्याहिन काज वे तो भये, हैं विरागी पशुदया लख
 लख ॥ टेक ॥ विमल चरन पागी, करन विषय त्यागी,
 उनने परम ज्ञानानंद चख चख ॥ समझाओ० ॥ १ ॥
 सुभग मुकति नारी, उनहिं लगी प्यारी, हममों नेह
 कष्ट नहीं रख रख ॥ समझाओ० ॥२॥ वे त्रिभुवनस्वामी,
 मदनरहित नामी, उनके अमर पूजे पद नख नख ॥
 समझाओ० ॥ ३ ॥ भागचन्द मैं तो तलफत अनि-जैसे,
 जलमों तुरत न्यारी जक झख झख ॥ समझाओ० ॥ ४ ॥

६७

गिरनारीपै ध्यान लगाया, चल सखि नेमिचन्द्र मुनि-
 राया ॥ टेक ॥ संग भुजंग रंग उन लखि तजि, शत्रु
 अनंग भगाया । बाल ब्रह्मचारी, व्रतधारी, शिचनारी
 चित लाया ॥ गिरनारी० ॥ १ ॥ मुद्रा नगन मोहनिद्रा
 विन, नासाहग मन भाया । आसन धन्य अनन्य वन्य
 चित, पुष्ट (?) थूल सम थाया ॥ गिरनारी० ॥२॥ जाहि

पुरन्दर पूजन आये, सुन्दर पुन्य उपाया । भागचन्द
मम प्राननाथ सो, और न मोह सुहाया ॥ गि० ॥ ३ ॥

६८

राग दीपचन्दी परज ।

नाथ भये ब्रह्मचारी, मखी घर मैं न रहोंगी ॥ टुक ॥
पाणिग्रहण काज प्रभु आये, सहित समाज अपागी ।
तनछिन ही वैराग भये हैं, पशुकर्ना उर धारी ॥
नाथ० ॥ १ ॥ एक सहस्र अष्ट लच्छनजुत, वा छबिकी
बलिहारी । ज्ञानानंद मगन निशिचामर, हमरी मुरत
विसारी ॥ नाथ० ॥ २ ॥ मैं भी जिनदीक्षा धरि हों अब-
जाकर श्रीगिरदारी । भागचन्द इमि मनन मखि-
नसों, उग्रसेनकी कुमारी ॥ नाथ० ॥ ३ ॥

६९

राग दीपचन्दी कानेर ।

जानके सुज्ञानी, जैनवानीकी सरधा लाह्ये ॥ टुक ॥
जा विन काल अनंते भ्रमता, मुख न मिलै कहं प्राणी
॥ जानके० ॥ १ ॥ स्वपर विवेक अवंड मिलत है
जाहीके सरधानी ॥ जानके० ॥ २ ॥ अखिलप्रमान-
सिद्ध अविरोद्धत, स्यात्पद शुद्ध निशानी ॥ जानके०
॥ ३ ॥ भागचन्द सत्यारथ जानी, परमधरमरज-
धानी ॥ जानके० ॥ ४ ॥

७०

राम दीपचन्दी धनाश्री ।

तू स्वरूप जाने विन दुखी, तेरी शक्ति न हलकी
 वे ॥ टेक ॥ रागादिक वर्णादिक रचना, सोहै सब
 पुद्गलकी वे ॥ तू स्व० ॥ १ ॥ अष्ट गुणानम तेरी मू-
 रति, सो केवलमें झलकी वे ॥ तू स्व० ॥ २ ॥ जगी
 अनादि कालिमा तेरे, दुस्त्यज मोहन मलकी वे ॥ तू
 स्व० ॥ ३ ॥ मोह नसै भासत है मूरत, पँक नसै ज्यों
 जलकी वे ॥ तू स्व० ॥ ४ ॥ भागचन्द सो मिलत ज्ञान
 सां, स्फूर्ति अखंड स्वबलकी वे ॥ तू स्व० ॥ ५ ॥

७१

राम दीपचन्दी ।

महिमा जिनमतकी, कोई वरन सकै बुधिवान ॥
 टेक ॥ काल अनंत भ्रमन जिय जा विन, पावत नहिं
 निज धान ॥ परमानन्दधाम भये तेही, तिन कीनों
 सरधान ॥ महिमा० ॥ १ ॥ अब मरुथलमें श्रीपमरितु
 रवि, तपत जीव अति प्रान । ताको यह अति शी-
 तल सुंदर, धारा सदन समान ॥ महिमा० ॥ २ ॥
 प्रथम कुमत मनमें हम भूले, कीनी नाहिं पिछान ।
 भागचन्द अब याको संवत, परम पदारथ जान ॥
 महिमा० ॥ ३ ॥

७२

गग दीपचन्दी सोरठ ।

प्राणी समकित ही शिवपंथा । या विन निर्मल सब
ग्रंथा ॥ टेक ॥ जा विन बाह्यक्रिया तप कोटिक, सफल
वृथा है रंथा ॥ प्राणी० ॥ १ ॥ ह्यजुतरथ भी सारथ
विन जिमि, चलत नहीं ऋजु पंथा ॥ प्राणी० ॥ २ ॥
भागचन्द सरधानी नर भये, शिवलछमीके कंथा ॥
प्राणी० ॥ ३ ॥

७३

गग दीपचन्दी ।

तेरे ज्ञानावरनदा परदा, तातैं सृष्टन नहिं भेद स्व
परदा ॥ टेक ॥ ज्ञान विना भवदुख भोगै तू, पंछी
जिमि विन परदा ॥ तेरे० ॥ १ ॥ देहादिकमें आपौ
मानत, विभ्रममदवश परदा ॥ तेरे० ॥ २ ॥ भागचन्द
भव विनसै वासी, होथ त्रिलोक उपरदा ॥ तेरे० ॥ ३ ॥

७४

गग दीपचन्दी खम्भाचकी ।

जैनमन्दिर हमको लागै प्यारा ॥ टेक ॥ कैंधौ व्याह
मुकति मंगल ग्रह, तारनादि जुत लसत अपारा ॥
जैन० ॥ १ ॥ घर्मकेतु सुखहेत देत गुन, अक्षय पुन्य
रतनभंडारा ॥ जैन० ॥ २ ॥ कहुं पूजन कहुं भजन हात
हैं, कहुं बरसत पुन श्रुतरसधारा ॥ जैन० ॥ ३ ॥ ध्या-

नारूढ़ विराजत हैं जहां, वीतराग प्रतिबिम्ब उदारा
॥ जैन० ॥ ४ ॥ भागचन्द तहां चलिये भाई, तजिकै
गृहकारज अघ भारा ॥ जैन० ॥ ५ ॥

७५

राग दीपचन्दी ।

जिनमन्दिर चल भाई, शिव-तिय-व्याह सुमं-
गलग्रहवत ॥ टेक ॥ जन धर्मिष्ठ समाज सकल तहाँ,
तिष्ठत मोद बढाई । अमल धर्म-आभूषनमंडित, एकसों
एक सवाई ॥ जिन० ॥ १ ॥ धर्म ध्यान निर्धूम हुताशन,
कुंड प्रचंड बनाई । होमत कर्महविष्य सुपंडित, श्रुत
धुनि मंत्र पढाई ॥ जिन० ॥ २ ॥ मनिमय तारनादि
जुत शोभन, केतुमाल लहकाई । जिनगुन पढ़न म-
धुर सुर छावत, बुधजन गीत सुहाई ॥ जिन० ॥ ३ ॥
वीन मृदंग रंगजुत बाजन, शोभा वरनि न जाई ।
भागचंद वर लख हरषत मन, दूल्ह श्रीजिनराई ॥
जिनमंदिर० ॥ ४ ॥

७६

भववनमें, नहीं भूलिये भाई । कर निज थलकी
याद ॥ टेक ॥ नर परजाय पाय अति सुंदर, त्यागहु
सकल प्रमाद । श्रीजिनधर्म सेय शिव पावत, आनम
जासु प्रसाद ॥ भवव० ॥ १ ॥ अबके चूकन ठीक न
पड़सी, पासी अधिक विषाद । सहस्री नरक वेदना

पुनि तहां, सुणसी कौन फिराद ॥ भव० ॥ २ ॥ भाग-
चन्द श्रीगुरु शिक्षा विन, भटका काल अनाद । तू
कर्ना तूही फल भोगन, कौन करै बकवाद ॥ भव० ॥ ३ ॥

७७

जे सहज हारीके खिलारी, तिन जीवनकी
बलिहारी ॥ टेक ॥ शांतभाव कुंकुम रस चन्दन, भर
ममता पिचकारी । उड़न गुलाल निर्जरा संवर, अंबर
पहरै भारी ॥ जे० ॥ १ ॥ सम्यकदर्शनादि संग लेकै,
परम सखा सुखकारी । भीज रहे निज ध्यान रंगमें,
सुमनि सखी प्रियनारी ॥ जे० ॥ २ ॥ कर स्नान ज्ञान
जलमें पुनि, विमल भये शिवचारी । भागचन्द तिन
प्रति नित वंदन, भावममेत हमारी ॥ जे० ॥ ३ ॥

७८

गग दीपचन्दी मोरठकी ।

लखिकै स्वामी रूपको, मेरा मन भया चंगा जी
॥ टेक ॥ विभ्रम नष्ट गरुड लखि जैमे, भगत भुजंगा जी
॥ लखि० ॥ १ ॥ शान्त भाव भये अब न्हायो, भक्ति
सुगंगा जी ॥ लखि० ॥ २ ॥ भागचन्द अब मेरे लागो,
निजरसरंगा जी ॥ लखिकै० ॥ ३ ॥

७९

गग दीपचन्दी इमन ।

स्वामीरूप अनूप विशाल, मन मेरे बसा ॥ टेक ॥

हरिगन चमरवृन्द ढोरत नहां, उज्जल जेम मराल
॥ स्वामी० ॥ १ ॥ छत्रत्रय ऊपर राजन पुनि, सहित
सुमुक्तामाल ॥ स्वामी० ॥ २ ॥ भागचन्द ऐसे प्रभु-
जीको, नावत नित्य त्रिकाल ॥ स्वामी० ॥ ३ ॥

८०

राग दीपचन्दा ।

करौ रे भाई, तच्चारथ सरधान । नरभव सुकुल
सुछेत्र पायके ॥ टेक ॥ देखन जाननहार आप लखि,
देहादिक परमान ॥ करौ रे भाई० ॥ १ ॥ मोह रागरुष
अहित जान तजि, बंधहु विधि दुखदान ॥ करौ रे
भाई० ॥ २ ॥ निज स्वरूपमें मगन होय कर, लगन-
विषय दो भान ॥ करौ रे भाई० ॥ ३ ॥ भागचन्द
साधक है साधो, साध्य स्वपद अमलान ॥ करौ रे
भाई० ॥ ४ ॥

८१

आनन्दाश्रु बहैं लोचननै, तानैं आनन न्हाया ।
गङ्गद स्पष्ट वचनजुत निर्मल, मिष्टगान सुरगाया
॥ टेक ॥ भव वनमें बहु भ्रमन कियो तहां, दुख दावा-
नल ताया । अब तुम भक्तिसुधारस वापी, में अवगाह
कराया ॥ आ० ॥ १ ॥ तुम वपुदर्पनमें मैने अब,
आत्मस्वरूप लखाया । सर्वकषाय नष्ट भये अब ही,
विभ्रम दृष्ट भगाया ॥ आ० ॥ २ ॥ कल्पवृक्ष मैने निज

गृहके, आंगनमांझ उगाया । स्वर्ग विमोक्ष विलास
वास पुनि, मम करनलमें आया ॥ आ० ॥ ३ ॥ कलिमल
पंक सकल अब मैंने, चितमे दूर बहाया । भागचन्द
तुम चरनाम्बुजको भक्तिमहित मिर नाया ॥ आ० ४ ॥

८२

राग दीपचन्दी परज ।

महाराज श्रीजिनवर जी, आज मैंने प्रभुदर्शन
पाये ॥ टेक ॥ तुमरे ज्ञान द्रव्य गुन पर्जय, निज चित
गुन दरशाये । निज लच्छनतैं सकल विलच्छन,
ततछिन पर दृग आये ॥ म० ॥ १ ॥ अप्रशस्त संकेश
भाव अध, कारन ध्वस्त कराये । राग प्रशस्त उदयतैं
निर्मल, पुन्य समस्त कमाये ॥ म० ॥ २ ॥ विषय कषाय
अताप नस्यो सब, साम्य मरोवर न्हाये । रुचि भई
तुम समान होवैकी, भागचन्द गुन गाये ॥ म० ॥ ३ ॥

८३

राग दीपचन्दी जोड़ी ।

जिन स्वपरहिताहित चीना, जीव तेही हूँ
साचै जैनी ॥ टेक ॥ जिन बुधछैनी पैनीतैं जड़, रूप
निराला कीना, परतैं विरच आपसे राचै, सकल
विभाव विहीना ॥ जि० ॥ १ ॥ पुन्य पाप विधि बंध
उदयमें, प्रमुदित होन न दीना । सम्यकदर्शन ज्ञान
चरन निज, भाव सुधारस भीना ॥ जिन० ॥ २ ॥

विषयचाह तजि निज वीरज मजि, करत पूर्वविधि
छीना । भागचन्द साधक हँ साधत, साध्य स्वपद
स्वाधीना ॥ जिन० ॥ ३ ॥

८४

गग दीपचन्दा ।

यह मोह उदय दुग्व पावै, जगजीव अज्ञानी
॥ टेक ॥ निज चेतनस्वरूप नहिं जानै, परपदार्थ अप-
नावै । पर परिनमन नहीं निज आश्रित, यह तहँ
अनि अकुलावै ॥ यह० ॥ १ ॥ इष्ट जानि रागादिक
सेवै, ते विधिबंध बढावै । निजहितहेत भाव चित
सम्यक्दर्शनादि नहिं ध्यावै ॥ यह० ॥ इन्द्रियतृप्ति
करनेके काजै, विषय अनेक मिलावै । ते न मिलै तब
खेद खिल हँ, मममुग्व हृदय न ल्यावै ॥ यह० ॥ ३ ॥
सकल कर्मछय लच्छन लच्छित, मोच्छदशा नहिं
चावै । भागचन्द ऐसे भ्रमसेनी, काल अनंत गमावै ॥
यह मोह० ॥ ४ ॥

८५

प्रेम अब त्यागहु पुढलका । अहितमूल यह जाना
सुधीजन ॥ टेक ॥ कृमि-कुल-कलित स्रवत नव
झारन, यह पुतला मलका । काकादिक भखते जु न
होता, चामतना खलका ॥ प्रेम० ॥ १ ॥ काल-व्याल
मुख धित इसका नहिं, है विश्वास पलका । क्षणिक

मात्रमें विघट जात है, जिमि बुहुद जलका ॥ प्रेम०
॥ २ ॥ भागचन्द क्या सार जानके, तू या संग लल-
का । तानैं चित अनुभव कर जो तू, इच्छुक शिव-
फलका ॥ प्रेम० ॥ ३ ॥

८६

सहज अबाध समाध धाम तहाँ, चेतन सुमति
खेलैं होरी ॥ टंक ॥ निजगुनचंदनमिश्रित सुरभित,
निर्मल कुंकुम रम घोरी । समता पिचकारी अति
प्यारी, भर जु चलावत चहुँ ओरी ॥ सहज० ॥ १ ॥
शुभ संवर मुअबीर आइंबर, लावत भरभर कर
जोरी । उड़त गुलाल निर्जरा निर्भर, दुखदायक भव
थिति टोरी ॥ सहज० ॥ २ ॥ परमानंद मृदंगादिक
धुनि, विमल विरागभावघोरी । भागचंद दृग-ज्ञान
-चरनमय, परिनत अनुभव रंग बोरी ॥ सहज० ॥ ३ ॥

८७

सत्ता रंगभूमिमें, नटन ब्रह्म नटराय ॥ टंक ॥ रत्न-
त्रय आभूषणमंडित, शोभा अगम अथाय । सहज
सखा निशंकादिक गुन, अनुल समाज बढ़ाय ॥ सत्ता
रंग० ॥ १ ॥ समता वीन मधुररस बोलै, ध्यान मृदंग
बजाय । नदत निर्जरा नाद अनूपम, नूपुर संवर ल्याय ॥
सत्ता रंग० ॥ २ ॥ लय निज-रूप-मगनता-ल्यावत, नृत्य
सुज्ञान कराय । समरस गीतालापन पुनि जो, दुर्लभ

जगमह आय ॥ सत्ता रंग० ॥ ३ ॥ भागचन्द्र आपहि
 रीक्षत तहाँ, परम समाधि लगाय । तहाँ कृतकृत्य
 सु होत मोक्षनिधि, अतुल इनामहिं पाय ॥ सत्ता० ॥
 ॥ ४ ॥

इति श्रीभागचन्द्रपदावली समाप्ता ।



पद भजनोंकी पुस्तकें ।



जैनपदसंग्रह प्रथम भाग, पं० दौलतरामजीके १२४ पदोंका संग्रह । ॥)

जैनपदसंग्रह द्वितीय भाग, पं० भागचन्द्रजीके ८७ पदोंका संग्रह । ॥)

जैनपदसंग्रह तृतीय भाग, भूवरदासजीके पद और त्रिनलियोंका संग्रह । ॥)

जैनपदसंग्रह चतुर्थ भाग, कविवर ध्यानतरायजीके ३२३ पदोंका संग्रह । ॥)

जैनपदसंग्रह पांचवां भाग, कविवर बुधजनजीके २३३ पदोंका संग्रह । ॥)

जिनेश्वरपदसंग्रह—पं० जिनेश्वरदासजी पदोंका संग्रह ॥)

जैन मुरस पदे—हीराचन्द्र अमौलिककृत । ॥)

सुखभागर भजनावली—ब० शीतलप्रसादजी कृत ॥ १)

इनके सिवाय न्यामतसिंहजी कृत गायनकी सब पुस्तकें और सब जगहके छपे हुए जैन ग्रन्थ हमारे यहां पर हर समय तैयार मिलते हैं । विशेष जाननेके लिए बड़ा सूचीपत्र मंगाइये ।

मिलनेका पता:—

जैन ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय

हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई ।

जैनपदसंग्रह

तृतीय भाग ।



प्रकाशक

जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय ।



श्रीवीतिगाय नमः ।

जैनपदमंग्रह

तृतीय भाग ।

अर्थात्

आगरा निवासी कविवर भृधरदासजी कृत
पदविनतियोंका संग्रह ।

जिसे

श्रीजैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालयके मालिकने

बम्बईके

नेटिव ओपिनियमप्रसंगे वि. वा. पगजपेके

प्रबंधसे छपाया ।

भाद्रपद वि० सं० १९०३ ।

द्वितीयावृत्ति]

*

[मूल्य पाँच आने ।

प्रकाशक
छगनमल बाकलीवाल

मालिक

जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय.

हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई ।



मुद्रक-

विनायक बा. परांजपे,
नेटिव ओपिनियन प्रेस,
गिरगांव-बकरोड, मुंबई.

पदोंकी वर्णानुक्रमणिका ।

पद संख्या	पद संख्या
अजित जिन विनती हमारी ४१	जगमे श्रद्धानी जीव जीवनमकत ३४
अजित जिनसुर अघहरण ४२	जापि माला जिनवर नामका ४४
अन्तर उज्जल करना रे भाई ३६	जिनराज चरन मन मति बिमरै १७
अच नित नोम नाम भजौ ५४	जिनराज ना बिमारे १६
अच पूर्वाकर नादडां मन जीया रे ३३	जीवदया घत तरु बडौ ६३
अच मन मेरे वे, मुनि मुनि सीख मयानी ७०	जै जगपूज परमगुरु नामी ७४
अच मेरे समकित सावन आयो १९	तहाँ लै चल राँ । जहाँ जादोपान व्यास ५९
अरज करे राजुल नारी २८	तम तरन नारन भवनिवारन ७२
अरे मन चलैरे, श्रीहरिधनापरकी जान ५७	तम मुनियो माधो । मनवा मेरा ज्ञानी ५०
अरे । हौ चेतो रे भाई ६०	ते गुरु मेरे मन वसो, जे भव ७७
अहो । जगतगुरु एक, मुनिबो ७६	त्रिभुवनगुरु ग्यामी जी ७५
अज्ञानी पाप धतुरा न बोय ५	धार्की कथनी म्दाने व्यास लगे जी १३
आज गिरगजके शिखर मुंदर मस्ती ३१	नाम विना न रेई मेरा जियरा २१
आदि परप मेरा आम भरोजी ४५	नेतनिको वान परा, दरसनका ६५
आया रे ब्रह्मपा मानो माधि बाधि ३५	देखे देखे जगतके देव २६
आरती आदि जिनदू त्परागे ६८	देखो रावगहेली गे हेली २७
एजा मोह नारिये भान्ति जिनंद ३१	देखो भाई । आनम देव विराजे ७३
एसा समझके सिंग धुल ३२	देख्यो गी । कही नोमकमार १५
एसा श्रावक कल तम पाय ६४	प्रभ गन गाये, यद आंसर फेर न ५१
ओग सच थोथा बाने ६०	पारम-पद-नख-प्रकाश, अरुन वरन ४७
करुणा-यो जिनराज हनारी, करुणा ७९	पलकन्त नयन चकोरपक्षी ७१
काया गायगि जो जरी, तुम देखो ५५	बन्दा दिगम्बरगुरुचरन ७३
गरव नहि कीजे रे, पे नर निपट मैदा १२	भगवन्तभजन कथो भला ६०
चरखा चलना नाही, चरखा हुआ ६७	भलो चेत्यो वार नर त ७
चिन चेतनकी यह विगियारे ३०	भवि देखि छयो भगवानकी १८
जगन जन जुवा हारि चले ५८	मन मूरख पथी, उम मारग मनि जाय २२
जगमे जीवन धोरा, रे अज्ञानी ११	मनहंस । हमारी लो शिक्षा हिनकारी ३८

(२)

पद संख्या.		पद संख्या.	
मा विलंब न लाव पडाव तर्हा री	१४	शेष सुरेश नेश गेटे तोहि	४८
मेरी जीभ आटो जाम	२५	श्रीगुरु शिक्षा देत हे मुनि प्रानी रे	७८
मेरे चांगे शरन सहड	४३	मय विधि करन उतावला	२३
मेरे मन मूवा. जिनपद	६	सामधर स्वामी, मे चरननका चेर	३
म्हे तो थांकी आज महिमा जानी	५३	मुन जानी प्राणी, श्रीगुरु मांज मयानी	८
यह नन जंगम रुखडा मुनियो भाव	६६	मुनि ठगनी माया, ते मय जग टग	९
रखता नरी तनकी खबर, अनहद	८०	मुन मुजान । पोचो रिपु वशकरि	५२
रदि रमना मेरी कपभ जिनंद	२४	मुनि मान हे माथानि । म्हारे मनकी	६९
वा परके वरणे जाऊं	८	मो गरुद्व दमारा हे नाथो	६१
वांग १ धा। वान वृग परी रे	३७	मो मन मांचो हे मन मेरे	४२
वे कोड अजय तमासा	१०	स्वामीजा माचो मरन तम्हारी	६२
वे मानवर कय मालि हे उपगारी	४५	ह तो कदा करु कित जाऊं	२९
लगी लो नाभनेदतमे	५	हारे खेलेगी घर आवे चिदानंदकल	४६



श्रीजिनाय नमः ।

जैन पदसंग्रह ।

तृतीयभाग ।

अर्थात्

कविवर भूधरदासजीकृत भजनोंका संग्रह ।

१. राग सोरठ ।

लगी लो नाभिनंदनसों । जपत जेम चकोर
चकई, चन्द भरताकों ॥ लगी लो० ॥ १ ॥
जाउ तन धन जाउ जोवन, प्राण जाउ न क्यों ।
एक प्रभुकी भक्ति मेरे, रहो ज्योंकी त्यों ॥ लगी
लो० ॥ २ ॥ और देव अनेक मेये, कछु न पायो
हों । ज्ञान खोयो गांठिको, धन करत कुंवनिज
ज्यों ॥ लगी लो० ॥ ३ ॥ पुत्र मित्र कलत्र ये सब
सगे अपनी गों । नरककूपउद्धरन श्रीजिन,
समझ भूधर यों ॥ लगी लो० ॥ ४ ॥

१ बुरा व्यापार । २ गरज ।

२. राग गौरी ।

अजितजिनेसुर अघहरणं । अघहरणं अ-
 शरणशरणं ॥ टेक ॥ निरस्वत नैन तनक
 नहिं त्रपते, आनँदजनक कनकवरणं ॥ अ-
 जित० ॥ १ ॥ करुना भीजे वायक जिनके, गण-
 नायक उर आभरणं । मोह महारिपु घायक,
 सायक, सुखदायक दुखछयकरणं ॥ अजित०
 ॥ २ ॥ परमात्म प्रभु पतितउधारन, वारणल-
 च्छन पगधरणं । मैनमथमारण विपतिविदारण,
 शिवकारण तारण तरणं ॥ अजित० ॥ ३ ॥
 भवआतापनिकन्दन चन्दन, जगवंदन वांछा-
 भरणं । जय जिनराज जगत वंदत जस, जन
 भूधर वंदत धरणं ॥ अजित० ॥ ४ ॥

३. राग काफी ।

सीमंधरस्वामी, मैं चरननका चेरा ॥ टेक ॥
 इस संसार असारमें कोई, और न रँच्छक मेरा
 ॥ सीमंधर० ॥ १ ॥ लख चौरासी जोनिमें मैं, फिरि

१ वचन । २ नाश करनेवाला । ३ घाण । ४ हाथीका चिह्न ।
 ५ काम । ६ रक्षक ।

फिरि कीनों फेरा । तुम महिमा जानी नहीं प्रभु,
देख्या दुःख घनेरा ॥ सीमंधर० ॥ २ ॥ भाग उदयतै
पाह्या अब, कीजै नाथ निबेरा । बेगि दया
करि दीजिये मुझे, अविचलथान वसेरा ॥ सीमं-
धर० ॥ ३ ॥ नाम लिये अघ ना रहै ज्यों, उगे
भान अंधेरा । भूधर चिन्ता क्या रही ऐसा,
समरथ माहिव तेरा ॥ सीमंधर० ॥ ४ ॥

४. राग सारंग ।

वा पुरके वारणै जाऊं ॥ टेक ॥ जम्बूद्वीप
विदेहमें, पूरव दिश सोहै हो । पुंडरीकिनी नाम
है, नर सुर मन मोहै हो ॥ वा पुर० ॥ १ ॥ सीमं-
धर शिवके धनी, जहँ आप विराजै हो । बारह
गण विच पीठपै, शोभानिधि छाजै हो ॥ वा
पुर० ॥ २ ॥ तीन छत्र मांथें दिपैं, वर चामर
बीजै हो । कोटिक रतिपति रूपपै, न्यौछावर
कीजै हो ॥ वा पुर० ॥ ३ ॥ निरखत विरख अशो-

१ अपार । २ मोक्ष । ३ पाप । ४ दरवाजे । ५ मन्मथपर ।
६ दुरता है । ७ कामदेव । ८ वृक्ष ।

कको, शोकावलि भाजै हो । वानी वरसै अमृत
 सी, जलधर ज्यों गाजै हो ॥ वा पुर० ॥ ४ ॥
 वरसैं सुमनसुहावनैं, सुरदुंदभि गाजै हो । प्रभु
 तन तेजसमूहसों, ससि सूरज लाजै हो ॥ वा
 पुर० ॥ ५ ॥ समोसरन विधि वरनतैं, बुधि
 वरन न पावै हो । सब लोकोत्तर लच्छमी, देखें
 वनि आवै हो ॥ वा पुर० ॥ ६ ॥ सुरनर मिलि
 आवैं सदा, सेवा अनुरागी हो । प्रकट निहारें
 नाथकों, धनि वे बड़भागी हो । वा पुर० ॥ ७ ॥
 भूधर विधिसों भावसों, दीनी त्रय फेरी हो ।
 जैवन्ती वरतां सदा, नगरी जिनकेरी हो ॥
 वा पुर० ॥ ८ ॥

५. राग सोरठ ।

अज्ञानी पाप धतूरा न बोय ॥ टेक ॥ फल
 चाखनकी वार भरै दृग, मर है मूरख रोय ॥
 अज्ञानी० ॥ १ ॥ किंचित् विषयनिके सुख
 कारण, दुर्लभ देह न खोय । ऐसा अवसर फिर
 न मिलैगा, इस नींदड़ी न सोय ॥ अज्ञानी० ॥

१ समुद्र । २ पुण्य । ३ चन्द्र ।

॥ २ ॥ इस विरियांमें धर्म-कल्प-तरु, सींचत
स्यानै लोय । तू विष बोवन लागत तो सम,
और अभागा कोय ॥ अज्ञानी० ॥ ३ ॥ जे
जगमें दुस्वदायक बेरस, इसहीके फल भोय ।
यो मन भूधर जानिकै भाई, फिर क्यों भोंदू
होय ॥ अज्ञानी० ॥ ४ ॥

६. राग सारठ ।

मेरे मन मूवा, जिनपद पींजरे वसि, यार लाव
न बार रे ॥ टेक ॥ संसारमेंवलवृच्छ सेवत,
गयो काल अपार रे । विषय फल तिस तोड़ि
चाखे, कहा देख्यौ सार रे ॥ मेरे मन० ॥ १ ॥
तू क्यों निचिन्तो सदा तोकों, तकत काल
मँजार रे । दावै अचानक आन तव तुझे, कौन
लेय उबार रे ॥ मेरे मन० ॥ २ ॥ तू फँस्यो कर्म
कुफन्द भाई, छुटे कौन प्रकार रे । तैं मोह-पंछी-
वधक-विद्या, लखी नाहिँ गँवार रे ॥ मेरे मन० ॥
॥ ३ ॥ है अजौ एक उपाय भूधर, छुटे जो

१ बेला-समय । २ विवेकी । ३ लोग । ४ निश्चिन्त । ५ बिल्ली ।

नर धार रे । रटि नाम राजुलरमनको, पशुबंध
छोड़नहार रे ॥ मेरे मन० ॥ ४ ॥

७. राग सोरठ ।

भलो चेत्यो वीर नर तू, भलो चेत्यो वीर
॥ टेक ॥ समुझि प्रभुके शरण आयो, मिल्यो
ज्ञान वजीर ॥ भलो० ॥ १ ॥ जगतमें यह
जनम हीरा, फिर कहां थो धीर । भली वार
विचार छाँड़्यो, कुमति कामिनि सीरं ॥ भलो०
॥ २ ॥ धन्य धन्य दयाल श्रीगुरु, सुमरि
गुणगंभीर । नरक परतैं राखि लीनों, बहुत
कीनी भीरं ॥ भलो० ॥ ३ ॥ भक्ति नौका लही
भागनि, कित्तक भवदधिनीर । ढील अब क्यों
करत भूधर, पहुँच पैली तीर ॥ भलो० ॥ ४ ॥

८. राग सोरठ ।

सुन ज्ञानी प्राणी, श्रीगुरु सीख सयानी ॥
टेक ॥ नरभव पाय विषय मति सेवो, ये दुर-
गति अगवानी ॥ सुन० ॥ १ ॥ यह भव कुल
यह तेरी महिमा, फिर समझी जिनवानी ।

१ सौसा । २ सहाय । ३ कितना ।

इस अवसरमें यह चपलाई, कौन समझ उर
 आनी ॥ सुन० ॥ २ ॥ चंदन काठ-कनकके भा-
 जन, भरि गंगाका पानी । तिल खलि राँधत
 मंदमती जो, तुझ क्या रीस विरानी ॥ सुन०
 ॥ ३ ॥ भूधर जो कथनी सो करनी, यह बुधि
 है सुखदानी । ज्यों मशालची आप न देखै,
 सो मति करै कहानी ॥ सुनि० ॥

९. राग मारठ ।

सुनि ठगनी माया, तैं सब जग ठग खाया ॥
 टेक ॥ टुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख
 पिछताया ॥ सुनि० ॥ १ ॥ आपा तनक दिखाय
 बीजं ज्यों, मूढमती ललचाया । करि मद अंध
 धर्म हर लीनों, अंत.नरक पहुँचाया ॥ सुनि० ॥ २ ॥
 केते कंथ किये तैं कुलटा, तो भी मन न अघा-
 या । किसहीसों नहिं प्रीति निबाही, वह तजि
 और लुभाया ॥ सुनि० ॥ ३ ॥ भूधर छलत फिरै यह
 सबकों, भौंदू करि जग पाया । जो इस ठगनीकों
 ठग बैठे, में तिसको सिर नाया ॥ सुनि० ॥ ४ ॥

१ बिजलीके समान ।

१०.

वे कोई अजब तमासा, देख्या बीच जहान
 वे, जोर तमासा सुपनेकासा ॥ टेक ॥ एकौके
 घर मंगल गावैं, पूगी मनकी आसा । एक वि-
 योग भरे बहु रोवैं, भरे भरि नैन निरासा ॥
 वे कोई० ॥ १ ॥ तेज तुरंगनिपै चढि चलते,
 पहिरैं मलमल खासा । रंक भये नागे अति डोलैं,
 ना कोई देय दिलासा ॥ वे कोई० ॥ २ ॥ तरकैं
 राज तखतपर बैठा, था खुशवक्त खुलासा ।
 ठीक दुपहरी मुद्दत आई, जंगल कीना वासा ॥
 वे कोई० ॥ ३ ॥ तन धन अथिर निहायत जगमें,
 पानीमाहिं पतासा । भूधर इनका गरब करैं जे,
 फिट्ट तिनका जनैमासा ॥ वे कोई० ॥ ४ ॥

११. गग ख्याल ।

जगमें जीवन थोरा, रे अज्ञानी जागि ॥ टेक ॥
 जनम ताड़ तरुतैं पड़ै, फल संसारी जीव । मौत
 महीमें आय है, और न ठौर सदीव ॥ जगमें०

१ पूरी हुई । २ धीगज । ३ सबरे । ४ सिंहासन । ५ सर्वथा ।
 ६ धिक । ७ मनष्यजन्म ।

॥ १ ॥ गिर-सिर दिवला जोइया, चहुँदिशि
 वाजै पौन । बलत अचंभा मानिया, बुझत अ-
 चंभा कौन ॥ जगमें० ॥ २ ॥ जो छिन जाय सो
 आयुमें, निशि दिन दूकै काल । बांधि सकै तो
 है भला, पानी पहिली पाल ॥ जगमें० ॥ ३ ॥ मनुष-
 देह दुर्लभ्य है, मति चूकै यह दाव । भूधर राजुल-
 कंतुकी, शरण सिताबी आव ॥ जगमें० ॥ ४ ॥

१२. राग ख्याल ।

गरव नहिं कीजै रे, ऐ नर निपट गँवार ॥
 टेक ॥ झूठी काया झूठी माया, छाया ज्यों लखि
 लीजै रे ॥ गरव० ॥ १ ॥ कै छिन सांझ सुहागरु
 जोबन, कै दिन जगमें जीजै रे ॥ गरव० ॥ २ ॥
 बेगा चेत विलम्ब तजो नर, बंध बढै तिथि छीजै
 रे ॥ गरव० ॥ ३ ॥ भूधर पलपल हो है भारी,
 ज्यों ज्यों कमरी भीजै रे ॥ गरव० ॥ ४ ॥

१३. राग ख्याल ।

थांकी कथनी म्हांनै प्यारी लगै जी, प्यारी

१ दीपक । २ चले । ३ निकट आवे । ४ श्रीनेमिनाथकी ।
 ५ जीवेंगे । ६ जन्दी । ७ आयु ।

लगौ म्हांरी भूल भगौ जी ॥ टेक ॥ तुमहित हांक
 विना हो श्रीगुरु, सूतो जियरो काई जगौ जी ॥
 थांकी० ॥ १ ॥ मोहनिघूलि मेलि म्हारे मांथै,
 तीन रतन म्हांरा मोह ठगौ जी । तुम पद ढो-
 कैंत सीस झरी रज, अब ठगको कर नाहिं वगौ
 जी ॥ थांकी० ॥ २ ॥ दूख्यो चिर मिथ्यात महा-
 ज्वर, भांगां मिल गया वैद मगौ जी । अंतर
 अरुचि मिटी मम आतम, अब अपने निजदर्ब
 पगौ जी ॥ थांकी० ॥ ३ ॥ भव वन भ्रमत बढी
 तिसना तिस, क्योहि बुझै नहिं हिर्यरा दंगौ जी ।
 भूधर गुरुउपदेशामृतरस, शान्तमई आनंद
 उमगौ जी ॥ थांकी० ॥ ४ ॥

•

१४. राग स्याल ।

मा विलंब न लाव पंठाव तँहाँ री, जहँ जग-
 पति पिय प्यारो ॥ टेक ॥ और न मोहि सुहाव
 कछू अब, दीसे जगत अँधारो री ॥ मा विलंब०

१ कैसे । २ मेरे । ३ सिरपर । ४ मेरा । ५ प्रणाम करनेसे ।
 ६ भाग्यसे । ७ मार्गमें । ८ हृदय । ९ जलता है । १० कर ।
 ११ भेज दे । १२ उसी जगह ।

॥ १ ॥ मैं श्रीनेमिदिवाकरको कब, देखों वदन
 उजारो । विन देखैं मुरझाय रह्यो है, उर अरविंद
 हमारो री ! ॥ मा विलंब० ॥ २ ॥ तन छाया ज्यों
 संग रहौंगी, वे छांडहिं तो छारो । विन अपराध
 दंड मोहि दीनो, कहा चलै मेरो चारो ॥ मा
 विलंब० ॥ ३ ॥ इहि विधि रागउदय राजुलनै,
 सह्यो विरह दुख भारो । पीछें ज्ञानभान बल
 विनश्यो, मोह महातम कारो री ॥ मा विलंब०
 ॥ ४ ॥ पियके पैड़े पैड़ौ कीनों, देखि अधिर
 जग सारो । भूधरके प्रभु नेमि पियासों, पाल्यो
 नेह करारो री ॥ मा विलंब० ॥ ५ ॥

१५. राग ख्याल ।

देख्यो री ! कहीं नेमिकुमार ॥ टेक ॥ नैननि
 प्यारो नाथ हमारो, प्रानजीवन प्रानन आघार ॥
 देख्यो० ॥ १ ॥ पीव वियोग विथा बहु पीरी,
 पीरी भई हलदी उँनहार । होउं हरी तबही जब
 भेटौं, श्यामवरन सुंदर भरतार ॥ देख्यो० ॥ २ ॥

१ सूरज । २ कमल । ३ सूर्य । ४ पाँड़ा की । ५ पीठी ।
 ६ समान ।

विरह नदी असराल बहै उर, बूड़त हौं वामें
निरंधार । भूधर प्रभु पिय खेवटिया विन, सम-
रथ कौन उतारनहार ॥ देख्यो० ॥ ३ ॥

१६. राग पंचम ।

जिनराज ना विमारो, मति जन्म वादि
हारो ॥ टेक ॥ नर भौ आमान नाहीं, देखो
मोच समझ वारो ॥ जिनराज० ॥ १ ॥ सुत
मात तात तरुनी, इनसौं ममत निवारो । मबही
सगे गरजके दुम्बमीर नहिं निहारो ॥ जिनराज०
॥ २ ॥ जे स्त्रायँ लाभ सब मिलि, दुर्गतमें तुम
सिधारो । नटका कुटंब जैमा, यह खेल यों
विचारो ॥ जिनराज० ॥ ३ ॥ नाहक पराये
काजें, आपा नरकमें पारो । भूधर न भूल जगमें,
जाहिर दगा है यारो ॥ जिनराज० ॥ ४ ॥

१७. राग नट ।

जिनराज चरन मन मति बिसरै ॥ टेक ॥ को
जानैं किहिं बार कालकी, धार अचानक आनि

१ अथाह । २ निराधार । ३ वृथा सोओ । ४ सहज । ५ स्त्री ।
६ वथा । ७ समय । ८ धाड़ ।

परै ॥ जिनराज० ॥ १ ॥ देखत दुख भजि जाहिं
दशों दिश, पूजत पातकपुंज गिरै । इस संसार
क्षारसागरसों, और न कोई पार करै ॥ जिन-
राज० ॥ २ ॥ इक चित ध्यावत वांछित पावत,
आवत मंगल विघन टरै । मोहनि धूलि परी
मांथें चिर, सिर नावत ततकाल झरै ॥ जिन-
राज० ॥ ३ ॥ तबलों भजन सँवार सयानै, जबलों
कफ नहिं कंठ अरै । अगनि प्रवेश भयो घर
भूधर, खोदत कूप न काज सरै ॥ जिनराज० ॥ ४ ॥

१८. राग सारंग ।

भवि देखि छबी भगवानकी ॥ टेक ॥ सुंदर
सहज सोम आनँदमय, दाता परम कल्यानकी ॥
भवि० ॥ १ ॥ नासादृष्टि मुदितं मुखवारिज, सीमा
सब उपमानकी । अंग अडोल अचल आसन दिढ़,
वही दशा निज ध्यानकी ॥ २ ॥ इस जोगासन
जोगरीतिसों, सिद्ध भई शिवथानकी । ऐसैं
प्रगट दिखावै मारग, मुद्रा धात पखानकी ॥

भवि० ॥३॥ जिस देखें देखन अभिलाषा, रहत
न रंचक आनकी । तृपत होत भूधर जो अब
ये, अंजुलि अम्रतपानकी ॥ भवि० ॥ ४ ॥

१९. राग मलार ।

अब मेरें समकित सावन आयो ॥ टेक ॥
बीति कुरीति मिथ्यामति ग्रीषम, पावस सहज
सुहायो ॥ अब मेरें० ॥ १ ॥ अनुभव दामिनि दमकन
लागी, सुरति घटा धन छायो । बोलै विमल
विवेक पपीहा, सुमति सुहागिन भायो ॥ अब
मेरें० ॥ २ ॥ गुरुधुनि गरज सुनत सुख उपजै,
मोर सुमन विहसायो । साधक भाव अँकूर उठे
बहु, जित तित हरष सबायो ॥ अब मेरें० ॥ ३ ॥
भूल धूल कहि मूल न सूझत, समरस जल झर
लायो । भूधर को निकसै अब बाहिर, निज
निरैचू घर पायो ॥ अब मेरें० ॥ ४ ॥

२०. राग सोरठ ।

भगवन्तभजन क्यों भूला रे ॥ टेक ॥ यह

१ अन्यकी । २ वर्षाकृत । ३ किजुली । ४ मेघ । ५ जिसमें
पानी नहीं चता है ।

संसार रैनका सुपना, तन घन वारि-बबूला रे ॥
 भगवन्त० ॥ १ ॥ इस जोवनका कौन भरोसा,
 पावकमें तृणपूला रे ! । काल कुदार लिये सिर
 ठाड़ा, क्या समझै मन फूला रे ! ॥ भगवन्त०
 ॥ २ ॥ स्वारथ साथै पाँच पाँव तू, परमारथकों
 लूला रे ! । कहु कैसें सुख पैहै प्राणी, काम करै
 दुखमूला रे ॥ भगवन्त० ॥ ३ ॥ मोह पिशाच
 छल्यो मति मारै, निज कर कंध वसूला रे ।
 भज श्रीरोजमतीवर भूधर, दो दुरमति सिर
 धूला रे ॥ भगवन्त० ॥ ४ ॥

२१. राग विहागरो ।

नेमि विना न रहै मेरो जियरा ॥ टेक ॥ हेरै
 री हेली तपत उर कैसे, लावत क्यों निज हाथ
 न निर्यरा ॥ नेमि विना० ॥ १ ॥ करि करि दूर
 कपूर कमल दल, लगत करूर कँलाधर सियैरा ॥

१ जउका । २ बुदबुदा । ३ भासका पूला । ४ लँगड़ा । ५ नेमिनाथ ।
 ६ देस सी । ७ सहेली-सली । ८ निकट । ९ कूर । १० चंद्र ।
 ११ शीतल ।

नेमि विना० ॥ २ ॥ भूधर के प्रभु नेमि पिया विन,
शीतल होय न राजुल हियरा ॥ नेमि विना० ॥ ३ ॥

२२. राग ग्याल ।

मन मूरख पंथी, उम मारग मति जाय रे
॥ टेक ॥ कामिनि तन कांतार जहां है, कुच परवत
दुखदाय रे ॥ मन मूरख० ॥ १ ॥ काम किरात
बसै तिह थानक, सरवस लेत छिनाय रे । स्वाय
खता कीचकसे बैठे, अरु रावनसे राय रे ॥ मन
मूरख० ॥ २ ॥ और अनेक लुटे इस पैडे*
वरनें कौन बढ़ाय रे । वरजत हों वरज्यौ रह
भाई, जानि दगा मति खाय रे ॥ मन मूरख०
॥ ३ ॥ सुगुरु दयाल दया करि भूधर, सीख कहत
समझाय रे । आगें जो भावै करि सोई, दीनी
बात जताय रे ॥ मन मूरख० ॥ ४ ॥

२३. राग विलावल ।

सब विधि करन उतावला, सुमरनकों सीरां
॥ टेक ॥ सुख चाहै संसारमें, यों होय न नीरा ॥

* १ वन । २ भील । ३ स्थानमें । ४ घोसा । ५ रास्ते । ६ जल्दबाज ।
७ ठहा-मुस्त ।

सब विधि० ॥ १ ॥ जैसे कर्म कमाय है, सो ही
फल वीरा ! । आम न लागै आकके, नग होय
न हीरा ॥ सब विधि० ॥ २ ॥ जैसा विषयनिकों
चहै, न रहै छिन धीरा । त्यों भूधर प्रभुकों जपै,
पहुँचै भवतीरा ॥ सब विधि० ॥ ३ ॥

२४. राग बिलावल ।

रटि रमना मेरी ऋषभ जिनन्द, सुर नर
जच्छ चकोरन चन्द ॥ टेक ॥ नामी नाभि नृप-
तिके बाल, मरुदेवीके कँवर कृपाल ॥ रटि०
॥ १ ॥ पूज्य प्रजापति पुरुष पुरान, केवल
किरन धरें जगभान ॥ रटि० ॥ २ ॥ नरकनि-
वारन विरद विरुथात, तारन तरन जगतके
नात ॥ रटि० ॥ ३ ॥ भूधर भजन किये निरबाह,
श्रीपद-पदम भँवर हो जाह ॥ रटि० ॥ ४ ॥

२५. राग गौरी ।

मेरी जीभ आठों जाम, जपि जपि ऋषभ-
जिनिंदजीका नाम ॥ टेक ॥ नगर अजुध्या उत्तम
ठाम, जनमें नाभि नृपतिके धाम ॥ मेरी० ॥ १ ॥
सहस्र अठोत्तर अति अभिराम, लसत सुलच्छन

लाजत काम ॥ मेरी० ॥ २ ॥ करि थुति गान
थके हरि राम, गनि न सके गणधर गुनग्राम ॥
मेरी० ॥ ३ ॥ भूधर सार भजन परिनाम, अर
सब खेल खेलके खांम (?) ॥ मेरी० ॥ ४ ॥

२६. राग धमाल ।

देखे देखे जगतके देव, राग रिससों भरे ॥
टेक ॥ काहूके सँग कामिनि कोऊ आयुधवान
खरे ॥ देखे० ॥ १ ॥ अपने औगुन आपही हो,
प्रकट करें उधरे । तऊ अबूझ न बूझहिं देखो,
जन मृग भोरंप रे ॥ देखे० ॥ २ ॥ आप भि-
खारी है किनही हो, काके दलिद हरे । चढ़ि
पाथरकी नावपै कोई, सुनिये नाहिं तरे ॥ देखे०
॥ ३ ॥ गुन अनन्त जा देवमें औ, ठारह दोष
ठरे । भूधर ता प्रति भावसों दोऊ, कर निज
सीस धरे ॥ देखे० ॥ ४ ॥

२७

देखो गरबगहेली री हेली ! जादोंपतिकी
नारी ॥ टेक ॥ कहां नेमि नायक निज मुखसों,

टेंहल कहै बड़भागी । तहां गुमान कियो मति-
हीनी, सुनि उर दौंसी^१ लागी ॥ देखो० ॥ १ ॥
जाकी चरण धूलिको तरसैं, इन्द्रादिक अनु-
रागी । ता प्रभुको तन-बैसन न पीड़ै, हा ! हा !
परम अभागी ॥ देखो० ॥ २ ॥ कोटि जनम
अघभंजन जाके, नामतनी बलि जइये । श्रीहैं-
रिवंशतिलक तिम सेवा, भाग्य विना क्यों पइये ॥
देखो० ॥ ३ ॥ धनि वह देश धन्य वह घरनी,
जगमें तीरथ सोई । भूधरके प्रभु नेमि नवल
निज, चरन धरैं जहाँ दोई ॥ देखो० ॥ ४ ॥

२८. राग घमाल सारंग ।

अरज करै राजुल नारी, वनवासी पिया तुम
क्यों छाँरी ? ॥ टेक ॥ प्रभु तो परम दयाल सब-
निपै, सबहीके हितकारी । मोपै कठिन भये क्यों
साजन !, कहिये चूक हमारी ॥ अरज० ॥ १ ॥
अब ही भोग-जोग हो वालम, यह बुधि कौन
विचारी । आगैं ऋषभदेवजी व्याही, कच्छ-

१ चाकरी, वस्त्र निचोड़नेके लिए । २ दावागिरी । ३ धोती ।
४ निचोड़े । ५ श्रीनेमिनाथ ।

सुकच्छकुमारी । सोई पंथ गहो पिय पाछैं, हूजौ
 संजमधारी ॥ अरज० ॥ २ ॥ तुम विन एक
 पलक जो प्रीतम, जाय पहर सौ भारी । कैसें
 निशदिन भरों नेमिजी !, तुम तो ममता डारी ।
 याको ज्वाब देहु निरमोही !, तुम जीते में
 हारी ॥ अरज० ॥ ३ ॥ देखो रैनवियोगिनि
 चकई, सो विलखै निशि सारी । आश बाँधि
 अपनो जिय रागै, प्रात मिलैं पिय प्यारी । में
 निराश निरधारिनि कैसें, जीवों अती दुखारी ॥
 अरज० ॥ ४ ॥ इह विधि विरह नदीमें व्याकुल,
 उग्रसेनकी बारी । धनि धनि समुद्रविजयके
 नंदन. बूड़त पार उतारी । करहु दयाल दया
 ऐसी ही. भूधर शरन तुम्हारी ॥ अरज० ॥ ५ ॥

२९. राग धमाल सारंग ।

हूं तो कहा करूं कित जाउं, सखी अब
 कासों पीर कहूं री ! ॥ टेक ॥ सुमति सती सखि-
 यनिके आगें, पियके दुख परकासै । चिदानन्द-
 वल्लभकी वनिता, विरह वचन मुख भासै ॥ हूं
 तो० ॥ १ ॥ कंत विना कितने दिन बीते, कौलौं

धीर धरौं री । पर घर हँडै निज घर छाँडै,
 कैमी विपति भरौं री ॥ हूँ तो० ॥ २ ॥ कहत
 कहावतमें सब यों ही, वे नायक हम नारी । पै
 सुपनै न कभी मुँह बोले, हमसी कौन दुम्बारी ॥
 हूँ तो० ॥ ३ ॥ जइयो नाश कुमति कुलटाको,
 विरमायो पति प्यारो । हमसौं विरचि रच्यो
 रँग बाके, अममझ (?) नाहिं हमारो ॥ हूँ तो०
 ॥ ४ ॥ सुंदर सुघर कुलीन नारि में, क्यों प्रभु
 मोहि न लोरें । मत हूँ देखि दया न धरें चित,
 चेरीसों हित जोरें ॥ हूँ तो० ॥ ५ ॥ अपने
 गुनकी आप वड़ाई, कहत न शोभा लहिये ।
 ऐरी ! वीर चतुर चेतनकी, चतुर्गई लखि
 कहिये ॥ हूँ तो० ॥ ६ ॥ करिहों आजि अरज
 जिनजीसों, प्रीतमको ममझावैं । भरता भीख
 दई गुन मानों, जो बालम घर आवैं ॥ हूँ तो०
 ॥ ७ ॥ सुमति वधू यों दीन दुहागनि, दिन
 दिन झुरत निरासा । भूघर पीउ प्रसन्न भये
 विन, वसै न तिय घरवासा ॥ हूँ तो० ॥ ८ ॥

३०. राग सारठ ।

चित ! चेतनकी यह विरियाँ रे ॥ टेक ॥
 उत्तम जनम सुतन तरुनापौ, सुकृत बेल फल
 फरियाँ रे ॥ चित० ॥१॥ लहि सत संगतिसौं सब
 समझी, करनी खोटी खरियाँ रे । सुहित सँभा-
 लि शिथिलता तजिकै, जाहें बेली झरियाँ रे ॥
 चित० ॥ २ ॥ दल बल चहल महल रूपेका, अर
 कंचनकी कलियाँ रे । ऐमी विभव बढी कै बढि
 है, तेरी गरज क्या सरियाँ रे ॥ चित० ॥ ३ ॥
 खोय न वीर विषय खल सौंटेँ, ये कोरनकी
 धरियाँ रे । तोरि न तनक तंगाहित भूधर,
 मुकताफलकी लरियाँ रे ॥ चित० ॥ ४ ॥

३१. राग पंचम ।

आज गिरिराजके शिखर सुंदर सखी, होत है
 अतुल कौतुक महा मनहरन ॥ टेक ॥ नाभिके
 नंदकों जगतके चन्दकों, ले गये इन्द्र मिलि जन्म-
 मंगल करन ॥ आज० ॥१॥ हाथ हाथन धरे सुरन

१ जवानी । २ पुण्य । ३ बदलेमें । ४ कंगेड़ोंकी । ५ धागा. डोराके
 लिए । ६ लड़ी ।

कंचन घंरे, छीरसागर भरे नीर निरमल वरन ।
 सहम अर आठ गिन एक ही वार जिन, सीस
 सुरईशके करन लागे ढरन ॥ आज० ॥ २ ॥
 नचत सुरसुन्दरीं रहस रसमों भरीं, गीत गावैं
 अरी दैहिं ताली करन । देव दुंदभि बजै वीन
 बंसी मजै, एकसी परत आनंद घनकी भरन ॥
 आज० ॥ ३ ॥ इन्द्र हर्षित हिये नेत्र अंजुल
 किये, तृपति होत न पिये रूपअम्रतझरन । दास
 भूघर भनें सुदिन देखें बनें, कहि थकैं लोक
 लग्ग जीभ न सकैं वरन ॥ आज० ॥ ४ ॥

३२

ऐसी समझके सिर धूल ॥ ऐसी० ॥ टेक ॥
 धरम उपजन हेत हिंसा, आचरैं अघमूल ॥
 ऐसी० ॥ १ ॥ छके मत-मद-पान पीके, रहे
 मनमें फूल । आम चाखन चहैं भोंदू, बोय पेड़
 बँबूल ॥ ऐसी० ॥ २ ॥ देव रागी लालची गुरु,
 सेय सुखहित भूल । धर्म नैगकी परस्व नाहीं,
 भ्रम हिंडोले झूल ॥ ऐसी० ॥ ३ ॥ लाभकारन

रतन विणजै, परस्वको नहिं सूल । करत इहि
विधि वणिज भूधर, विनस जै है मूल ॥
ऐसी० ॥ ४ ॥

३३

अब पूरीकर नींदड़ी, सुन जीया रे ! चिर-
काल तू सोया ॥ सुन० ॥ टेक ॥ माया मैली
रातमें, केता काल विगोया ॥ अब० ॥१॥ धर्म
न भूल अयान रे ! विषयोंवश वाला । मार
सुधारस छोड़के, पीवै जहर पियाला ॥ अब०
॥२॥ मानुष भवकी पैठमें, जग विणजी आया ।
चतुर कमाई कर चले, मूढ़ों मूल गुमाया ॥
अब० ॥ ३ ॥ तिसना तज तप जिन किया.
तिन बहु हित जोया । भोगमगन शठ जे रहे,
तिन सरवस खोया ॥ अब० ॥४॥ काम विथा-
पीड़ित जिया, भोगहि भले जानै । खाज खुजा-
वत अंगमें, रोगी सुख मानै ॥ अब० ॥ ५ ॥
राग उरगनी जोरतै, जग डसिया भाई !
सब जिय गाफिल हो रहे, मोह लहर चढ़ाई ॥

१ शहर । २ खोया । ३ सर्पनी ।

अब० ॥ ६ ॥ गुरु उपगारी गारुड़ी, दुख देख
निवारें । हित उपदेश मुमंत्रसों, पढ़ि जहर
उतारें ॥ अब० ॥ ७ ॥ गुरु माता गुरु ही
पिता, गुरु सजन भाई । भूधर या संसारमें,
गुरु शरनसहाई ॥ अब० ॥ ८ ॥

३४. राग बंगाला ।

जगमें श्रद्धानी जीव जीवनमुक्त होंगे ॥
टेक ॥ देव गुरु सांचे मानें, सांचो धर्म हिये
आनें, ग्रंथ ते ही सांचे जानें, जे जिनउक्त
होंगे ॥ जगमें० ॥ १ ॥ जीवनकी दया पाळें,
झूठ तजि चोरी टालें, परनारी भालें नैन जिनके
लुकत होंगे ॥ जगमें० ॥ २ ॥ जीयमें सन्तोष
घारें हियें समता विचारें, आगें को न बंध पारें,
पाळेंसों चुकत होंगे ॥ जगमें० ॥ ३ ॥ वाहिज
क्रिया अराधें, अन्तर मरूप साधें, भूधर ते मुक्त
लाधें, कहूं न रुकत होंगे ॥ जगमें० ॥ ४ ॥

१ जहर उतारनेवाला । २ इस पदकी चारों टुकें निकाल डालनेसे
एक घनाक्षरी (३२ वर्ण) कवित्त बन जाता है । ३ उक्त, प्रणीत,
कहे हुए । ४ देखनेमें । ५ छिपते हैं, लज्जित होते हैं ।

३५. राग बंगाला ।

आया रे बुढापा मानी सुधि बुधि विसरानी
 ॥ टेक ॥ श्रवनकी शक्ति घटी, चाल चलै अट-
 पटी, देह लँटी भूख घटी, लोचन झरत पानी ॥
 आया रे० ॥१॥ दाँतनकी पंक्ति टूटी, हाड़नकी
 संधि छूटी, कायाकी नगरि लूटी, जात नहिं
 पहिचानी ॥ आया रे० ॥ २ ॥ बालोंने वैन
 फेरा, रोगने शरीर घेरा, पुत्रहू न आवै नेरा,
 औरोंकी कहा कहानी ॥ आया रे० ॥२॥ भूधर
 समुझि अब, स्वहित करैगो कब, यह गति है है
 जब, तब पिछतैहै प्रानी ॥ आया रे० ॥ ४ ॥

३६. राग सोरठ ।

अन्तर उज्जल करना रे भाई ! ॥ टेक ॥ कपट
 कृपान तजै नहिं तबलों, करनी काज न सरना
 रे ॥ अन्तर० ॥ १ ॥ जप तप तीरथ जज्ञ
 व्रतादिक, आगमअर्थउचरना रे । विषय कषाय
 कीच नहिं धोयो, यों ही पाचि पाचि मरना रे ॥

१ इसकी भी टेकें निकाल देनेसे घनाक्षरी बन जाता है ।

२ कमजोर हुई । ३ रंग । ४ निकट ।

अन्तर० ॥ २ ॥ बाहिर भेष क्रिया उर शुचिसों
कीयें पार उतरना रे । नाहीं है सब लोक रं-
जना, ऐसे वेदन वरना रे ॥ अन्तर० ॥ ३ ॥
कामादिक मनसों मन मैला, भजन किये क्या
तिरना रे । भूधर नीलवसनपर कैसें, केसररंग
उछरना रे ॥ अन्तर० ॥ ४ ॥

३७. राग सोरठ ।

वीरा ! थारी वान बुरी परी रे, वरज्यो मा-
नत नाहिं ॥ टेक ॥ विषय विनोद महा बुरे रे,
दुख दाता सरवंग । तू हटसों ऐसैं रमै रे, दीवे
पड़त पतंग ॥ वीरा० ॥ १ ॥ ये सुख हैं दिन
दोयके रे, फिर दुखकी सन्तान । कैरे कुहाड़ी
लेहकै रे, मति मारै पैग जानि ॥ वीरा० ॥ २ ॥
तनक न संकट सहि सकै रे ! छिनमें होय अ-
धीर । नरक विपति बहु दोहली रे, कैसे भरि
है वीर ॥ वीरा० ॥ ३ ॥ भव सुपना हो जायगा
रे, करनी रहेगी निदान । भूधर फिर पछता-
यगा रे, अब ही समुझि अजान ॥ वीरा० ॥ ४ ॥

१ काले कपड़ेपर । २ दीपकमें । ३ अपने हाथसे । ४ अपने पैरपर ।

३८. राग काफ़ी ।

मनहंस ! हमारी लै शिक्षा हितकारी ॥ टेक ॥
 श्रीभगवानचरन पिंजरे वसि, तजि विषयनिकी
 यारी ॥ मन० ॥ १ ॥ कुमति कागलीसों मति
 राचो, ना वह जात तिहारी । कीजै प्रीत सुमति
 हंसीसों, बुध हंसनकी प्यारी ॥ मन० ॥ २ ॥
 काहेको सेवत भव झीलर, दुखजलपूरित
 खारी । निज बल पंख पसारि उड़ो किन, हो
 शिव सैरवरचारी ॥ मन० ॥ ३ ॥ गुरुके वचन
 विमल मोती चुन, क्यों निज वान विमारी ।
 है है सुखी सीख सुधि राखै, भूधर भूलै ख्वारी
 ॥ मन० ॥ ४ ॥

३९. राग ख्याल कान्हडी ।

एजी मोहि तारिये शान्तिजिनंद ॥ टेक ॥
 तारिये तारिये अधम उधारिये, तुम करुनाके
 कंद ॥ एजी० ॥ १ ॥ हथनापुरं जनमें जग
 जानै, विश्वसेननृपनन्द ॥ एजी० ॥ २ ॥ धरि
 वह माता ऐरादेवी, जिन जाये जगचंद ॥

१ झील । २ सगेवर-तालाबका रहनेवाला ।

एजी० ॥ ३ ॥ भूधर विनवै दूर करो प्रभु, सेव-
कके भवद्वद ॥ एजी० ॥ ४ ॥

४०. राग ख्याल ।

और सब थोथी बातें, भज ले श्रीभगवान ॥
टेक ॥ प्रभु विन पालक कोई न तेरा, स्वारथ-
मीत जहान ॥ और० ॥ १ ॥ परवनिता
जननी सम गिननी, परधन जान पखान । इन
अमलों परमेशुर राजी, भाषें वेद पुरान ॥
और० ॥ २ ॥ जिम उर अन्तर वसत निरन्तर,
नारी औगुनखान । तहां कहां साहिबका वासा,
दो खांडे इक म्यान ॥ और० ॥ ३ ॥ यह मत
सतगुरुका उर धरना, करना कहिं न गुमान ।
भूधर भजन न पलक विमरना, मरना मित्र
निदान ॥ और० ॥ ४ ॥

४१. राग प्रभानी ।

अजित जिन विनती हमारी मान जी, तुम
लागे मेरे प्राण जी ॥ टेक ॥ तुम त्रिभुवनमें
कल्प तरोवर, आस भरो भगवान जी ॥

१ दो तलवार ।

अजित० ॥ १ ॥ वादि अनादि गयो भव भ्रमते,
 भयो बहुत कुलकान जी । भाग सँजोग मिले
 अब दीजे, मनवांछित वरदान जी ॥ अजित०
 ॥ २ ॥ ना हम मांगें हाथी घोड़ा, ना कछु
 संपति आन जी । भूधरके उर बसो जगतगुरु,
 जबलों पद निरवानजी ॥ अजित० ॥ ३ ॥

४२. गग धनासरी ।

सो मत सांचो है मन मेरे ॥ टेक ॥ जो
 अनादि सर्वज्ञप्ररूपित, रागादिक विन जे रे ॥
 सो मत० ॥ १ ॥ पुरुष प्रमान प्रमान वचन तिस,
 कलपित जान अने रे । राग-दोष-दूषित तिन
 वायक, सांचे हैं हित तेरे ॥ सो मत० ॥ २ ॥
 देव अदोष धर्म हिंसा विन, लोभ विना गुरु वे
 रे । आदि अन्त अविरोधी आगम, चार रतन
 जहँ ये रे ॥ सो मत० ॥ ३ ॥ जगत भख्यो
 पाखण्ड परख विन, खाइ खता बहुते रे । भूधर
 करि निज सुबुधि कसौटी, धर्म कनक कसि ले
 रे ॥ सो मत० ॥ ४ ॥

४३

मेरे चारों शरन सहाई ॥ टेक ॥ जैसें जलधि
परत वायसकों बोहिथ एक उपाई ॥ मेरे० ॥१॥
प्रथम शरन अरहन्त चरनकी, सुरनर पूजत
पाई । दुतिय शरन श्रीसिद्धनकेरी, लोक-ति-
लक-पुर-राई ॥ मेरे० ॥ २ ॥ तीजै सरन सर्व
साधुनिकी, नगन दिगम्बर-कोई । चौथै धर्म
अहिंसारूपी, सुरगमुकतिसुखदाई ॥ मेरे० ॥३॥
दुरगति परत मुजन परिजनपै, जीव न राख्यो
जाई । भूधर सत्य भरोसो इनको, ये ही लेहिं
त्रचाई ॥ मेरे० ॥ ४ ॥

४४. राग सारंग ।

जपि माला जिनवर नामकी ॥ टेक ॥ भजन
मुधारससों नहिं धोई, सो रसना किस कामकी ॥
जपि० ॥ १ ॥ सुमरन सार और मिथ्या, पट-
तर धूँवा नामकी । विषम कमान समान विषय
सुख, काय कोथली चामकी ॥ जपि० ॥ २ ॥
जैसे चित्रनागके मांथै, थिर मूरति चित्रामकी ।

१ कोंएको । २ जहाज । ३ थैली ।

चित आरूढ़ करो प्रभु ऐसैं, खोय गुँड़ी परिना-
मकी ॥ जपि० ॥ ३ ॥ कर्म वैरि अहनिशि छल
जोवैं, सुधि न परत पल जामकी । भूधर कैसें
बनत विसारैं, रटना पूरन रामकी ॥ जपि० ॥ ४ ॥

४५. राग मलार ।

वे मुनिवर कब मिलि हैं उपगारी ॥ टेक ॥
साधु दिगम्बर नगन निरम्बर, संवरभूषण-
धारी ॥ वे मुनि० ॥ १ ॥ कंचन काच बशबर
जिनकै, ज्यौं रिपु त्यों हितकारी ! महल मसान
मरन अरु जीवन, सम गैरिमा अरु गैरी ॥ वे
मुनि० ॥ २ ॥ सम्यग्ज्ञान प्रधान पवन बल, तप
पावक परजारी । शोधत जीव सुवर्ण सदा जे,
काय-कारिमा टारी ॥ वे मुनि० ॥ ३ ॥ जोरि
जुगल कर भूधर विनवै, तिन पद ठोक हमारी ।
भाग उदय दरसन जब पाऊं, ता दिनकी बलि-
हारी ॥ मुनि० ॥ ४ ॥

४६. राग धमाल सारंग ।

होरी खेलौंगी, घर आये चिदानंद कन्त ॥

१ रातदिन । २ महिमा, बड़ाई । ३ गाली । ४ जन्दाई ।

टेक ॥ शिशिरं मिथ्यात् गयो आई अब, कालकी लब्धि वसन्त ॥ होरी० ॥ १ ॥ पिय सँग खेलनको हम सखियो ! तरमीं काल अनन्त । भाग फिरे अब फाग रचानों, आयो विरहको अन्त ॥ होरी० ॥ २ ॥ सरधा गागरमें रुचिरूपी, केसर घोरि तुरन्त । आनँद नीर उमग पिचकारी, छोड़ो नीकी भन्त ॥ होरी० ॥ ३ ॥ आज वियोग कुमति सौतनिकै, मेरे हरष महन्त । भूधर धनि यह दिन दुर्लभ अति, सुमति मखी विहसन्त ॥ होरी० ॥ ४ ॥

४७. राग भैरों ।

*पारस-पद-नख-प्रकाश, अरुन वरन ऐसो ॥
टेक ॥ मानों तप कुंजरके, सीसको सिंदूर पूर,
राग दोष काननकों, दावानल जैसो ॥ पारस०
॥ १ ॥ बोधमई प्रातकाल, ताको रवि उदय
लाल, मोक्षवधू-कुचप्रलेप, कुंकुमाभ तैसो ॥

१ टंडी ऋतु । * यह पद सिन्दूरप्रकरके पहलें श्लोक (सिन्दूरप्र-
करस्तपःकंशिशिरः क्रोडं कषायाटवी) की छाया है । २ लाल ।
३ हार्थिके । ४ वनको ।

पारस० ॥ २ ॥ कुशलवृक्ष दल उलास, इहि
विधि बहु गुणनिवास, भूधरकी भरहु आस,
दीन दासके सो ॥ पारस० ॥ ३ ॥

४८. राग धनासरी ।

शेष सुरेश नरेश रटें तोहि, पार न कोई पावै
जू ॥ टेक ॥ काँपै नपत व्योम विलसतसौं, को
तारे गिन लावै जू ॥ शेष० ॥ १ ॥ कौन सु-
जान मेघ बूंदनकी, संख्या समुझि सुनावै जू ॥
शेष० ॥ २ ॥ भूधर सुजस गीत संपूरन, गन-
पति भी नहिं गावै जू ॥ शेष० ॥ ३ ॥

४९. राग रामकली ।

आदि पुरुष मेरी आस भरो जी । औगुन
मेरे माफ करो जी ॥ टेक ॥ दीनदयाल विरद
विसरो जी, कै विनती मोरी श्रवण धरो जी ॥१॥
काल अनादि वस्यो जगमाहीं, तुमसे जगपति
जानें नाहीं । पाँय न पूजे अन्तरजामी, यह
अपराध क्षमा कर स्वामी ॥ आदि० ॥ २ ॥
भक्ति प्रसाद परम पद है है, बंधी बंध दशा

मिट जै है । तब न करौं तेरी फिर पूजा, यह
अपराध खर्मों प्रमु दूजा ॥ आदि० ॥ ३ ॥
भूधर दोष किया वैकसावै, अरु आगेको लारै
लावै । देखो सेवककी ठिठवाई, गरुवे साहिबसों
बनियौई ॥ आदि० ॥ ४ ॥

५०. राग ग्वाल काफी कानडी ।

तुम सुनियो साधो!, मनुवा मेरा ज्ञानी ।
मत गुरु भैंटा संसा मैटा, यह नीकै करि जानी ॥
टेक ॥ चेतनरूप अनूप हमारा, और उपाधि
विरानी ॥ तुम सुनियो० ॥ १ ॥ पुदगल भांडा
आतम स्वांडा, यह हिरदै ठहरानी । छीनौ भीजौ
कृत्रिम काया, में निरभय निरवानी ॥ तुम
सुनियो० ॥ २ ॥ मैं ही देखों में ही जानों, मेरी
होय निशानी । शबद फरस रस गंध न धारों,
ये बातें विज्ञानी ॥ तुम सुनियो० ॥ ३ ॥ जो
हम चीन्हां सो थिर कीन्हां, हुए सुदृढ़ सर-
धानी । भूधर अब कैसें उतरैगा, खड़ग बढ़ा
जो पानी ॥ तुम सुनियो० ॥ ४ ॥

१ माफ करता है । २ टीठता । ३ बनियांपन । ४ संवेह ।

५१. राग काफी ।

प्रभु गुन गाय रे, यह औसर फेर न पाय रे ॥
 टेक ॥ मानुष भव जोग दुहेला, दुर्लभ सतसंगति
 मेला । सब बात भली बन आई, अरहन्त भजौ
 रे भाई ॥ प्रभु० ॥ १ ॥ पहलें चित-चीरं सँभारो,
 कामादिक मेल उतारो । फिर प्रीति फिटकरी
 दीजे, तब सुमरन रंग रँगीजे ॥ प्रभु० ॥ २ ॥
 धन जोर भरा जो कूवा, परवार बढैं क्या हूवा ।
 हाथी चढि क्या कर लीया, प्रभु नाम विना धिक
 जीया ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ यह शिक्षा है व्यवहारी,
 निहचैकी साधनहारी । भूधर पैड़ी पग धरिये,
 तब चढनेको चित करिये ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥

५२. राग हागौर कल्याण ।

सुनि सुजान ! पाँचों रिपु वश करि, सुहित
 करन असमर्थ अवश करि ॥ टेक ॥ जैसे जड़
 खखौरको कीड़ा, सुहित सम्हाल सकें नहिँ फँस
 करि ॥ सुनि० ॥ १ ॥ पाँचनको मुखिया मन
 चंचल, पहले ताहि पकर रस (?) कस करि । समझ

१ वख । २ पाँचों इन्दी । ३ कफ ।

देखि नायकके जीतैं, जै है भाजि सहज सब
लसकरि ॥ मुनि० ॥ २ ॥ इंद्रियलीन जनम
मब स्वोयो, बाकी चल्यो जात है स्वस करि ।
भूधर सीम्व मान सतगुरुकी, इनमों प्रीति तोरि
अब वश करि ॥ मुनि० ॥ ३ ॥

५३. राग गौरी ।

देखो भाई ! आत्मदेव विराजै ॥ टेक ॥
इसही हूँट हाथ देवलमें, केवलरूपी राजै ॥
देखो० ॥ १ ॥ अमल उजास जोतिमय जाकी,
मुद्रा मंजुल छाजै । मुनिजनपूज अचल अवि-
नाशी, गुण वरनत बुधि लाजै ॥ देखो० ॥ २ ॥
परसंजोग समल प्रतिभासत, निज गुण मूल न
त्याजै । जैसे फटिक पखान हेतसों, श्याम अरुन
दुति साजै ॥ देखो० ॥ ३ ॥ 'मोऽहं' पद सम-
तासों ध्यावत, घटहीमें प्रभु पाजै । भूधर निकट
निवास जासुको, गुरु विन भरम न भाजै ॥
देखो० ॥ ४ ॥

१ लष्कर-सेना । २ सांडनीन हाथके शरीररूपी मंत्रिमैं ।

५४. राग ख्याल ।

अब नित नेमि नाम भजौ ॥ टेक ॥ सच्चा
साहिब यह निज जानौ, और अदेव तजौ ॥ अब०
॥ १ ॥ चंचल चित्त चरन थिर राखो, विषयनतैं
वरजौ ॥ अब० ॥ २ ॥ आननतैं गुन गाय निर-
न्तर, पाननैं पांय जैजौ ॥ अब० ॥ ३ ॥ भूधर जो
भवसागर तिरना, भक्ति जहाज सजौ ॥ अब० ॥ ४ ॥

५५. राग श्रीगौरी ।

(“ माया काली कागिनि जिन डसिया सब संमार हों ” यह चाल ।)

काया गागरि जो जरी, तुम देखो चतुर वि-
चार हो ॥ टेक ॥ जैसे कुल्हिया कांचकी, जाके
विनसत नाहीं बार हो ॥ काया० ॥ १ ॥ मांस-
मयी माटी लई अरु, सानी रुधिर लगाय हो ।
कीन्हीं करम कुम्हारने, जासों काहूकी न वसाय
हो ॥ काया० ॥ २ ॥ और कथा याकी सुनों,
यामैं अध उरध दश ठेह हो । जीव सलिल तहां
थंभ रह्यौ भाई. अद्भुत अचरज येह हो ॥

१ मुससे । २ हाथ जोड़कर । ३ नमन करो । ४ जरजरित, टूटी
फूटी ।

काया० ॥ ३ ॥ यासौं ममत निवारकैं, नित
रहिये प्रभु अनुकूल हो । भूधर ऐसे ख्यालका
भाई, पलक भरोसा भूल हो ॥ काया० ॥ ४ ॥

५६. राग ख्याल बरवा ।

(“ देखनेको आई लाल में तो तेरे देखनेको आई ” यह चाल ।)

मैं तो थाकी आज महिमा जानी ॥ टेक ॥
अब लों नहिं उर आनी ॥ मैं तो० ॥ १ ॥
काहेंको भव वनमें भ्रमते, क्यों होते दुखदानी ॥
मैं तो० ॥ २ ॥ नामप्रताप तिरे अंजनसे,
कीचकमे अभिमानी ॥ मैं तो० ॥ ३ ॥ ऐसी
साख बहुत सुनियत है, जैनपुराण बखानी ॥
मैं तो० ॥ ४ ॥ भूधरको सेवा वर दीजे, में
जांचक तुम दानी ॥ मैं तो० ॥ ५ ॥

५७. राग विदाग ।

अरे मन चल रे, श्रीहथनापुरकी जात ॥
टेक ॥ रामा रामा धन धन करते, जावै जनम
विफल रे ॥ अरे० ॥ १ ॥ करि तीरथ जप तप
जिनपूजा, लालच वैरी दल रे ॥ अरे० ॥ २ ॥

१ यात्राको । २ स्त्री ।

शांति कुंथु अर तीनों जिनका, चारु कल्याण-
 कथल रे ॥ अरे० ॥ ३ ॥ जा दरसत परसत
 सुख उपजत, जाहिं सकल अघ गल रे ॥ अरे०
 ॥४॥ देश दिशन्तरके जन आवैं, गावैं जिन गुन
 रल रे ॥ अरे० ॥ ५ ॥ तीरथ गमन सहामी
 मेला, एक पंथ द्वै फल रे ॥ अरे० ॥ ६ ॥
 कायाके संग काल फिरै है, तन छायाके छल
 रे ॥ अरे० ॥ ७ ॥ माया मोह जाल बंधनसौं,
 भूधर वेगि निकल रे ॥ अरे० ॥ ८ ॥

५८. राग विहाग ।

जगत जन जूवा हारि चले ॥ टेक ॥ काम
 कुटिल सँग बाजी माँड़ी, उन करि कपट छले ॥
 जगत० ॥ १ ॥ चार कषायमयी जहँ चौपरि,
 पांसे जोग रले । इत सरवस उत कामिनी
 कौंड़ी, इह विधि झटक चले । जगत० ॥ २ ॥
 क्रूर खिलार विचार न कीन्हों, द्वै हैं ख्वार
 भले । विना विवेक मनोरथ काके, भूधर सफल
 फले । जगत० ॥ ३ ॥

५९. राग बिहाग ।

तहां लै चल री ! जहां जादौपति प्यारो ॥
 टेक ॥ नेमि निशाकर विन यह चन्दा, तन मन
 दहत सकल री । तहां० ॥ १ ॥ किरन किधौं
 नाविक-शर-तति कै, ज्यों पावककी झल री ।
 तारे हैं कि अँगारे मजनी, रज़नी राकसदल
 री । तहां० ॥ २ ॥ इह विधि राजुल राजकुमारी,
 विरह तपी बेकल री । भूधर धन्न शिवांसुत
 बादर, वरसायो समजल री । तहां० ॥ ३ ॥

६०. राग ग्याल ।

अरे ! हां चेतो रे भाई ॥ टेक ॥ मानुष देह
 लही दुलही, सुघरी उघरी सतसंगति पाई ।
 अरे हां० ॥ १ ॥ जे करनी बरनी करनी नहिं,
 ते समझी करनी समझाई । अरे हां० ॥ २ ॥ यों
 शुभ थान जग्यो उर ज्ञान, विषैविषपान तृषा
 न बुझाई । अरे हां० ॥ ३ ॥ पारस पाय सुधा-

१ राक्षस । २ शिवादेवीके पुत्र नेमि । ३ बादल-मेष । ४ शम-
 ममतारूपी जल । ५ टेक छोड़कर पढ़नेसे इस पदका एक मनगयन्द
 (तेईसा) सवेया बन जाता है ।

रस भूधर, भीखकेमाहिं सुलाज न आई ।
अरे हां० ॥ ४ ॥

६१. राग सोरठ ।

सो गुरुदेव हमारा है साधो ॥ टेक ॥ जोग
अगनिमें जो थिर राखै, यह चित चंचल पारा
है ॥ सो गुरु० ॥ १ ॥ करंन कुरंग खरे मद-
माते, जप तप खेत उजांरा है । संजम डोर
जोर वश कीने, ऐसा ज्ञान विचारा है ॥ सो
गुरु० ॥ २ ॥ जा लक्ष्मीको सब जग चाहै,
दाम हुआ जग सारा है । सो प्रभुके चरननकी
चेरी, देखो अचरज भारा है ॥ सो गुरु० ॥ ३ ॥
लोभ सरपके कहर जहरकी, लहर गई दुख
दारा है । भूधर ता रिखका शिख हूजे, तब
कछु होय सुधारा है ॥ सो गुरु० ॥ ४ ॥

६२. राग सोरठ ।

स्वामीजी सांची सरन तुम्हारी ॥ टेक ॥
समरथ शांत सकल गुनपूरे, भयो भरोसो
भारी ॥ स्वामी० ॥ १ ॥ जनम जरा जग बैरी

१ इन्द्रिय । २ उजाड़ा, नष्ट किया । ३ ऋषि-भुजिका । ४ शिष्य ।

जीते, टेव मरनकी टारी । हमहूको अजरामर
करियो, भरियो आस हमारी ॥ स्वामी० ॥ २ ॥
जनमें मरें धरें तन फिरि फिरि, सो साहिब
संसारि । भूधर परदालिद क्यों दलि है, जो है
आप भिखारी ॥ स्वामी० ॥ ३ ॥

६३.

जीवदया व्रत तरु बड़ो, पालो पालो बड़-
भाग ॥ टेक ॥ कीड़ी कुंजर कुंथुवा, जेते जग-
जन्त । आप सरीखे देखिये, करिये नहिं भन्तं ॥
जीवदया० ॥ १ ॥ जैसे अपने हीयंडे, प्यारे
निज प्रान । त्यों सबहीकों लाड़िये, निहचै यह
जान ॥ जीवदया० ॥ २ ॥ फांस चुभै दुक
देहमें, कछु नाहिं सुहाय । त्यों परदुखकी वे-
दना, समझो मन लाय ॥ जीवदया० ॥ ३ ॥
मन वचसों अर कायसों, करिये परकाज ।
किसहीकों न सताइये, सिखवैं रिखिराज ॥ जीव-
दया० ॥ ४ ॥ करुना जगकी मार्यंडी, धीजे
सब कोय । धिग ! धिग ! निरदय भावना, कंयें

१ भेद । २ दिलमें । ३ माता । ४ प्रतीति करें ।

जिय जोय ॥ जीवदया० ॥ ५ ॥ सब दैसेण
 सब लोयमें, सब कालमँझार । यह करनी बहु
 शंसिये, ऐसो गुणसार ॥ जीवदया० ॥ ६ ॥
 निरदै नर भी संस्तुवै, निदै कोइ नाहिं । पालें
 विरले साहसी, धनि वे जगमाहिं ॥ जीवदया०
 ॥ ७ ॥ पर सुखसों सुख होय, पर-पीड़ामों पीर ।
 भूधर जो चित चाहिये, मोई कर बीर ! ॥
 जीवदया० ॥ ८ ॥

६४.

ऐसो श्रावक कुल तुम पाय, वृथा क्यों
 खोवत हो ॥ टेक ॥ कठिन कठिनकर नरभव
 पाई, तुम लेखी आसान । धर्म विसारि विषयमें
 राचौ, मानी न गुरुकी आन ॥ वृथा० ॥ १ ॥
 चक्री एक मतंगज पायो, तापर ईधन ढोयो ।
 विना विवेक विना मतिहीको, पाय सुधा पग
 घोयो ॥ वृथा० ॥ २ ॥ काहू शठ चिन्तामणि
 पायो, मरम न जानो ताय । वायस देखि उद-
 धिमें फैंक्यो, फिर पीछे पछताय ॥ वृथा० ॥ ३ ॥

१ दर्शनमें-धर्ममें । २ लोकमें । ३ सराहिए । ४ स्तुति करे ।

सात विसन आठों मद त्यागो, करुना चित्त
विचारो । तीन रतन हिरदैमें धारो, आवागमन
निवारो ॥ वृथा० ॥ ४ ॥ भूधरदास कहत
भविजनसों, चेतन अब तो सम्हारो । प्रभुको
नाम तरन तारन जपि, कर्मफन्द निरवारो ॥
वृथा० ॥ ५ ॥

६५. राग ख्याल ।

नैननिको वान परी, दरसनकी ॥ टेक ॥
जिनमुखचन्द चकोर चित्त मुझ, ऐसी प्रीति
करी ॥ नैन० ॥ १ ॥ और अदेवनके चितवनको
अब चित चाह टरी । ज्यों सब धूलि दबै
दिशि दिशिकी, लागत मेघझरी ॥ नैन० ॥ २ ॥
छर्बी समाय रही लोचनमें, विमरत नाहिं
घरी । भूधर कह यह टेव रहो थिर, जनम
जनम हमरी ॥ नैन० ॥ ३ ॥

६६. चाल गोपीचन्दकी ।

यह तन जंगम रूखंडा, सुनियो भवि प्राणी ।
एक बूंद इस बीच है, कछु बात न छांनी ॥ टेक ॥

१ वृक्ष । २ छुपी ।

गरभ खेतमें मास नौ, निजरूप दुराया । बाल
 अंकुरा बढ़ गया, तब नजरोँ आया ॥ १ ॥
 अस्थिरसा भीतर भया, जानै सब कोई । चाम
 त्वचा ऊपर चढ़ी, देखो सब लोई ॥ २ ॥ अधो
 अंग जिस पेड़ है, लख लेहु सयाना । भुज शाखा
 दल आँगुरी, दृग फूल रँवाँना ॥ ३ ॥ वनिता
 बेलि सुहावनी, आलिंगन कीया । पुत्रादिक पंछी
 तहां, उड़ि बासा लिया ॥ ४ ॥ निरख विरँख बहु
 सोहना, सबके मनमाना । स्वजन लोग छाया
 तकी, निज स्वारथ जाना ॥ ५ ॥ काम भोग
 फलसों फला, मन देखि लुभाया । चाखतके
 मीठे लगे, पीछें पछताया ॥ ६ ॥ जरादि बलसों
 छवि घटी, किसही न सुहाया । काल अग्नि
 जब लहलही, तब खोज न पाया ॥ ७ ॥ यह
 मानुष दुमकी दशा, हिरदै धरि लीजे । ज्यों
 हूवा त्यों जाय है, कछु जतन करीजे ॥ ८ ॥ धर्म
 सलिलसों सींचिकै, तप धूप दिखइये । सुरग
 मोक्ष फल तब लगेँ, भूधर सुख पइये ॥ ९ ॥

६७. कालिंगडा ।

(“ गर्गब जुलाहा ताना कौन बुनेगा ” इस चालमें ।)

चरखा चलता नहीं, चरखा हुआ पुराना ॥
 टेक ॥ पग खूटे दो हालन लागे, उर मदरा
 खखराना । छीदी हुई पांखड़ी पांसू, फिरै नहीं
 मनमाना ॥ चरखा० ॥ १ ॥ रसना तकलीने
 चल खाया, सो अब कैसे खूटे ॥ शबद सूत सूधा
 नहीं निकसे, घड़ी घड़ी पल टूटे ॥ चरखा०
 ॥ २ ॥ आयु मालका नहीं भरोसा, अंग चला-
 चल सारे ! रोज इलाज मरम्मत चाहै, बैद
 बाढ़ही हारे ॥ चरखा० ॥ ३ ॥ नया चरखला
 रंगा चंगा, सबका चित्त चुरावै । पलटा वरन
 गये गुन अगले, अब देखें नहीं भावै ॥ चरखा०
 ॥ ४ ॥ मौटा महीं कातकर भाई !, कर अपना
 सुरक्षेरा ॥ अंत आगमें ईधन होगा, भूधर
 समझ सबेरा ॥ चरखा० ॥ ५ ॥

६८. आरती ।

आरती, आदि जिनिंद तुम्हारी, नाभिकुमार
 कनकछविधारी ॥ आरती० ॥ टेक ॥ जुगकी

आदि प्रजा प्रतिपाली, सकल जननकी आरति
 टाली ॥ आरती० ॥ १ ॥ वांछापूरन सबके
 स्वामी, प्रगट भये प्रभु अंतरजामी ॥ आरती०
 ॥ २ ॥ कोटभानुजुत आभा तनकी, चाहत
 चाह मिटै नहिं तनकी ॥ आरती० ॥ ३ ॥
 नाटक निरखि परम पद ध्यायो, राग थान
 वैराग उपायो ॥ आरती० ॥ ४ ॥ आदि जग-
 तगुरु आदि विधाता, सुरग मुक्ति मार-
 गके दाता ॥ आरती० ॥ ५ ॥ दीनदयाल
 दया अब कीजे, भूधर सेवकको ढिग लीजे ॥
 आरती० ॥ ६ ॥

६९. राग सलहामारू ।

सुनि सुनि हे साथनि ! म्हारे मनकी बात ।
 सुरति सखीसों सुमति राणी यों कहै जी ।
 बीत्यो है साथनि म्हारी ! दीरघकाल, म्हारो
 सनेही म्हारे घर ना रहै जी ॥ १ ॥ ना वरज्यो
 रहै साथनि म्हारी चेतनराव, कारज अभम
 अचेतनके करै जी । दुरमति है साथनि
 म्हारी जात कुजात, सोई चिदातम पियको

चित्त हरै जी ॥ २ ॥ मिखयौ है साथनि म्हारी
 केती बार. क्यों ही कियो हठी हठ एरी हरै
 जी । कीजे हो साथनि म्हारी कौन उपाय,
 अब यह विरह विथा नहिं सही परै जी ॥ ३ ॥
 चलि चलि री साथनि म्हारी. जिनजीके पास,
 वे उपगारी इसैं समझावमी जी । जगमी हे
 सखी म्हारे मस्तक भाग, जो म्हारौ कंथ
 समझि घर आवमी जी ॥ ४ ॥ कारज हे सखी
 म्हारी ! मिद्ध न होय, जब लग काललबधि-
 बल नहिं भलो जी । तो पण हे सखी म्हारी
 उद्यम जोग, सीख सयानी भूधर मन
 सांभलो जी ॥ ५ ॥

७०. जकड़ी ।

अब मन मेरे वे !, सुनि सुनि सीख सयानी ।
 जिनवर चरना वे !, करि करि प्रीति सुज्ञानी ॥
 करि प्रीति सुज्ञानी ! शिवसुखदानी, धन जीतब
 है पंचदिना । कोटि वरष जीवौ किम लेखे, जिन
 चरणांबुजभक्ति विना ॥ नर परजाय पाय अति
 उत्तम, गृह बसि यह लाहा ले रे ! । समझ समझ

बोलैं गुरुज्ञानी, सीख सयानी मन मेरे ॥ १ ॥
 तू मति तरसै वे !, सम्पति देखि पराई । बोये
 लुनि ले वे !, जो निज पूर्व कमाई ॥ पूर्व कमाई
 सम्पति पाई, देखि देखि मति झूर मरै । बोय
 बँबूल शूल-तरु भोंदू !, आमनकी क्या आस
 करै ॥ अब कछु समझ बूझ नर तासों, ज्यों
 फिर परभव सुख दरसै । करि निजध्यान दान
 तप संजम, देखि विभव पर मत तरसै ॥ २ ॥
 जो जग दीसै वे !, सुंदर अरु सुखदाई । सो सब
 फलिया वे !, धर्मकल्पद्रुम भाई ! ॥ सो सब धर्म
 कल्पद्रुमके फल, रथ पायक बहु ऋद्धि मही ।
 तेज तुरंग तुंग गज नौ निधि, चौदह रतन
 छखण्ड मही ॥ रति उनहार रूपकी सीमा, सहस
 छ्यानवै नारि वरै । सो सब जानि धर्मफल भाई !
 जो जंग सुंदर दृष्टि परै ॥ ३ ॥ लगैं असुंदर वे !,
 कंठक वान घनेरे । ते रस फलिया वे !, पाप
 कनक-तरु केरे ॥ ते सब पाप कनकतरुके फल,
 रोग सोग दुख नित्य नये । कुथित शरीर
 चीर नहिं तापर, घर घर फिरत फकीर भये ॥

भूख प्यास पीड़ें कन मांगें, होत अनादर पग
 पगमें । ये परतच्छ पाप मंचित फल, लगें
 असुंदर जे जगमें ॥ ४ ॥ इस भव वनमें वे !,
 ये दौऊ तरु जाने । जो मन माने वे !, सोई
 मींचि सयाने ॥ सींचि सयाने ! जो मन माने,
 वेर वेर अब कौन कहै । तू करतार तुही फल-
 भोगी, अपने सुख दुख आप लहै ॥ धन्य !
 धन्य ! जिन मारग सुंदर, सेवन जोग तिहूँ
 पनमें । जामों समुझि परै सब भृघर, सदा
 शरण इस भववनमें ॥ ५ ॥

७१. धिनती ।

हरिगीतिका ।

पुलकन्त नयन चकोर पक्षी, हँमत उर इन्दी-
 वरो । दुर्बुद्धि चकवी विलख विछुरी, निबिड़
 मिथ्यातम हरो ॥ आनन्द अम्बुज उमग उछ-
 खो, अखिल आतम निरदले । जिनवदन पूर-
 नचन्द्र निरखत, सकल मनवांछित फले ॥ १ ॥
 मुझ आज आतम भयो पावन, आज विघ्न
 विनाशियो । संसारसागर नीर निवन्धो, अखिल

तत्त्व प्रकाशियो ॥ अब भई कमला किंकरी
मुझ, उभय भव निर्मल ठये । दुख जरो दुर्गति-
वास निवरो, आज नव मंगल भये ॥ २ ॥
मनहरन मूरति हेरि प्रभुकी, कौन उपमा लाइये ।
मम सकल तनके रोम हुलसे, हर्ष ओर न पा-
इये ॥ कल्याणकाल प्रतच्छ प्रभुको, लग्ने जो
सुर नर घने । तिस समयकी आनन्दमहिमा,
कहत क्यों मुखसों बने ॥३॥ भर नयन निरखे
नाथ तुमको, और बांछा ना रही । मन ठठ
मनोरथ भये पूरन, रंक मानो निधि लही ॥
अब होय भव भव भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी
कीजिये । कर जोर 'भूधरदाम' विनवै, यही
वर मोहि दीजिये ॥ ४ ॥

७२. विनती ।

तुम तरनतारन भवनिवारन, भविक-मनआ-
नन्दनो । श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन, आदि-
नाथ जिनिन्दनो ॥ तुम आदिनाथ अनादि
सेऊं, सेय पद पूजा करों । कैलाशगिरिपर
ऋषभ जिनवर, चरणकमल हृदय धरों ॥ १ ॥

तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकर्म महा-
बली । यह जानकर तुम शरण आयो, कृपा
कीजे नाथ जी ॥ तुम चन्द्रवदन सुचन्द्रलक्षण,
चन्द्रपुरिपरमेशजू । महामेननन्दन जगतवन्दन,
चन्द्रनाथ जिनेशजू ॥ २ ॥ तुम बालबोध-
विवेकमागर, भव्यकमलप्रकाशनो । श्रीनेमि-
नाथ पवित्र दिनकर, पापतिमिर विनाशनो ॥
तुम तजी राजुल राजकन्या, काममेन्या वश
करी । चारित्ररथ चढ़ि भये दूलह, जाय शिव-
सुन्दरि वरी ॥ ३ ॥ इन्द्रादि जन्मस्थान जि-
नके, करन कनकाचल चढ़े । गंधर्व देवन सु-
यश गाये, अपमरा मंगल पढ़े ॥ इहि विधि
सुरासुर निज नियोगी, सकल सेवाविधि ठही ।
ते पार्श्व प्रभु मो आम पूरा, चरनमेवक हों मही
॥ ४ ॥ तुम ज्ञान रवि अज्ञानतमहर, सेवकन
सुख देत हो । मम कुमतिहारन सुमतिकारन,
दुरित सब हर लेत हो ॥ तुम मोक्षदाता
कर्मघाता, दीन जानि दया करो । सिद्धार्थ-
नन्दन जगतवन्दन, महावीर जिनेश्वरो ॥ ५ ॥

चौबीस तीर्थकर सुजिनको, नमत सुरनर आ-
 यके । मैं शरण आयो हर्ष पायो, जोर कर सिर
 नायके ॥ तुम तरनतारन हो प्रभूजी, मोहि
 पार उतारियो । मैं हीन दीन दयालु प्रभुजी,
 काज मेरो सारियो ॥ ६ ॥ यह अतुलमहिमा-
 सिन्धु साहब, शक्र पार न पावही । तजि हासभय
 तुम दास भूधर, भक्तिवश यश गावही ॥ ७ ॥

७३. गुरुविनती ।

बन्दौं दिगम्बरगुरुचरन, जग तरन तारन
 जान । जे भरम भारी रोगको, हैं राजबैद्य
 महान ॥ जिनके अनुग्रह विन कभी, नहिं कटैं
 कर्म जँजीर । ते साधु मेरे मन वसो, मेरी हरो
 पातक पीर ॥ १ ॥ यह तन अपावन अशुचि
 है, संसार सकल असार । ये भोग विष पकवा-
 नसे, इस भाँति सोच विचार ॥ तप विरचि श्री-
 मुनि बन वसे, सब त्यागि परिग्रह भीर । ते साधु
 मेरे मन वसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ २ ॥ जे
 काच कंचन सम गिनैं, अरि मित्र एक सरूप ।

निंदा बड़ाई सारिखी, वनखण्ड शहर अनूप ॥
 सुख दुःख जीवन मरनमें, नाहिं खुशी नहिं दि-
 लगीर । ते साधु मेरे मन वसो, मेरी हरो पातक
 पीर ॥ ३ ॥ जे बाह्य परवत वन वसैं, गिरि गुहा
 महल मनोग । मिल सेज समता सहचरी, शशि-
 किरण दीपक जोग ॥ मृग मित्र भोजन तपमई,
 विज्ञान निरमल नीर । ते साधु मेरे मन वसो,
 मेरी हरो पातक पीर ॥ ४ ॥ सुखें सरोवर जल
 भरे, सुखै तरंगनितोय । वीटैं वटोही ना चलैं,
 जहां घाम गरमी होय ॥ तिस काल मुनिवर तप
 तपैं, गिरिशिखर ठाड़े धीर । ते साधु मेरे मन
 वसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ ५ ॥ घन घोर गरजैं
 घनघटा, जल परै पावैसकाल । चहुँ ओर चमकै
 वीजुरी, अति चलै शीतल व्याँल ॥ तरुहेट तिष्ठैं
 तब जती, एकान्त अचल शरीर । ते साधु मेरे
 मन वसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ ६ ॥ जब-
 शीत मास तुषारसों, दाहै सकल वनराय । जब

१ समान, बगबर । २ नदीका जल । ३ गस्तेसे । ४ मुसाफिर
 ५ बरसातमें । ६ पवन । ७ वृक्षके नीचे ।

जमै पानी पोखरां, थरहरै सबकी काय ॥ तब
 नगन निवसें चौहटैं, अथवा नदीके तीर । ते
 साधु मेरे मन वसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ ७ ॥
 कर जोर भूधर बीनवे, कब मिलें वह मुनिराज ।
 यह आस मनकी कब फलै, मेरे सैंरें सैंगरे काज ॥
 मंसार विपम विदेशमें, जे विना कारण वीर । ते
 साधु मेरे मन वसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ ८ ॥

७४. विनती ।

(चौपाई १६ मात्रा ।)

जै जगपूज परमगुरु नामी, पतित उधारन
 अंतरजामी । दास दुखी तुम अति उपगारी,
 सुनिये प्रभु ! अरदास हमारी ॥ १ ॥ यह भव घोर
 समुद्र महा है, भूधर भ्रम-जल-पूर रहा है । अंतर
 दुख दुःसह बहुतेरे, ते बड़वानल साहिव मेरे
 ॥ २ ॥ जनम जरा गद मरन जहां है, ये ही प्रबल
 तरंग तहां है । आवत विपति नदीगन जामें, मोह
 महान मगर इक तामें ॥ ३ ॥ तिस मुख जीव पस्वो
 दुख पावै, हे जिन ! तुम विन कौन छुड़ावै ।

१ चौपटमैदान । २ सिद्ध होवें । ३ सब ।

अशरन-शरन अनुग्रह कीजे, यह दुख भेटि
मुकति मुझ दीजे ॥ ४ ॥ दीरघ काल गयो
विललावैं, अब थे मूल सहे नहिं जावैं । मुनि-
यत यों जिनशामनमाहीं, पंचम काल परमपद
नाहीं ॥ ५ ॥ कारन पांच मिलें जब सारे, तब
शिव सेवक जाहिं तुम्हार । तातैं यह विनती
अब मेरी, स्वामी ! शरण लई हम तेरी ॥ ६ ॥
प्रभु आगें चितचाह प्रकामों, भव भव श्रावक-
कुल अभिलासों । भव भव जिन आगम अव-
गाहों, भव भव भक्ति शरणकी चाहों ॥ ७ ॥ भव
भवमें सत संगति पाऊं, भव भव साधनके गुन
गाऊं । परनिंदा मुख भूलि न भाखूं, मैत्रीभाव
सबनसों राखूं ॥ ८ ॥ भव भव अनुभव आतमकेरा,
होहु समाधिमरण नित मेरा । जबलों जनम
जगतमें लाधों, काललवधि बल लहि शिव साथों
॥ ९ ॥ तबलों ये प्रापति मुझ हूजौ, भक्ति प्रताप
मनोरथ पूजौ । प्रभु सब समरथ हम यह लोरें,
भूधर अरज करत कर जोरें ॥ १० ॥

७५. नेमिनाथजीकी विनती ।

त्रिभुवनगुरु स्वामी जी, करुनानिधि नार्मी
 जी । सुनि अंतरजामी, मेरी वीनती जी ॥ १ ॥
 मैं दास तुम्हारा जी, दुखिया बहु भारा जी ! दुख
 मेटनहारा, तुम जादोपती जी ॥ २ ॥ भरम्यो
 संसारा जी, चिर विपति-भँडारा जी । कहिं सार
 न सारे, चहुँगति डोलियो जी ॥ ३ ॥ दुख मेरु
 समाना जी, सुख सरसों-दाना जी । अब जान
 धरि ज्ञान, तराजू तोलिया जी ॥ ४ ॥ थावर
 तन पाया जी, त्रस नाम धराया जी । कृमि कुंथु
 कहाया, मरि भँवरा हुवा जी ॥ ५ ॥ पशुकाया
 सारी जी, नाना विधि धारी जी । जलचारी
 थलचारी, उड़न पखेरु हुवा जी ॥ ६ ॥ नरक-
 नकेमाहीं जी, दुख ओर न काहीं जी । अति
 घोर जहाँ है, सरिता खारकी जी ॥ ७ ॥ पुनि
 असुर संघारें जी, निज वैर विचारें जी । मिलि
 बांधें अर मारें, निरदय नारकी जी ॥ ८ ॥ मा-
 नुष अवतारै जी, रह्यो गरभमँझारै जी । रटि
 रोयो जनमत, वारें मैं घनों जी ॥ ९ ॥ जो-

वन तन रोगी जी, कै विरहवियोगी जी । फिर
 भोगी बहुविधि, विरघपनाकी वेदना जी ॥१०॥
 सुरपदवी पाई जी, रंभा उर लाई जी । तहाँ
 देखि पराई, संपति झूरियो जी ॥ ११ ॥ माला
 मुरझानी जी, तब आरति ठानी जी । तिथि
 पूरन जानी, मरत विसूरियो जी ॥ १२ ॥ यों
 दुख भवकेरा जी, भुगतो बहुतेरा जी । प्रभु !
 मेरे कहते, पार न है कहीं जी ॥ १३ ॥ मि-
 थ्यामदमाता जी, चाही नित साता जी । सुख-
 दाता जगत्राता, तुम जाने नहीं जी ॥ १४ ॥
 प्रभु भागनि पाये जी, गुन श्रवन सुहाये जी ।
 तकि आयो अब सेवककी, विपदा हरो जी
 ॥ १५ ॥ भववास बसेरा जी, फिरि होय न
 मेरा जी । सुख पावै जन तेरा, स्वामी ! सो
 करो जी ॥ १६ ॥ तुम शरनसहाई जी, तुम
 सज्जनभाई जी । तुम माई तुम्हीं बाप, दया
 मुझ लीजिये जी ॥ १७ ॥ भूधर कर जौरे जी,
 ठाढ़ो प्रभु औरै जी । निजदास निहारो, निर-
 भय कीजिये जी ॥ १८ ॥

७६. विनती ।

(ढाल पग्मादी ।)

अहो ! जगतगुरु एक, सुनियो अरज ह-
 मारी । तुम हो दीन दयाल, मैं दुस्त्रिया संसारी
 ॥ १ ॥ इम भव वनमें वादि, काल अनादि
 गमायो । भ्रमत चहूँगतिमाहिं, सुख नहिं दुख
 बहु पायो ॥ २ ॥ कर्म महारिपु जोर, एक न
 कान करै जी । मनमान्यां दुख देहिं, काहूसों
 न डरै जी ॥ ३ ॥ कवहूँ इतर निगोद, कवहूँ
 नर्क दिस्वावैं । सुरनर पशुगतिमाहिं, बहुविधि
 नाच नचावैं ॥ ४ ॥ प्रभु ! इनके परमंग, भव
 भवमाहिं बुरे जी । जे दुख देखे देव !, तुमसों
 नाहिं दुरे जी ॥ ५ ॥ एक जन्मकी बात, कहि
 न सकौं सुनि स्वामी ! । तुम अनन्त परजाय,
 जानत अंतरजामी ॥ ६ ॥ मैं तो एक अनाथ,
 ये मिलि दुष्ट घनेरे । कियो बहुत बेहाल, सुनि-
 यो साहिब मेरे ॥ ७ ॥ ज्ञान महानिधि लूटि,
 रंक निबल करि डाखो । इनही तुम मुझमाहिं,
 हे जिन ! अंतर पाखो ॥ ८ ॥ पाप पुन्यकी

दोह, पाँयनि बेरी डारी । तन काराग्रहमाहिं,
मोहि दियो दुख भारी ॥ ९ ॥ इनको नेक वि-
गार, मैं कछु नाहिं कियो जी । विनकारन जग-
वंद्य !, बहुविधि वैर लियो जी ॥ १० ॥ अब
आयो तुम पास, मुनि जिन ! मुजम तिहारो ।
नीतनिपुन जगराय !, काजे न्याव हमारो ॥११॥
दुष्टन देहु निकाम, साधुनको रग्वि लीजे । विनवै
भूधरदास, हे प्रभु ! ढील न कीजे ॥ १२ ॥

७७. गुरुकी विनती ।

(राम-नरनरी । दोहा ।)

ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलधि
जिहाज । आप तिरें पर तारहीं, ऐसं श्रीऋषि-
राज ॥ ते गुरु० ॥ १ ॥ मोह महारिपु जीतिके,
छाँड़यो सब घरवार । होय दिगम्बर वन बसे,
आतम शुद्ध विचार ॥ ते गुरु० ॥ २ ॥ रोग-
उरग-बिल वँपु गिण्यो, भोग भुजंग समान ।
कदली तरु संसार है, त्यागो सब यह जान ॥
ते गुरु० ॥ ३ ॥ रतनत्रय निधि उर धरै, अरु

१ रोगरूपी सर्पका बिल । २ शरीर ।

निग्रन्थ त्रिकाल । मार्ग्यो काम खवीसको,
 स्वामी परम दयाल ॥ ते गुरु० ॥ ४ ॥ पंच महा-
 व्रत आदरें, पांचों सुमति समेत । तीन गुपति
 पालें सदा, अजर अमर पद हेत ॥ ते गुरु० ॥ ५ ॥
 धर्म धरें दशलक्षणी, भावें भावना सार । सहै
 परीसह बीस द्वै, चारित-तन-भँडा ॥ ते गुरु०
 ॥ ६ ॥ जेठ तपै रवि आकगे, सूखै सरवरनीर ।
 शैल-शिखर मुनि तप तपै, दाँडै नगन शरीर ॥
 ते गुरु० ॥ ७ ॥ पावस रैन डगवनी, वरसै जल-
 धर-धार । तरुतल निवसै साहमी, वाँजै झंझा-
 वार ॥ ते गुरु० ॥ ८ ॥ शीत पडै कपि-मद गलै,
 दाहै सब वनराय । ताल तरंगनिके तटै, ठाड़े
 ध्यान लगाय ॥ ते गुरु० ॥ ९ ॥ इहि विधि
 दुद्धर तप तपै, तीनों कालमँझार । लागे सहज
 सरूपमें, तनसों ममत निवार ॥ ते गुरु० ॥ १० ॥
 पूरव भोग न चितवै, आगम वांछा नाहिं ।
 चहुँगतिके दुखसों डरै, सुरति लगा शिव-

१ तेजीसे । २ जलावें । ३ चलती है । ४ बरसाती हवाको
 झंझा कहते हैं ।

माहिं ॥ ते गुरु० ॥ ११ ॥ रंगमहलमें पौढ़ते,
कोमल सेज विछाय । ते पच्छिमनिशि भूमिमें,
सोवै संवरि काय ॥ ते गुरु० ॥ १२ ॥ गज
चढ़ि चलते गरवसों, मेना सजि चतुरंग ।
निरखि निरखि पग वे धरें, पालें करुणा अंग ॥
ते गुरु० ॥ १३ ॥ वे गुरु चरण जहां धरें,
जगमें तीरथ जेह । सो रज मम मस्तक चढौ,
भूधर मांगै येह ॥ ते गुरु० ॥ १४ ॥

७८. पंचनमोकारमंत्रमाहात्म्यकी ढाल ।

श्रीगुरु शिक्षा देत हैं, सुनि प्रानी रे ! सुमर
मंत्र नौकार, सीख सुनि प्रानी रे ! लोकोत्तम
मंगल महा, सुनि प्रानी रे ! अशरन-जन-आधार,
सीख सुनि प्रानी रे ! ॥ १ ॥ प्राकृत रूप अ-
नादि है, सुनि प्रानी रे ! मित अच्छर पैंतीस,
सीख सुनि प्रानी रे ! पाप जाय सब जापतैं,
सुनि प्रानी रे ! भाष्यो गणघरईश, सीख सुनि
प्रानी रे ! ॥ २ ॥ मन पवित्र करि मंत्रको, सुनि
प्रानी रे ! सुमरै शंका छोरि, सीख सुनि प्रानी
रे ! वांछित वर पावै सही, सुनि प्रानी रे !

शीलवंत नर नारि, सीख सुनि प्राणी रे ! ॥३॥
विषधर-बाघ न भय करै, सुनि प्राणी रे ! विनसैं
विघन अनेक, सीख सुनि प्राणी रे ! व्याधि वि-
षम-विंतर भजैं, सुनि प्राणी रे ! विपत न व्यापै
एक, सीख सुनि प्राणी रे ! ॥ ४ ॥ कपिको शि-
खरसमेदपै, सुनि प्राणी रे ! मंत्र दियो मुनिराज,
सीख सुनि प्राणी रे ! होय अमर नर शिव वस्यो,
सुनि प्राणी रे ! धरि चौथी परजाय, साख सुनि
प्राणी रे ! ॥ ५ ॥ कह्यो पदमरुचि सेठने, सुनि
प्राणी रे ! सुन्यो बैलके जांव, सीख सुनि प्राणी
रे ! नर सुक्के सुख भुंजकै, सुनि प्राणी रे ! भयो
राव सुग्रीव, सीख सुनि प्राणी रे ! ॥ ६ ॥ दोनों
मंत्र सुलोचना, सुनि प्राणी रे ! विंध्यश्रीको जोड़,
सीख सुनि प्राणी रे ! गंगादेवा अवतरी, सुनि
प्राणी रे ! सर्प-डसी र्था सोइ, सीख सुनि प्राणी
रे ! ॥ ७ ॥ चारुदत्तपै वनिकने, सुनि प्राणी रे !
पायो कूपमँझा, सीख सुनि प्राणी रे ! पर्वत ऊ-
पर छौगने, सुनि प्राणी रे ! भये जुगम सु, सार,

सीख सुनि प्राणी रे ! ॥ ८ ॥ नाग नागिनी
जलत हैं. सुनि प्राणी रे ! देखे पासजिनिंद,
सीख सुनि प्राणी रे ! मंत्र देत तब ही भये, सुनि
प्राणी रे ! परमावति धरनेंद्र, सीख सुनि प्राणी
रे ! ॥ ९ ॥ चहलेमें हथिनी फँसी, सुनि प्राणी
रे ! खंग कीनों उपगार, सीख सुनि प्राणी रे !
भव लहिकै सीता भई, सुनि प्राणी रे ! परम
सती संसार, सीख सुनि प्राणी रे ! ॥ १० ॥
जल मांगै शूली चढ्यो, सुनि प्राणी रे ! चोर
कंठ-गत-प्राण, सीख सुनि प्राणी रे ! मंत्र सि-
खायो सेठने, सुनि प्राणी रे ! लह्यो सुरग सुख-
थान, सीख सुनि प्राणी रे ! ॥ ११ ॥ चंपापुरमें
ग्वालिया, सुनि प्राणी रे ! घोखै मंत्र महान,
सीख सुनि प्राणी रे ! सेठ सुदर्शन अवतर्यो,
सुनि प्राणी रे ! पहले भव निरवान, सीख सुनि
प्राणी रे ! ॥ १२ ॥ मंत्र महात्मकी कथा, सुनि
प्राणी रे ! नामसूचना एह, सीख सुनि प्राणी रे !
श्रीपुन्यास्रवग्रंथमें, सुनि प्राणी रे ! तारे सो सुनि

१ कीचड़में । २ विद्याधरने ।

५ भाग ३

लेहु, सीख सुनि प्रानी रे ! ॥ १३ ॥ सात-विसन
 सेवन हठी, सुनि प्रानी रे ! अधम अंजना चोर,
 सीख सुनि प्रानी रे ! सरधा करते मंत्रकी, सुनि
 प्रानी रे ! सीझी विद्या जोर, सीख सुनि प्रानी रे !
 ॥ १४ ॥ जीवक सेठ समोधियो, सुनि प्रानी रे !
 पापाचारी खान, सीख सुनि प्रानी रे ! मंत्र प्रतापें
 पाइयो, सुनि प्रानी रे ! सुंदर सुरग विमान, सीख
 सुनि प्रानी रे ! ॥ १५ ॥ आगें सीझे सीझि है, सुनि
 प्रानी रे ! अब सीझें निरधार, सीख सुनि प्रानी
 रे ! तिनके नाम बखानतैं, सुनि प्रानी रे ! कोई
 न पावै पार, सीख सुनि प्रानी रे ! ॥ १६ ॥ बैठत
 चित्तैं सोवतैं, सुनि प्रानी रे ! आदि अंतलों धीर,
 सीख सुनि प्रानी रे ! इस अपराजित मंत्रको,
 सुनि प्रानी रे ! मति बिसरै हो ! वीर, सीख सुनि
 प्रानी रे ! ॥ १७ ॥ सकल लोक सब कालमें, सुनि
 प्रानी रे ! सरवागममें सार, सीख सुनि प्रानी रे !
 भूधर कबहुं न भूलि है, सुनि प्रानी रे ! मंत्रराज
 मन धार, सीख सुनि प्रानी रे ! ॥ १८ ॥

७९. करुणाष्टक ।

करुणा ल्यो जिनराज हमारी, करुणा ल्यो ॥
 टेक ॥ अहो जगतगुरु जगपती, परमानंदनिधान ।
 किंकरपर कीजे दया, दीजे अविचल थान ॥
 हमारी० ॥ १ ॥ भवदुखसों भयभीत हों, शिवपदवां-
 छा सार । करो दया मुझ दीनपै, भवबंधन निर-
 वार ॥ हमारी० ॥ २ ॥ पखो विषम भवकूपमें, हे
 प्रभु ! काढ़ो मोहि । पतितउधारण हो तुम्हीं, फिर
 फिर विनऊं तोहि ॥ हमारी० ॥ ३ ॥ तुम प्रभु पर-
 मदयाल हो, अशरणके आधार । मोहि दुष्ट दुखदेत
 हैं, तुमसों करहुँ पुकार ॥ हमारी० ॥ ४ ॥ दुःखित
 देखि दया करै, गाँवपती इक होय । तुम त्रिभुव-
 नपति कर्मतैं, क्यों न छुड़ावो मोय ॥ हमारी०
 ॥ ५ ॥ भव-आताप तबै भुजैं, जब राखों उर
 धोय । दया-सुधा करि सीयरा, तुम पदपंकज
 दोय ॥ हमारी० ॥ ६ ॥ येहि एक मुझ वीनती,
 स्वामी ! हर संसार । बहुत घज्यो हूं त्रासतैं,
 विलख्यो वारंवार ॥ हमारी० ॥ ७ ॥ पैदमनंदिको

१ श्रीपद्मनन्दिआचार्यकृत पंचविंशतिकाके करुणाष्टकका आशय लेकर ।

अर्थ लें, अरज करी हितकाज । शरणागत
भूधरतणी, राखौ जगपति लाज ॥ हमारी० ॥८॥

८०. गजल ।

रखता नहीं तनकी खबर, अनहद बाजा बा-
जिया । घटबीच मंडल बाजता, बाहिर सुना तो क्या
हुआ ॥ १ ॥ जोगी तो जंगम सेवड़ा, बहु लाल
कपड़े पहिरता । उस रंगसे महरम नहीं, कपड़े रंगे
तो क्या हुआ ॥ २ ॥ काजी कितावें खोलता,
नसीहत बतावै औरको । अपना अमल कीन्हा
नहीं, कामिल हुआ तो क्या हुआ ॥ ३ ॥ पोथीके
पाना बांचता, घरघर कथा कहता फिरै । निज
ब्रह्मको चीन्हा नहीं, ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ
॥ ४ ॥ गांजारुभांग अफीम है, दारू शराबा पो-
शता । प्याला न पीयाप्रेमका, अमली हुआ तो
क्या हुआ ॥ ५ ॥ शतरंज चौपरगंजफा, बहु
मर्द खेलै हैं सभी । बाजी न खेली प्रेमकी, ज्वारी
हुआ तो क्या हुआ ॥ ६ ॥ भूधर बनाई वीनती,
श्रोता सुनो सब कान दे । गुरुका वचन माना
नहीं, श्रोता हुआ तो क्या हुआ ॥ ७ ॥

पद भजनोंकी पुस्तकें ।

- जैनपदसंग्रह प्रथम भाग, पं० दौलतरामजीके १२४ पदोंका संग्रह । ॥)
- जैनपदसंग्रह द्वितीय भाग, पं० भागचन्दजीके ८७ पदोंका संग्रह । ॥)
- जैनपदसंग्रह तृतीय भाग, भूधरदासजीके पद और बिनतियोंका संग्रह । ॥)
- जैनपदसंग्रह चतुर्थ भाग, कविवर दानतरायजीके ३२३ पदोंका संग्रह । १)
- जैनपदसंग्रह पांचवां भाग, कविवर बुधजनजीके २३३ पदोंका संग्रह । ॥)
- जिनेश्वरपदसंग्रह—पं० जिनेश्वरदासजी पदोंका संग्रह ॥)
- जैन सुरस पदें—हीराचन्द अमोलिककृत । ॥)
- सुखसागर भजनावली—ब्र० शीतलप्रसादजी कृत १ ।)

इनके सिवाय न्यामतसिंहजी कृत गायनकी सब पुस्तकें और सब जगहके छपे हुए जैन ग्रन्थ हमारे यहां पर हर समय तैयार मिलते हैं । विशेष जाननेके लिए बड़ा सूचीपत्र भंगाहये ।

मिलनेका पता:—

जैन ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय

हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई ।

रथवीर *

गायन गोष्ठी.



लेखक । प्रकाशक—

चन्द्रसेन जैन वेद्य-इटावा

चतुर्थवार
१०००

सन् १९३६

{ मूल्य -)
{ एकड़डा ५०)

वा. पन्. प्रेस इटावा में छपी ।

❀ जयवीर ❀

गायन गोष्ठी ।



१-प्रार्थना (ईमन)

डूबत नैया मोरी पार लगादो ॥ टेक ॥

मोह निशा अंधियारी कारी, ज्ञान प्रकाश कगदो ॥ १ ॥
कषाय बयार बहे अति भीषण, सम पतवार लगादो ॥२॥
गहरी नदिया नाव भांझरी, अब नष्ट पर पहुँचा दो ॥३॥
भ्रमन रे मोहि बहु दिन बीते, शुभ मार्ग यतला दो ॥४॥
तुम गुण ध्याऊं अन्त न जाऊं, आप समान बनादो ॥५॥

२-प्रार्थना (गजल)

सुख शान्ति विधायक वीर प्रभू, आदर्श तुम्हीं हिनकर्ता हो ।
जगदीश विज्ञ विन राग द्वेष, तुम्हीं जग सङ्कट हर्ता हो ॥१॥
जा आत्मनिधी को भूल रहे, हो दीन दुखी कङ्काल बने ।
अक्षय निधि आत्मज्ञान देकर, थीमान् सुसम्पति कर्ता हो ॥२॥
सब जीवों के हिन मोक्ष मार्ग, का निस्पृह हो उपदेश दिया ।
बिन भेद भाव भूले भटके, सब जन के मङ्गल कर्ता हो ॥३॥
पूजक पूज्य का भेद मिटा, तुम आप समान बनाने हो ।
नीचानि नीचको उच्च बना, समभाव प्रदर्शित कर्ता हो ॥४॥
तुम गुण गण में हम रमण करें, निज निबंलता को दूर करें ।
आत्म बल दो हम विजय करें, बलशाली तुम जय कर्ता हो ॥५॥

३-प्रार्थना (तर्ज पंजाबी)

सुना जा, सुना जा, सुना जा महावीर; हितकार बानी सुना
जा महावीर ॥ टंक ॥ समता सानो शिव सुख दानी, सुना
जा, सुना जा, सुना जा महावीर हित० ॥

चिपय चाह दावानल दाहो, मिटाजा, मिटाजा, मिटाजा
महावीर ये भव पीर मिटाजा महावीर ॥ १ ॥

चहुंगनि में चिरकाल भ्रमों में, दिग्वाजा, दिग्वाजा, दिग्वाजा
महावीर अब भव तीर दिग्वाजा महावीर ॥ २ ॥

पर में रचि निज रूप भुलानो, बनाजा, बनाजा, बताजा
महावीर आनम रूप बनाजा महावीर ॥ ३ ॥

आनमपद परमानम पावे, बनाजा, बनाजा, बनाजा महावीर
आप समान बनाजा महावीर ॥ ४ ॥

४-प्रार्थना (गजल)

तुमहीं निर्बल के बल दाता, महावीर प्रभू महावीर प्रभू ।
मङ्गल कर्ता सङ्कट हर्ता, महावीर प्रभू महावीर प्रभू ॥१॥
चहुँदिश में हिंसा छाय रही, जब हाहाकार पुकार मर्चा ।
उपदेश अहिंसा परम धर्म, देकर रक्षा की वीर प्रभू ॥२॥
भय ऊंच नीचका दूर किया, सबहीको हित उपदेश दिया ।
उन्नत पथ धर्म बताय दिया, स्वाधीन किया महावीर प्रभू ॥३॥
जग के कर्ता ना हर्ता हो, इक मार्ग प्रदर्शित कर्ता हो ।
निज कर्मसे बंधना खुलता है, इक कारण केवल वीर प्रभू ॥४॥

हम धीर वीर विद्वान बनें, अन्याय बनीत के शत्रु बनें ।
निज तेश जातिके मित्र बनें, आतम बलदायक वीर प्रभू ।५।
हम लालच से न धिग जावें, शङ्का भय से ना डर जावें ।
बिन स्वाराथ सेवा कर जावें, आदर्श हमारा वीर प्रभू ॥६॥

५—परिचय गान ।

जैन युवक सङ्गठन हमारा ॥ टेंक ॥
दीन दुखी का दुःख मिटावें, पतिनों के अब शीघ्र उठावें ।
सब जग में हो भाई चारा ॥ १ ॥
अत्याचार अनीति नसावें, जग में व्यापक क्रान्ति मचावें ।
समता न्याय बहावें धारा ॥ २ ॥
सब में बन्धु भाव फैलावें, प्रेम विजय करके दिखलावें ।
मङ्गल मय कर्त्तव्य हमारा ॥ ३ ॥
हितकारी शुभ आनन्दकारी; जैन धर्म जग में बिस्तारी ।
यही उच्चतम ध्येय हमारा ॥ ३ ॥

६—जैन-युवक-सङ्घ का भगडाभिवादन ।

केशरिया शुभ स्थितिक धारा, भगडा जैन धर्मका प्यारा ॥ टेंक ॥
आतम शक्ति बढ़ाने वाला, जीवों को तर्पाने वाला ।
प्रेम-सुधा की अक्षय धारा, भगडा जैन ० ॥ १ ॥
धर्म-समाज क्रान्तिके रण में, लम्ब उन्माहित हो मन धरामें ।
मिट जावे शङ्का-भय सारा, भगडा जैन ० ॥ २ ॥
इस भगडेके नीचे निर्मय, विश्व अर्णानि मिटावे निश्चय ।
सुख शान्ती मय हो जग सारा, भगडा जैन ० ॥ ३ ॥

नहीं प्रतिष्ठा इसकी जावे, चाहे प्राण भले ही जावे ।
जैन धर्म मय हो जग सारा, भएडा जैन० ॥ ४ ॥
आओ प्यारे सब जन आओ, जैनधर्म पर बलि २ जाओ ।
बोलो महावीर जयकारा, भएडा जैन० ॥ ५ ॥

७—जैन-युवक-सङ्घ का नित्य गायन ।

यह जिन धर्म हमारा प्यारा ॥ टेक ॥ :

आत्म धर्म यह निर्भयकारी, बड़े मनोबल शङ्काहारी ।
हो निर्भय यह हृदय हमारा, यह जिन० ॥ १ ॥
बिन कांक्षा उपकार करें हम, बदन की इच्छा न करें हम ।
निःकांक्षित सब कर्म हमारा, यह जिन० ॥ २ ॥
घृणित दुग्धित से घृणा न करने, घृणा अवशि पापों से करने ।
निर्वि चिकित्सक भाव हमारा, यह जिन० ॥ ३ ॥
धर्म नीति से जो डिग जावे, उनको सत्-मारग बतलावे ।
आश्रय-दाता मित्र हमारा, यह जिन० ॥ ४ ॥
बिन विचार हम पग नहिं धरते,अन्ध मार्ग विश्वास न करते ।
सुखदायक दृढ़ निश्चय सारा, यह जिन० ॥ ५ ॥
सब में बन्धु-भाव फैलावें, समता-भाव सुधा बर्पावें ।
सब जग का यह प्रेमी प्यारा, यह जिन० ॥ ६ ॥
विश्व निर्मित अज्ञान हटावें,जिन बन्ध गविकर प्रगट करावे ।
जैन धर्म-मय हो जग सारा, यह जिन० ॥ ७ ॥

जैन धर्म के विषय में—

८-गुजल ।

भारत में फिर से होगा जिन धर्म का उजावा ॥ टेक ॥
कर्त्ता बना के ईश्वर कायर जगत बनाया ।
आतम के बल से होगा फिर आन-दान वाला ।१।
मिट जायगी गुलामी समता का भाव होगा ।
भय ऊंच-नीच का अब होगा न भेद काला ।२।
रव का फ़ज़ल सिफारिश कोई नहीं चलेगी ।
अपने ही बल से होगा दुनियां में बोल-वाला ।३।
भगवान् सबके होंगे नहीं भेद भाव होगा ।
हितकारी दीन-बन्धू वह होगा वीर आला ।४।
वो ही धरम रहेगा जो जीव-मात्र का हो ।
नहिं टिक सकेगा अब वह असमान भेद वाला ।५।

९-गजल ।

ये हैं सबसे निराला आला जिन-धर्म हमारा प्यारा ॥ टेक ॥
ना कोई कर्त्ता ना कोई हर्त्ता, आपही कर्त्ता आप ही हर्त्ता ।
आपही बने काटने वाला ॥ १ ॥
नहीं सिफारिश इसमें चलती, मुक्ती देने से नहीं मिलती ।
खुद को खुदा बनाने वाला ॥ २ ॥
सुख शान्ती के चाहने वालो, धीर के भरडे नीचे आओ ।
ये ही सच्चा मित्र तुम्हारा ॥ ३ ॥

१०-गजल ।

(आत्मा ही परमात्मा हो जाता है)

ईश्वर को खुदाको ढूँढ़ने हो वह कैसे मिलेगा कहीं भी नहीं ।
मन्दिर में नहीं मस्जिद में नहीं गिर्जे में नहीं मक्के में नहीं ॥
वेदों में कुरानमें शास्त्रों में जरदुस्त में औ बाइबिल में नहीं ।
पूरब में नहीं पश्चिम में नहीं दक्षिण में नहीं उत्तर में नहीं ॥
सूरज चांद सितारों में पर्वत में नहीं सागर में नहीं ।
पानी में हवा में अग्नी में मिट्टी में नहीं पत्थर में नहीं ॥
ज्ञानाकर सुख का सागर ज्ञाता दृष्टा औ चिन्मूरत ।
अगतम परमातम होजाता घट में ही छिपा है कहीं न कहीं ॥

११-गजल ।

(भगवान् कुछ लेते देते नहीं)

तू सामने किसके पुकार रहा वहां सुनने वाला कोई नहीं ।
पूजा स्तुति चाहे जो करो खुश होने वाला है ही नहीं ॥ १ ॥
होकर कृत-कृत्य चले वो गये अपने आदर्श को छोड़ गये ।
रस्ता तो पड़ा ये सामने है पहुंचाने वाला कोई नहीं ॥ २ ॥
तू खुद ही खुलता बंधता है सुख दुखका खुद ही कर्ता है ।
बोबोगे बबूल तो आम कहां कोई देने वाला है ही नहीं ॥ ३ ॥
अमिरत का सागर भर के गये और ठिकाना बताय गये ।
तड़फा कर चाहे व्यास बुझा है कोई पिलाने वाला नहीं ॥४॥

१२-आध्यात्मिक, चाल गारी ।

अब सुनियो चेतनराय सुमति की सीख भली ॥ टेक ॥
यह कुमति सौत संग पाय भ्रमें तुम गली गली ।
चिरकाल चतुर्गात माहिं भूलि के राह भली ॥ १ ॥
विच मिले सुगुरु हितकार सुनाई जिनबानि भली ।
पर परणति पर घर त्याग छांडि के मोह लली ॥२॥
शुभ रंग महल में आउ दिखाऊं समकित बखरी ।
निज ध्यान पलंग पर बैठ चखाऊं अनुभव मिसुरी ॥३॥

१३-जैनी किसे कहते हैं ? (कलांगड़ा)

जैनी जन हैं वही जगन में पीर पराई जाने ॥ टेक ॥
पर उपकार लीन निश दिन जो आतम सम जग जाने ।
पर पीड़ा लखि दुखित सुखी लखि अपनो ही सुख माने ॥१॥
सब जीवों में समता राखे ऊंच नीच नहिं जाने ।
निर्भय स्वार्थ रहित विन मद जो पर सेवा ब्रत ठाने ॥२॥

१४-गजल ।

हमने डंका इसी जिन धर्म का बजते देखा ।
चौ तरफ इसका मिनारा भी चमकते देखा ॥ १ ॥
इसके भण्डे के तले लाखों को आते देखा ।
ऊंच और नीच को भी दिल से लगाते देखा ॥ २ ॥
अपने बर्ताव से इन सबको रहम दिल देखा ।
भलाई दूसरों की करते धरम दिल देखा ॥ ३ ॥

बाद जां इसके जमाने को पलटते देखा ।
धर्म और कर्म की बातों को उलटते देखा ॥ ४ ॥
इनके ही जुल्म से बहुतों को निकलते देखा ।
इसी जिन धर्म से लाखों को फिसलते देखा ॥ ५ ॥
धर्म के इन्हीं ठेकेदारों को छलने देखा ।
बिचारी बेवाओं को उनसे कुचलने देखा ॥ ६ ॥
जाल से पण्डितों के धन को लुटाने देखा ।
भेपियों के सबब मज्जन को पिटाने देखा ॥ ७ ॥
हवा के रुख पे मन्त्र को पीठ बदलते देखा ।
मगर इन कष्टों को टस न मस करने देखा ॥ ८ ॥

— ० —

मङ्गलन के विषय में—

१५—गजल ।

संगठन कौम का रहनुमा होगया ॥ टेक ॥
इक जगह मिल के सब बैठ सकने नहीं । काम बिगड़ा हुआ
जोड़ सकते नहीं ॥ बुजदिली का असर ये असर अलग हागया
॥ १ ॥ हम आपस के रंजो अलम मिट गये । बिछुड़े भाई से
भाई गले मिल गये ॥ तन जुदा दोनों पर एक दिल होगया
॥ २ ॥ हम अमन सैन दुनियां में फैलायेंगे । धीर बाणी को घर
२ में पहुँचायेंगे ॥ सबसे दिल में ये जोशे जुनूँ होगया ॥ ३ ॥

१६—गजल ।

हां हां मिलकर बैठो तो बेड़ा पार हो ॥ टेक ॥
हां हां मिलकर आपस में भेद रखें ना-
हां हाँ मिलकर धर्म का भाई चार हो ॥१॥
हां हां मिलकर भाव मेष औं भाषा-
हां हां मिलकर भोजन भी इकसार हो ॥२॥
हां मिलकर खोटी रीति मिटावें-
हां हां मिलकर जैन धर्म परचार हां ॥३॥
हां मिलकर वीर प्रभू कें मानी-
हां हां मिलकर आपस में प्रेम पिआर हो ॥४॥
हां हां मिलकर सबको संदेश सुनावें-
हां हां मिलकर सत्य का जय जयकार हो ॥५॥

१७—थियेट्रीकल ।

वह दिन ऐसा जल्दी ही आयगा ॥ टेक ॥
आपस का भेद सभी मिट जायगा ।
भाई से भाई गले लग जायगा ॥ १ ॥
घर की खोटी रीति नसायगा ।
हितकर प्रीति सुरीति बढ़ायगा ॥ २ ॥
नफरत द्वेष सभी मिट जायगा ।
प्रेम सुधारस पान करायगा ॥ ३ ॥
पोल बनाघट का खल जायगा ।
धर्म का असली रूप दिखायगा ॥ ४ ॥

भेषिन का पर्दा हट जायगा ।
सब झूठी को मार भगायगा ॥ ५ ॥
जिन वाणी बादल बरसायगा ।
जैन धरम उपवन लहरायगा ॥ ६ ॥

१८—दादरा ।

सब मिल जावेंगे आज दिन ॥ टंक ॥
धर्म का भाई चार रहेगा, वीर कहलावेंगे ॥ आज० ॥ १ ॥
एक ही जाति वीर बनेगी, भेद मिट जावेंगे ॥ आज० ॥ २ ॥
मानी वीर प्रभू के बारह, लाख बतावेंगे ॥ आज० ॥ ३ ॥
सब मिल द्वेष फूट डारन के, मार भगावेंगे ॥ आज० ॥ ४ ॥
भूले भटके बन्धु हमारे, निज घर आवेंगे ॥ आज० ॥ ५ ॥
संगठन ही से नीचे मस्तक, ऊंचे हो जावेंगे ॥ आज० ॥ ६ ॥
जग में वीर प्रभू का भगड़ा, फिर फहरावेंगे ॥ आज० ॥ ७ ॥

१९—दादरा ।

सब जन मिल बैठो भेद को तजो ॥ टंक ॥
न्यारी न्यारी टपली पर क्यों न्यारो ही राग बजे ।
एक ही राग एक ही धुनि में एकही साज सजे ॥ सब० ॥१॥
वीर प्रभू के मानी अहिंसा एक ही धर्म धरा ।
फिर क्यों जातिपांति का भगड़ा बीच में आन परा ॥ सब० ॥२॥
खान पान सब शुद्ध एकसा जैनी नाम धरा ।
फिर क्यों रोटी बेटी न्यारी यह क्या भेद परा ॥ सब० ॥३॥

भूले भटकों का क्यों नहीं स्थिति करण किया ।
भूटे कुल जाती के मद में धक्का और दिया ॥ सब० ॥ ४ ॥
जैन जाति के एक नाम की एक ही जाति बनो ।
ऊँच नीच का भूत भगाकर सब्बे घोर बनो ॥ सब० ॥ ५ ॥

२०—गजल ।

रखो लाज अब वीर के नाम की है ।
नहीं सम्प्रदायों के काम की है ॥ १ ॥
दिगम्बर श्वेताम्बर स्थान वासी ।
करें भावना उनके जो काम की है ॥ २ ॥
घर घर में अपने रहे अपने में खुश ।
पुकार तो सब वारहों लाखकी है ॥ ३ ॥
समाज में जीवन में आपद त्रिपद में ।
जरूरत अभी संगठित काम की है ॥ ४ ॥
भाई का भाई गला काटने हैं ।
नही शर्म क्या अपने इस कामकी है ॥ ५ ॥
पड़ी सबको है दुनियाँ में संगठन की ।
हमें है पड़ी अपने ही नाम की है ॥ ६ ॥
ये है प्रश्न जैनों के जीवन मरन का ।
नहीं बात ये अपने ही काम की है ॥ ७ ॥

२१—कठ्वाली ।

संगठन एक दिन ऐसा हो जायगा ।
भेद आपस का काफूर हो जायगा ॥ १ ॥

फूट आतिश से मुरझाया जातीय गुल ।
पाक आवे मुहब्बत से खिल जायगा ॥ २ ॥
बहती नदियां हजारों जो हैं जानियां ।
मिलके एक जां समन्दर वो बन जायगा ॥ ३ ॥
रंशे रंशे पड़े जो जुदा ही जुदा ।
मिलके रम्मा बने हाथी बंध जायगा ॥ ४ ॥
देखने हैं द्विकारन से इक दूसरे !
दूध पानी सा हम जिम्म हो जायगा ॥ ५ ॥
आज दुश्मन बना एक का दूसरा ।
वही कल गले से लिपट जायगा ॥ ६ ॥

२२—थियेटीकल ।

जाति प्रेम का पिला दे प्याला बनादे मतघाला ।
तूं ला ला ला ला ॥ जाति० ॥ टेक ॥
तूं पैसा मद पिला, यह अपनापा भुला ।
यकता का रंग ला, इक रंग में मिला ॥
तूं ला ला ला ला ॥ जाति० ॥ १ ॥
अय साकी वह पिला, मुरझाया दिल खिला ।
हम सब को दे मिला, मग्ने हुये जिला ॥
तूं ला ला ला ला ॥ जाति० ॥ २ ॥
कोई कहे बुग, परवा नहीं जरा ।
सकता नहीं डरा, गहरा नशा करा ॥
तूं ला ला ला ला ॥ जाति० ॥ ३ ॥

२३—दादरा ।

संगठन अगर हो जाये तो बेड़ा पार हो ॥ टेक ॥
सहधर्मों को भाई समझो, सब बातों का अधिकारी समझो ।
भय ऊँच नीच मिट जाये तो बेड़ा पार हो ॥ १ ॥
तीन फिरके बने हैं हमारे, सब वीर प्रभू के हैं प्यारे ।
मिल बैठे समाज में तीनों, तो बेड़ा पार हो ॥ २ ॥
सब जाती बने एक जाती, वीर जाती हो या जैन जाती ।
यह जाती भेद मिट जाये तो बेड़ा पार हो ॥ ३ ॥
जो बिछुड़े हैं बन्धु हमारे, हमसे दूरी पै रहने हैं न्यारे ।
सब आँके गले लग जायें तो बेड़ा पार हो ॥ ४ ॥
यह समता कराने वाला, सबको ऊँचा उठाने वाला ।
महावीर का झण्डा उठावें तो बेड़ा पार हो ॥ ५ ॥

२४—दादरा भैरवी ।

फूट का पीकर प्याला बना मतवाला ॥ टेक ॥
देखो हंसती दुनियाँ सारी, अपने हाथों बात बिगारी ।
घर खण्डहर कर डाला, बैठा ठाला ॥ १ ॥
घर के भाई निकाले जायें, बाहर से ना आने पायें ।
आप बना है आला, निज घर घाला ॥ २ ॥
देखो कैसा है मस्ताना, भाई रोवे गावे गाना ।
कुमति निराली वाला, जादू डाला ॥ ३ ॥

२५—मल्हार ।

कौन घड़ी शुभ दिन छिन आवैं मिलिहैं बन्धु हमार रे ॥टेका॥
प्रीषम फूट भयानक आतप देखि गये पर गांव रे ।
अबनो पावस मिलन सुहावन क्यों नहिं निज घर आवरे ॥१॥
प्रेम पिआर संगठन बादल गिम भिम करत फुआर रे ।
द्वेष की नदिया बही जात है अब आओ इस पार रे ॥ २ ॥
बिगही हृदय पपीहा कायल आवत कूक सुनाइ रे ।
हिलि मिल जैन धरम तरु भूले प्रेम हिंडोल डराइ रे ॥ ३ ॥

२६—दादरा पीलू ।

अब आओ जी सुजन हम सब मिल जांय ॥ टेक ॥
भेद भाव छांडे आपस का सब सधर्मी गले लग जांय ॥१॥
दूर २ की नीति त्याग के जैन जाति का पाप नसांय ॥२॥
सब हितकारी वीर प्रभू का जैन धरम घर २ पहुँचांय ॥३॥

२७—दादरा भैरवी ।

आज मिली मोहि प्रेम नगरिया ॥ टेक ॥
बहुत दिननते बिछड़े भाई आज बंधे सब प्रेम रसरिया ॥१॥
अबतक फूट हलाहल चाखे आज मिली अमरितकी गगरिया ।२।
बहुत दिननते भूले भटके आज मिली मोहि सुगम डगरिया ।३।
अबतक साज अनेकन बाजे आज बजी मोरी प्रेम वंसुरिया ।४।

जैन जाति के विषय में—

२८—गजल ।

कोई क्या जाने किसी का दर्द दिल ।
वो ही जाने जिसके दिल में दर्द दिल ॥ १ ॥
तन को कपड़े हैं न खाना पेट भर ।
हाल पुरसां जानकारे दर्द दिल ॥ २ ॥
बेचार्ये बेकस विचारीं बे जुवां ।
कौन जाने सर्द आहें दर्द दिल ॥ ३ ॥
कौम के मामूम बच्चे दर व दर ।
फिरते मरते और सहते दर्द दिल ॥ ४ ॥
कौम का इस हाल से सीना फिगर ।
उम्र घटती बढ़ रहा है दर्द दिल ॥ ५ ॥
नां जवानो कौम की सुन लो फुगां ।
अब सहा जाता नहीं ये दर्द दिल ॥ ६ ॥

२९—गजल ।

कौम की हालत बयां हमसे की जाती नहीं ।
टीस जो दिल में उठी अब सही जाती नहीं ॥१॥
भूखे औ नंगे बदन लाखों ही तड़फा किये ।
देख कर उनकी दशा तुमको दया आती नहीं ॥२॥
बेचार्ये बेकस हुईं आठ आंखू रो रहीं ।
शर्म से हालत बयां उनसे की जाती नहीं ॥३॥

बिछुड़े हुये भाई हैं जो दूर हमसे हो गये ।
उनसे मिलने की कभी कोई घड़ी आती नहीं ॥४॥
गर्जी बिचारेंगे रहे फर्जी कभी सुनने नहीं ।
अर्जी देकर रह गये मर्जी हो पाती नहीं ॥५॥

३०-चाल गारी ।

(वर्तमान मुनि, पण्डित और गृहस्थों का स्वरूप)
अब देखो सांच बिचार दशा कैसी बिगड़ी ॥ टुक ॥
साधू भेषी बने स्वार्थी अभिमानी अज्ञानी ।
उलटी पुलटी राह बताने घर जानी मनमानी ॥ १ ॥
दान हमारे से पढ़ पण्डित हुये उपाधी धारी ।
सांची बात कहें ना करते मिथ्या भाषण गारी ॥ २ ॥
भोले भाली नर नारी ये भेड़ धम्मान मचाते ।
अपने पांव कुल्हाड़ी मारें फिर पीछे पछताने ॥ ३ ॥

३१-गजल ।

दुनियां में देखो कैसा अन्धेग हो रहा है ।
जानी की गर्दनों पर शमसेर हो रहा है ॥ १ ॥
अपने को पंच बनकर ईश्वर का अंश कहता ।
भूठी न कहने डरना ज़र जेब हो रहा है ॥ २ ॥
मुनि भेषी धर्म खण्डित मतलब का यार पंडित ।
घर वाला रूढ़ि मंडित क्या फेर हो रहा है ॥ ३ ॥
अनमेल शादियों से बेवा खराबियों से ।
कौमी वतन हमारा खंडहेर हो रहा है ॥ ४ ॥

जो भाई हैं हमारे वे धर्म बन्धु प्यारे ।
झगड़े में जाति पांती के गैर हो रहा है ॥५॥
समता कराने वाला ऊँचा उठाने वाला ।
जिन धर्म का सहारा वे पैर हो रहा है ॥६॥

३२—दादरा

चहुँ ओर सुधारक दल की अब चमक बीजुली आई ॥ टेक ॥
आपस का भेद मिटाया, भाई को गले लगाया ।
सब युवक मंगलन करती अब चमक बीजुली आई ॥१॥
मुनि भेषी स्वार्थ कुठली, पंडित दल की कठपुतली ।
उनको भद्रग नचानी अब चमक बीजुली आई ॥२॥
नूतन बहु ग्रंथ बनाये, निज गोवर ग्रंथ चलाये ।
पण्डित मन खंडित करती अब चमक बीजुली आई ॥३॥
निज ज्ञान नेत्र कर अन्धे चलते पड़ने बहु फन्दे ।
उनको उजियाला करती अब चमक बीजुली आई ॥४॥
तम जाली ग्रंथ नसाया, सत धर्म उजाला छाया ।
पाखंड कुदंभ नसाती अब चमक बीजुली आई ॥५॥

३३—गजल

जबानो कैंसी मुसीबतों में हमारे भाई पड़े हुये हैं ।
पड़ी हैं बेड़ी ये रूढ़ियों की गलेमें फँदे पड़े हुये हैं ॥१॥
ये मेले ठेले बड़ी प्रतिष्ठी कचौड़ी लड्डू मरेका जीमन ।
बिवाह शादी फिजूल खर्चे हमारे मत्थे मढ़े हुये हैं ॥२॥

ये मतलबी साधु भेषियों के सुशामदी भूटे पण्डितों के ।
हिता के नाशक ये दोनों के दल गले हमारे पड़े हुये हैं ॥३॥
बहुत से जाली धरम से खाली स्वार्थ पोषक बनाये पुस्तक ।
भुलाने वाले फसाने वाले बहुत से जाले पड़े हुये हैं ॥४॥
वे खौफ होकर बजाश हिम्मत मैदानों आधो निकल के बाहर ।
इन्हें छुड़ाओ ये मुदतों से तुम्हारे दर पे खड़े हुये हैं ॥५॥

३४—दादरा भैरवी

(गरीब गृहस्थ की पञ्चों के प्रति)

पत राखो न राखो तुम्हारे मरजी ॥टेक॥

हाथ जोड़कर विनय करत है हमनो तुम्हारे गरीब गरजी ॥१॥
बेटी चार व्याह को बेटा हम निरधन है बहुत करजी ॥२॥
हमरी खान मुने न कोई बहुत दिनन तें करी अरजी ॥३॥
हमरी आंग कृपा कर निरखो अब न यनो कपटी फरजी ॥४॥

३५—होली कार्फी ।

मनचालन कैसा होली मचाई ॥टेक॥

लाखन प्रतिमा धरी मन्दिर में ठोक न होत समाई ।

इक इक भाग परगी दश दश तो ह प्रतिष्ठा कराई ॥

वृथा धन देत लुटाई ॥ मत० ॥ १ ॥

स्वारथ काज मिले भेषिन संग मनमानी कहलाई ।

नूतन ग्रन्थ बनाय अनेकन गोबिन्द पन्थ चलाई ॥

अखियन धूल उड़ाई । मत० ॥ २ ॥

सोने कांच मढ़ाय मन्दिरन साज अनेक सजाई ।
वीतराग विज्ञान नशाबहि चित भ्रम देत कराई ॥
नाम हित कलु न सुभाई ॥ मत० ॥ ३ ॥
बूढ़े संग विवाहि बालिका थैली लेत भराई ।
बड़ी बह संग छोटे व्याहें बड़े भाग जसु पाई ॥
आप रस रंग उड़ाई ॥ मत० ॥ ४ ॥
पूजा रचि ज्यौनार करावें मरनेहु देत जिमाई ।
रंडी मडुआ आतिशवाजी व्याह में धनहि लुटाई ॥
जाति हित खचें न पाई ॥ मत० ॥ ५ ॥
न्यारी न्यारी ढपली बाजे न्यारी ही राग मुनाई ।
मुनत न कोई नृता की धुनि बाज रही शहनाई ॥
चेत अब राम दुहाई ॥ मत० ॥ ६ ॥

३६--होली ।

इन सबको समाय रही होली स्त्री मनक ।
समझाय रही नहि माने तनिक ॥ इन० ॥ टुक ॥
जैन धरम की मरम न जाने रुढ़िन मानें धरम मनक ॥ १ ॥
कथा पुराण मुनत हर्षावत कान परे न सत धरम भनक ॥ २ ॥
वीतराग विज्ञान न जावें ये चाहत हैं चमक दमक ॥ ३ ॥
मंदिर साज अनेक सजावें अपनी गान दिग्वावें धनिक ॥ ४ ॥
मेला और प्रतिपडा करावें जानी द्वितमानों लागी पिनक ॥ ५ ॥
कोई बने मुनि कोई पंडित अपनी र वनावें वनक ॥ ६ ॥
ऊपर फूले फिरत सभी जन कोट न जाने मन की कस ॥ ७ ॥

३७-रमिया ।

चहुँ दिशि में आज मन्त्री होरी ॥ टेक ॥

मनमानी सब करत आपनी लाज शर्म सबने छोड़ी ॥१॥
मुनि भेषी अरु गोचर पंथी कैसी सुघड़ जुगल जाड़ी ॥२॥
एक ने भेष बनाय दिखायो रीझ गई जनता मोरी ॥३॥
दूजे ग्रन्थ बनाइ अनेकन इत उतते करके चोरी ॥४॥
सोने काँच सजाय मंदिरन रीतगगना रंग बोरी ॥५॥
रुन्या क्रय रुजगार बनायो द्रव्य क्रमायो भर भोगी ॥६॥
बालक हतन पुकार मर्चा रस रंग रची विधवा गोरी ॥७॥
बूढ़े संग नवयुवनी छोगी रास रची पंचन जोरी ॥८॥
नेता करि प्रस्ताव दूर ते काम न कर वाते कोरी ॥९॥
आने राग रंगे सब कोई जाना की न धनी धोरी ॥१०॥

३४-धियेटीकल ।

आओ जो सब जन मिल करके हाँ भई दुख कर यह रीती ।
यत रुढ़ी मिटाय हाँ भई तोवा तोवा ॥ टेक ॥
बच्चों की क्यों करके शार्दी उम्र भर उनको रुला ।
क्यों मिटाये दैते हो दिल में जरा तो तर्स ला ॥
टडर जाओ फूल बिलने दो अभी तो अध खिला ।
क्या मिलेगा गर मसल कर दोगे मिट्टी में मिला ॥ १ ॥
बूढ़े खूमट खोखलों से छोटी बच्चा व्याइ कर ।
क्यों बढ़ाते बेचार्ये औ पाप दन्या बेच कर ॥

छोटे बच्चे की बहू को खुद तगड़ी देख कर ।
बड़ भाग अपने को समझने अब जरा तो शर्म कर ॥ २ ॥
मंले लुकने शादियों में औ मजाबट में कहीं ॥
शिवियों में भेषियों में अब लुटाओ धन नहीं ।
देश जाती धर्म पर आपत्तियां हैं आ रहीं ।
देखने हो क्या खड़े कुर्वाण क्यों होते नहीं ॥ ३ ॥

३६-जोगी आमावरी

जैन वीरों! कमर कसके आओ लाज जातीकी अबतो बचाओ ।
मेरी आशा भरोसा तुम्हीं हो, मेरे प्राणों के प्यारे तुम्हीं हो ।
अब तनिक भी न देरी लगाओ । लाज० ॥ १ ॥
फन्द में रूढ़ियों के पड़ी हूँ, बीच में दर्भियों के खड़ी हूँ ।
इनके फन्दे से हमको छुड़ाओ । लाज० ॥ २ ॥
फूट ड्राइन ने हमको सताया, मेरे लालों को हमसे छुड़ाया ।
सबको छाती से लाकर मिलाओ । लाज० ॥ ३ ॥
आठ आंसू न मुझको रुलाओ, दिलमें अब तो जरा तर्स लाओ ।
मेरे बेड़े को पार लगाओ । लाज० ॥ ४ ॥

४०-दादरा भैरवी ।

जाती पे झाई काली घटा ॥ टेक ॥
फूट के बादल रिम फिम बरसें—
द्वेष दादुर धुनि हृदय फटा । जाती० ॥ १ ॥

कीचड़ कलह कुमार्ग बनायो—

प्रेम सुपथ को दूर हटा । जाती० ॥ २ ॥

रूढ़िन की अधियारी छाई—

ज्ञान प्रकाश न दीखे छटा ॥ ३ ॥

४१—गजल ।

कहना सब कुछ ना करना कुछ इन नाम सुधारक वालों का ।

है जानि दुःख पर सहित सुःख ना काम करें पर नाम रहे ।

स्कीम बनाना काम रहा इन नाम सुधारक वालों का ॥१॥

बाहर स्पीचें धुवाँधाय घर में है पुराना कारवार ।

बाहर कहना भीतर डगना इन नाम सुधारक वालों का ॥२॥

कालिज की जरूर बताने हैं पर सेठों के मुँह को ताकते हैं ।

स्वारथ का त्याग नहीं करना है काम सुधारक वालों का ॥३॥

सब जैनों में गोट्टी बंटी आवश्यक बात नहीं हेटी ।

अगुआ बनने का काम नहीं इन नाम सुधारक वालों का ॥४॥

जो ही कहना सोई करना पर पीछे कदम नहीं धरना ।

घर में छिपकर बैठे रहना धिक्कार सुधारक वालों का ॥५॥

४२—रसियां ।

अब ये देखि दशा जानी की मोपै बैठ रहो ना जाय ॥टेका॥

भेषिन भेष बनाय रिभायो, पंडित ग्रंथ जाल फैलायो ।

चीतराग आदर्श मंदिरन धनिकन दिये सजाय ॥ १ ॥

रूढ़िन ही को धर्म बनायो, सत्य धर्म पहिचान न पायो ।

बनि के ठंकेदार धर्म को कोनिन दियो छिपाय ॥ २ ॥

अनपढ़ अबला जकड़ीं गहना, पर्दा कैरी माना बहना ।
तिनकी निर्बल मन्तति मुंह पे रही मुर्दनी छाय ॥ ३ ॥
बीस लाख के बारा रह गये, नाम तीन में तेरह हुई गये ।
बनीं हजारों जाति संगठन शर्ती सभी नमाय ॥ ४ ॥
जग में बहुविधि नाम धराओ, नामहि बोर कलक लगाओ ।
अब हैं चेत आंख के अन्धे बन्धे बचायो जाय ॥ ५ ॥

४३—गजल ।

अब होश तो समालो क्यों हा रहे दीवाना ॥ टंक ॥
लडुने हो भाई भाई रखते न दोस्ताना ।
अपने ही हाथों घर को क्यों कर रहे वीगना ॥ १ ॥
चलते हा क्यों न उसपर जिस पर चल जमाना ।
गर रुब न बदला आना मिट जाय कारखाना ॥ २ ॥
आपस की तफावत को अब जन्म ही दफनाना ।
मिल करके बैठो एक जाँ पे प्रेम का पैमाना ॥ ३ ॥

४४—दादरा ।

अवार मारे प्यारे जाती के संकट को टार ॥ टंक ॥
अज्ञान अविवेक अधियारी छाई—
कलह को भीषण बयार । बयार० ॥ १ ॥
रूढ़ी भंवर में फंसी अति भंफरी—
नैया पड़ी मंभधार । मंभधार० ॥ २ ॥
पाखंडी दंभी लुटेरों ने घेरा—
मारग न सूके अवार । अवार० ॥ ३ ॥

अब संगठन पतवार लगाओ—

ज्ञान मशाल उजार । उजार० ॥ ४ ॥

४५—दादरा ।

तजो यह मनमानी, मतमानी रे ॥ टेक ॥

साधु भेष को नहीं लजाओ, उन्नी चलाओ न रीति,
नहीं ये अनजानी । अनजानी रे ॥ १ ॥

पण्डित बनकर झूठ न बोलो, शास्त्रों को डालो न बीच,
नहीं हम अजानी । अजानी रे ॥ २ ॥

थैली भराकर कन्या न बेचो, बुड्डे से बांधो न खींच,
नहीं ये बे जानी । बे जानी रे ॥ ३ ॥

भाई को कबहूँ दूर न कीजो, राखी हृदय के बीच,
करो मत नादाना । नादाना रे ॥ ४ ॥

सत्य धरम गह रुढ़ी त्यागो, फेलाओ घर घर के बीच,
सुखद यह जिनवानी । जिनवानी रे ॥ ५ ॥

जाती जवानो कमर कसके अब, आजाओ मैदां के बीच,
रहे तब मदर्नी । मदर्नी रे ॥ ६ ॥

४६—थियेटीकल ।

मन मानी तेरी जाती रिवाजों ने मारा खराजों ने मारा,
में तो इनसे हूँ हैरान २ । हैरान, अनजान, परेशान ॥ टेक ॥

बच्चों की करके शादियां निरबल उन्हें बना दिया ।

बुड्डे के साथ व्याह कर बेघा उन्हें बना दिया ॥ १ ॥

मेला प्रतिष्ठा नाम पर धन को फिजूल खर्च कर ।
ढोंगियों ने लूट कर खाना खराब कर दिया ॥ २ ॥
बेचारी कन्या बेचकर बेजांड जोड़ा जोड़कर ।
अनजान और बेपढ़ी घर बालियों ने मिटा दिया ॥ ३ ॥

४७—दादरा ।

देखो आया है कैसा जमाना रे ॥ टंक ॥
भाई का भाई गला काटने हैं, देते ऊपर से आपस में ताना रे ।
देखो ॥ १ ॥
मर्दानगी है मर्दों ने खोई छिपने फिरते हैं जैसे जनाना रे ॥
देखो ॥ २ ॥
भाई को धक्के देकर निकालें, जैन जाती का पाप बढ़ाना रे ।
देखो ॥ ३ ॥
सधवा सासू बन टन बैठे, विधवा बहू का चक्की चलाना रे ।
देखो ॥ ४ ॥
अनजान अबला पर्दे में डाली, गुड़ियों जैसा है उनको सजाना रे
देखो ॥ ४ ॥
साधू भेषी बने अज्ञानों, काम करते हैं जो मनमाना रे ॥
देखो ॥ ५ ॥
हिम्मत हार जवान बने सब, गड्ढे गाँलों में कमर भुकाना रे ।
देखो ॥ ७ ॥

(२६)

४८—बागेश्री ।

सब दिन हांत न एक समान ॥ टेक ॥

तरु तल की छाया ज्यों प्रति दिन चलत रहत प्रतिमान ।
रही करोड़ों संख्या जिनकी रहि गये लाख प्रमान ॥ १ ॥
समंतभद्र वादीस केशरी भये अकलंक समान ।
साधू भेषी भये अज्ञानी भूठ कहत विद्वान ॥ २ ॥
शूर वीर निकलंक सरीखे न्यौछावर प्राण ।
कोनन छियत छिपाय धरम धन लुटत देखि निज शान ॥ ३ ॥
स्वारथ गत जाति हित नाशक प्रगट भये पञ्चान ।
हिम्मत बांध जनन करि अवहूँ हुइ हो फेरि महान ॥ ४ ॥

४९--दादरा ।

देखो लुटेरों की बनवाई । हां बनवाई २ । सब लूटा
समाज ॥ देखो ० ॥ टेक ॥

अज्ञानी साधू भेष बनावें लाखों हजारों की संरति लुटावें ।
सनमानी सेवाकरवाई । हां करवाई २ । कुछ सारा न काजा ।
नूतन अद्भुत ग्रन्थ बनावें, अपना गोवर पन्थ चलावें ।
रूढ़ी कुराती चलवाई । हां चलवाई २ । रग्गा पंडित का ताजा ।
मेला प्रतिष्ठा में खर्च करावें, धर्म की ओट में नाम कमावें ।
मरने पै ज्योनार करवाई । हां करवाई २ । ये कैसा रिवाज । ३ ।
कन्या को बेचके थै नो भरावें विधवा को घर की दासी बनावें ।
शिक्षा नहीं कुछ दिलवाई । हां दिलवाई २ । डूबा स्त्री समाजा ।

५०—गजल

कोई हंस रहा है कोई रो रहा है ॥ टेक ॥
बुढ़के से शादी हुई बालिका की, ये दिल हंस रहा है
वह दिल रो रहा है ॥१॥
पिता पारि थैली लड़की गंडापा, ये मन हंस रहा है
वह मन रो रहा है ॥२॥
पशुओं को लड़के विधवा को निर्धन, इधर हंस रहा है
उधर रो रहा है ॥३॥
सगे ने बिगाड़ी विधवा विचारी, ये घर गह रहा है
वो निकल जा रहा है ॥४॥
अष्टे पै चढ़ उमने कुल को लजाया, तो ये हंस रहा
और वो रो रहा है ॥५॥
बड़ों के हुये हैं प्रभू दीनयन्धू, बड़ा हंस रहा दीन
वो रो रहा है ॥ ६ ॥
भाई ने धक्के दे भाई निकाला, ये इक हंस रहा है
वो इक रो रहा है ॥७॥
निरोगी का औषधि नहीं रोगियों का, समझदारो !
ये जुल्म क्या हो रहा है ॥८॥
सभी का धरम धन छिपाये हुये हम, हमी हंस रहे हैं
जगत रो रहा है ॥९॥
दुनियां दुरङ्गी की हालात को देखो, समझ में न आता
ये क्या हो रहा है ॥१०॥

५१-कव्वाली

जाती हित करने वाले तुम को लाखों सलाम ॥८॥
बालापन में करके शादी, करते हैं उनकी बरबादी ।
कानून बनाने वाले तुम को लाखों सलाम ॥९॥
बुड्ढों के हैं व्याह खाने, अपनी धैली को भरघाते ।
उनको समझाने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१०॥
पर्दा करके कैद में डाला, और मुंह में लगाया ताला ।
अवला रक्षा करने वाले तुमको लाखों सलाम ॥११॥
विधवाओं को खूब सताने, जोराबारी शाल पलाने ।
अधिकार दिलाने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१२॥
आपस में हो रोटी बेटी, बात नहीं ये कुछ भी हेटी ।
हित मिल जाने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१३॥
हैं जो दूर हमारे भाई, बीच पड़ गई भेद की खाई ।
फिर आन मिलाने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१४॥
मंदिर का हैं खूब सजाने, वीतराग विज्ञान नसाने ।
अज्ञान बताने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१५॥
अज्ञानी हैं बने मुनि भेषी, परिडत जाती हित के द्वेषी ।
गोबर पंथ मिशाने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१६॥
नवयुवकोंमें आलसभारी, बुज दिल और हिम्मत हारी ।
साहस बल देने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१७॥
सबको हैं संदेश सुनाने, जिन शासन को हैं फैलाने ।
घर घर पहुंचाने वाले तुमको लाखों सलाम ॥१८॥

नवयुवकों के विषय में

५२—गजल

कौम पर कुर्बान हो मरने की कुछ परवा न कर ।
चोट जो दिल में तेरे औरों के पैदा दर्द कर ॥१॥
है रगों में जो तेरे जोशे जवानी का लह ।
कौम की आहों की आनिश से उमे अब गर्म कर ॥२॥
आँखों आगे हो रहा है जुलूम सारी कौम पर ।
ताकते बाजू दिखा और हिम्मतें मर्दाना कर ॥३॥
वेचार्थें बर्बाद हों अनजान में हों शादियाँ ।
भाई निकाले जाय घर से कुछ तो दिल में शर्म कर ॥४॥
गर रहा कायर बना मिट जायगा नामों निशाँ ।
वीर का भगड़ा उठा घर घर संदेशा वीर कर ॥५॥

५३—दादरा

पाँछे यागे कदम को हटाना नहीं ॥१॥
दुनियाँ में काम को करके दिग्वा—
बानों का सिर्फ बनाना नहीं ॥ १ ॥
आफत आवे कोई धूम मचा -
मर्द बनो ये जनाना नहीं ॥ २ ॥
जान जाय चाहे रह जा—
कोई किसी से डराना नहीं ॥ ३ ॥
घर घर जैन धरम पहुँचा—
कोई किसी का सताना नहीं ॥ ४ ॥

५४—गजल

नौजवानों के दिल में असर हो गया ॥ टेक ॥
कौम की देख हालात दिल हिल गये ।
ठेन जाती से दामे जिगर छिल गये ॥
संगठन मरहमे जख्म का हो गया ॥१॥
अब बिना संगठन जीना दुश्वार है ।
संगठन कौम का जीवनाधार है ।
भाव भाषा अशन भेष इक हो गया ॥२॥
वीर कायल सभी वीर जाती बने ।
धर्म पन्चार में सबके मारथी बने ।
दिल में पुग्ना सभी के यकी हो गया ॥३॥

५५—दादरा

मेरा मन मेरा मन मोह गया हो देखि जवान सुमेलवा ॥टेक॥
शूर वीर विद्वानों ने पाखण्ड किये सब धूल ।
सब जन सब जन मिट गये हो कायर कूर डरेलवा ॥१॥
अन्यायी और अन्याचारी रण में मारे हूल ।
सब जन सब जन छिप गयेहो मन डरपोक हरेलवा ॥२॥
मन मानी और खैचातानी आज गये सब भूल ।
सब जन सब जन लग गये हो सज्जन शूर गरलवा ॥३॥
उन्माही नवयुवक साहसी आज गये सब फूल ।
सब जन सब जन मिल गयेहो बन कर भ्रत घरेलवा ॥४॥

५६-गजल काफी ।

नौ जवानो कौम के इस ताल पर ।

क्यों तरस खाते नहीं इस चाल पर ॥१॥

छोटी छोटी बच्चियाँ की शादियाँ ।

हो रही अनजान में बरबादियाँ ॥२॥

बूढ़े खोसट पोपले बनते बना ।

वयो नहीं जाकर उन्हें करने मना ॥३॥

साधु बेपी परिदनों के फेर में ।

बर्बाद हो मिट जायगी कुछ देर में ॥४॥

रान बीनी हो गया अब तो सदर ।

कब तलक सोते रहोगे ये खबर ॥५॥

कस कसर का आदये मैदान में ।

देखा बट्टा लग न जाये शान में ॥६॥

कौम जब मुर्दा सभी हो जायगी ।

बान क्या फिर आप कर रह जायगी ॥७॥

५७-टुमरी दग्वारी ।

हम डटकर क्रांति मचइहैं ।

साहस से आगे पग धरिंके, पीछे नाहि हटइहैं ॥१॥

अत्याचार नाश के रण में, नय तलवार चलइहैं ॥२॥

सन्मुख सदा रहेंगे रण में, नार्हा पीठ दिखइहैं ॥३॥

पाखण्डी अभिमानी भेपी, सबको मारि भगइहैं ॥४॥

सत्य धरम हितकारि नीति की, विजय ध्वजा फहरइहैं ॥५॥

५८-गजल ।

अब तो सुधार करने का हमने इगदा कर लिया ।

सबको जगा के उठने का हमने इशारा कर दिया ॥१॥

बिछुड़े मिले हैं आनकर भाई को भाई जानकर ।

मिलके सबों को बैठने का ठिकाना कर दिया ॥२॥

बूढ़े और बच्चे व्याह कर सारा समाज नाशकर ।

कमजोर बुजदिले बना गारत जमाना कर दिया ॥३॥

अब तो जग लजाइये कसके कमर को आइये ।

मरने हुये बचाइये तुमको तबीब कर दिया ॥४॥

अब किसी से डरो नहीं पीछे कदम धरो नहीं ।

नाहक को बेवसी का ये भूटा वहाना कर दिया ॥५॥

५९-गजल ।

नौ जवानों आज क्या मासूम हालत हांगई ।

बुजदिले कमजोर हो काफूर ताकत हांगई ॥१॥

कौम पर हैं जुल्म हाते आंखों आगे देखने ।

जोश हिम्मत की सभी क्या कयामत हांगई ॥२॥

चश्मों पर चश्मा चढ़ा गालों में गड्डे पड़ गये ।

खुश्क लव पीला बदन शान गारत हांगई ॥३॥

बन्द कर आंखें चले नागिहानी राह पर ।

धूल क्या सब आपकी सारी लियाकत हांगई ॥४॥

बेवायें वेश्या बनीं भाई बिगाने हांगये ।

बेहया मिट्टी के पुतले तुम पै लानत हांगई ॥५॥

६०—गजल ।

खिदमते धर्म में जो जान फना करने हैं ।
जाम अमृत का वहीं मर्द पिया करने हैं ॥१॥
कदम पीछे न हटाने कभी शिदाये धरम ।
सब्रा सामान शुजायत से किया करने हैं ॥२॥
जान जाये मगर इक आन न जाने पाये ।
आन वालें तो आन पर ही मिटा करने हैं ॥३॥
काम मर्दों का है मैदान में आगे बढ़ना ।
हैं वो नामर्द जो कोने में छिपा करने हैं ॥४॥
पहुँच जाते हैं वहीं मजिलें मकमूद तलक ।
गिरने पड़ने भी जो आगे को बढ़ा करने हैं ॥५॥
नहीं वृथे धफा जिनमें प्रकाश वो इन्सा ।
कहो इन्साफ से क्या ग्याक जिया करने हैं ॥६॥

६१—गजल ।

नौ जवानों तुम कदम आगे बढ़ाना सीख लो ।
धर्म के मैदान में अब सर कटाना सीख लो ॥१॥
हाल अवतर हो रहा है कुछ नहीं तुमको खबर ।
होश में आओ जरा बिगड़ी बनाना सीख लो ॥२॥
बुजदिली दिल से निकालो साहिबे हिम्मत वनो ।
शौक से रंजो बला शिर पर उठाना सीख लो ॥३॥
ठहर सकता है नहीं कोई तुम्हारे सामने ।
जो कहीं तुम संगठन करना कराना सीख लो ॥४॥

मुफ्त खारों में उड़ाओ मत दगो दौलत कभी ।
कौम की खिदमत में मालो जर लुटाना सीख लो ॥५॥
छोड़कर अब बाहिमी नफरत करो आपस में प्रेम ।
जाति गङ्गा में सभी डुबकी लगाना सीख लो ॥६॥
चालबाजों के कभी दम में न आना चाहिये ।
इस कदावत को अमल में आप लाना सीख लो ॥७॥
नेकनामी गर जहां में चाहते हो तुम प्रकाश ।
हुव्हे कौमी की जिगर में चोट खाना सीख लो ॥८॥

६२—गजल ।

हमें जैन भण्डा उटाना पड़ेगा ।
घर घर में इसको घुमाना पड़ेगा ॥१॥
बहुत सो चुके ख्याब गफलत में अबतक ।
सोते हुआं को जगाना पड़ेगा ॥२॥
न समझें इसे धर्म अपना टकीकी ।
अजैनों को जैनी बनाना पड़ेगा ॥३॥
बतावें उन्हें जैन कहते हैं किसको ।
शास्त्रों को उनको दिखाना पड़ेगा ॥४॥
इसी जैन भण्डे को छाया में इक दिन ।
हजारों को अब तो बिठाना पड़ेगा ॥५॥
यहाँ प्रेम की आखिरी आरजू है ।
छिपा राज इसका बताना पड़ेगा ॥६॥

६३—दादरा ।

अब मर्दे मैदां में आजइयो जोशीले सुघड़ जवानो ।
जोशीले सुघड़ जवानो मर्दाने सुभट जवानो ॥ अब ॥ टेक ॥
जिस कौम ने पाला पोसा, कीना था बहुत भरोमा ।
मन उसको आज रलाजइयो जोशीले सुघड़ जवानो ॥१॥
नहि पीछे कदम हटाना, भगकर ना पीठ दिखाना ।
अब सब से आगे होजइयो जोशीले सुघड़ जवानो ॥२॥
कायर न कपूत कहाना, मत मां का दूध लजाना ।
कुछ करके काम दिखा जइयो जोशीले सुघड़ जवानो ॥३॥
नहि जाति कलंक लगाना, ना धर्म को नाम धराना ।
अब आन पै शान जमा जइयो जोशीले सुघड़ जवानो ॥४॥
पाखंडी दर्भी मानी, अन्याचारी मनमानी ।
अब सब को मार भगा जइयो जोशीले सुघड़ जवानो ॥५॥

६४—दादरा ।

मिहर्बां जवानो हमारी भी सुन लो ॥ टेक ॥
बहुत सो चुके ख्वाब गरुलन में अघनक,
अबतो जरा अगनी जाती की सुच लो ॥१॥
भूले हुये हो क्यों अपनी नाकन,
मैदां में दो हाथ तलवार करलो ॥२॥
पड़ी बेड़ियां पैर में रुढ़ियों की,
उन्हें तोड़कर कौम आजाद करलो ॥३॥

बिलुडे हुये हैं जो भाई तुम्हारे,
गले से लगाकर उन्हें प्यार करलो ॥४॥
करो संगठन एक माला के दाने,
जपो एकता मन्त्र जय सिद्ध करलो ॥५॥

६५—होली महाना ।

जो कोई मेरे सामने अटकें, अबरी में मैदां करूं डट डटकोटेक
ऐसी क्रांति करूं में चहुँदिश जो कायर मन निशादिन खटकें ।१॥
प्राण जाय पर प्रण नहिं छाड़ूं पग न धरूं में पीछे उलटकें ।२॥
जीवन में इक लक्ष्य बनाऊ देखूं नहिं में पीछे पलटकें ॥३॥
कैमो हू लालच या भय होवे मारग अन्न न जाऊँ हटकें ॥४॥

६६—बहार लंगड़ी ।

वीर वही चिनगारी हो तुम, छिपी जहां पर वह ज्वाला ।
दुखियों के कण्ठों को जिसने, भस्म कभी था कर डाला ॥१॥
धधक उठेगी अगर तुम्हारे, मन में छिपी हुई वह आग ।
उस अनीति कुलटा का सारा, जल जायेगा सदा सुहाग ॥२॥
राख समझकर उसके ऊपर, पथि को रगवना पेर नहीं ।
छिपी आग इसके भीतर है, धोका खाजाना ना कहीं ॥३॥
अंचल डूला डूलाकर जिसको, जला रही भारतमाता ।
भभक उठगी शीघ्र बनेगी, दान जनों की वह त्राता ॥४॥

६७—गजल ।

जवानो दुनियां में उपकार का कुछ काम कर जाना ॥ टेक ॥

हमेशा हो रहा ये ही कि जीना और मर जाना ।
अमर गर चाहते होना तो अपना नाम कर जाना ॥ १ ॥
हुये जिम कौम में पैदा कि जिमका खाना औ पीना ।
उसी पर धन बदन अपना सभी कुर्बान कर जाना ॥ २ ॥
धरम तरु पृथ्वी ने सत्य जल से खूब सींचा था ।
उसी को रुढ़ियों से आज मत बर्बाद कर जाना ॥ ३ ॥
हजारों लाखों ने जिम धर्म से मुक्ती का पाया था ।
छिपाकर सबको उससे आज मत महरूम कर जाना ॥ ४ ॥

६८—गजल ।

जवानों में मायूसी आने न पाये ॥ टेक ॥

हमेशा कदम का आगे बढ़ाओ ।
कभी कोई पीछे हटाने न पाये ॥ १ ॥
हो रहे जुलम कौमी सरासर सभी पर ।
कोई किसी का सताने न पाये ॥ २ ॥
कुरीनों को औ रुढ़ियों को मिटादो ।
नामो निशां उनका राने न पाये ॥ ३ ॥
धरम देश जाती की इज्जत बचाओ ।
कहीं पर कभी शान जाने न पाये ॥ ४ ॥
सदाबीर संदेश सबको सुनाओ ।
बकाया कोई काम जाने न पाये ॥ ५ ॥

स्त्री शिक्षा के विषय में ।

६६—चालगारी ।

बिन विद्या गुजर न हांय तुम्हारी अब बहना ॥ टेक ॥

नीके नीके कपड़ा पहिने नये नये सब गहना ।

बिन विद्या शोभा नहि देने भार पड़े हे सहना ॥ १ ॥

नथवेसर की नाथ बनाई हाथ हथकड़ी तोड़ा ।

कमर बंध करधनी पांज में बेड़ी चाँदी बोभा ॥ २ ॥

नाक कान को छेदि रखें पदे में कैदी जैसे ।

पग जूती समझे तुम हो अर्द्धअंगनी कैसे ॥ ३ ॥

पर्दा फाड़ा गहना छांड़ा धीर लक्ष्मी जैसी ।

बिद्या पढ़के बनो सरस्वती ब्राह्मी सुन्दरी कैसी ॥ ४ ॥

तीर्थङ्कर से चक्रवर्ति से पुत्रन की हो माता ।

दुबले पतले रोगी ज्याये होआ से भय खाता ॥ ५ ॥

७०—दादरा ।

अय बहनो तुम्हारी कोई सुनेना ॥ टेक ॥

अपढ़ तुमको रक्खा पदे में डाला—

मानव समझकर आदर करें ना ॥ १ ॥

बचपन में छोटों से बुढ़ों से व्याहें—

थैली भरे तुमको राजी करें ना ॥ २ ॥

सजाये जैसे गुड़ियाँ करें मन सुखियां—

रक्षा का कोई साधन करें ना ॥ ३ ॥

मैशीन लड़के बनाने की समझें—

शिक्षित बनाने की चिन्ता करें ना ॥ ४ ॥

सभी अपने पैरों खड़ो क्यों न होवें—

बने वीर मा भोग्य वस्तु बने ना ॥ ५ ॥

७१—चालगारी ।

हितकर रीति सुरीति बढ़ाओ खाटी रीति नसाय के हांजी ।
पहले हित अनिहित पहिचानो विद्या बुद्धि बढ़ायके हांजी ॥
पंगुबनी क्यों पांव में वेड़ी चांदी सरन डारि के हांजी ।
कैदी बनी क्यों झान न बाहर या पर्दा को फागि के हांजी ॥
बूढ़े के संग निज कन्या व्याहें थैली लेत भगय के हांजी ।
छोटे सों व्याहि बड़ी हर्षावत निज बडभाग बतायके हांजी ॥
व्याह में स्वीटन गारी गावें सम्मुख नाहि लजावत हां जी ।
रुद्धिन की अब काटि के वेड़ी क्यों पग नाहि बढ़ावत हांजी ॥

७२—दादग ।

मैं सघका मुधाग कर दूंगी ॥ टेक ॥

बचपन में व्याहें निर्बल बनायें—

बुद्धे से करके शादी मैं थैली भगने न दूंगी ॥ १ ॥

विधवाओं को बिगाड़ें लुटावें—

आठ आँसू रोवें तिचारी मैं उनको सताने ना दूंगी ॥ २ ॥

बहिनो को शिक्षित बनाऊं पढ़ाऊं—

आजाद कर फाड़ पर्दा मैं कैदी बनाने ना दूंगी ॥ ३ ॥

७३—दादरा ।

ये ही दुश्मन बने हैं हमारे आधे अंग कड़ाने वाले ॥ टेक ॥
बाप ने बुढ़े स काना सगाई, पांच हजारकी थैली भराई ।
साखी पञ्च ह खाने वाले ॥ १ ॥
छोटे सं भाई बहने व्याता, मानके मनखत खुशियां मनाई ।
उन्हें जीमें के पड़ गये लाले ॥ २ ॥
हमको बनाया अनपढ़ अबला, कंदा बनाया पर्दे में डाला ।
आप बने हैं रखवाले ॥ ३ ॥
चुन चुन के सब पोथी बनाई, मनलब पगधीन रखना ही ।
मुंह में लगा दिये ताले ॥ ४ ॥
हम को मानुष भी न समझें, अपने पग की जूती समझें ।
कैसे हैं न्याय निगले ॥ ५ ॥
हमको बनाना चाहते सीता, राम गुणों से आप हैं रीता ।
ये ही दुःख के नाले ॥ ६ ॥

७४—दादरा ।

अप बहिनो जमाना कैसा आया री ॥ टेक ॥
जन्म सुनत ही घर बालों को रोना आया री ॥ १ ॥
छोटे बड़ों से व्याहके ज्यों त्यों गाना गाया री ॥ २ ॥
अनपढ़ अरु अबला रखना ही मन भाया री ॥ ३ ॥
अपने पैरों आप बड़ी हों मौका आया री ॥ ४ ॥

७५-दादरा

केसे समाज के पाने पड़ी हूँ देखे न कोई दरदवा हायराम । टेका
वारी उमर में बूढ़े से क्याही मेरा ज रावें जिपरवा हायराम । १।
बेसी उमर में छोटे से क्याहें मनमें न लावें तरसवा हायराम । २।
कन्या बेच के थैली भरावें आप उडावें कहरवा हायराम । ३।
बिधवा बनी तो घर के सनावें कोई न पूछे खबरवा हायराम । ४।
पदों में डालें कैदी बनावें आप बने हैं पहरवा हायराम । ५।
शाख पुराण रचे स्वाग्रथके मतलबका यार भरदवा हायराम । ६।

विधवाओं की दुर्दशा के विषय में—

७६-दादरा

[एक विधवा की आत्मकथा]

इन्हीं लोगों ने काना है सफाया मेरा ॥ टेका ॥
थैली भराकर बुढ़े को व्याही
एक एक हजार का आंख बनाया मेरा ॥ १ ॥
बेचने खातिर पाली है बर्षों
सोलह में सोलह हजार गिनाया मेरा ॥ २ ॥
इन पंखों को शर्म न आई
डटकर लड्डू कचौड़ी उहाया मेरा ॥ ३ ॥
कुछ दिन में पति स्वर्ग सिधारं
मस्तक का सिद्धर मिटाया मेरा ॥ ४ ॥

(४२)

बचा बचाया नुकते में खाया

निर्धन और कंगाल बनाया मेरा ॥५॥

फिर मेरी कोई बात न पूछे

घर ही के लोगों ने सताया मेरा ॥६॥

घर वालों से ही गर्भ रहा जब

नाक की खातिर गर्भ गिराया मेरा ॥७॥

घर से निकाली दर दर घूमो

आखिर का रडो के घर में बसाया मेरा ॥८॥

सत्यानाश पेसा पंचों का होवे

जैसा कि सत्यानाश कराया मेरा ॥ ९ ॥

७७-कलांगड़ा

(एक बिधवा की दर्दनाक पुकार)

इन पंचों ने मुझको लूटारे ॥ टुक ॥

बाप ने मुझको बूढ़े को बेची पंचों ने किया अंगूठा रे ॥१॥

माल उड़ाये नहि शर्मिये लडू कचोड़ी समूसा रे ॥२॥

इनको अपनी पड़ी नुकते की मेरा भाग तो फूटा रे ॥३॥

गर्भ रहा जब गर्भ गिराया लखते जिगर भी छूटा रे ॥४॥

जाती में मेरे यार को रक्खा जो दुनियां का भूँटा रे ॥५॥

मुझे निकाली बात न पूछी कैसा न्याय अनूठा रे ॥६॥

जाति हितैषी अब तो बचाओ मेरा जहाज तो टूटा रे ॥७॥

तुमरे भागन में बच सकती मेरा करम तो फूटा रे ॥८॥

७८-ठुमरी

[बाल विधवा की वर्धनाक पुकार]

मेरी बाली सी उमर दुख दे गयो री ॥१॥
मैं नहीं जानी करी मनमानी लोग कहत सुख लुट गयोरी ।१।
मैं जानी कल्लु खेल खिलानी घांके में हाथ बिलुड़ गयोरी ।२।
मैंहदी महावर मांग न कूटी तोही लौ हाथ कुड़ाय गयोरी ।३।

७९-गजल

तुम्हीं ने दर्द दिया है तुम्हीं दवा देना ।
हमारे नाम के पदों से मत मिटा देना ॥१॥
व्याह कर बुद्धे से बेवा बनाया मुझको ।
दाग इस पाकये दामन में मत लगा देना ॥२॥
जाति और धर्म की खिदमत करूंगी मैं हरदम
दोंगियोंकी बुरी नजरोंसे अब यन्ना लेना ॥३॥
घर से फाजिल लमभ बाहर न फेंकना मुझको
जाति की आवरु न खाक में मिला देना ॥४॥
हम भी इन्सान हैं होता है तन में दर्द जिगर ।
पापिनी कहके नही दर्द को बढ़ा देना ॥५॥

बाल विवाह के विषय में

८०-गजल

न छेड़ो हमें हम सलाये हुये हैं ।
बहुत सारे सदमे उठाये हुये हैं ॥१॥

अनजान बचपन में शादी हुई ।

हथकड़ी पैर बेड़ी लगाये हुये हैं ॥२॥

कमर दर्द घुटना दिमाग भी खाली ।

आंखों पे चश्मा चढ़ाये हुये हैं ॥३॥

बस इतने में ही आंके बच्चों ने घेरा ।

कॉल्ड के चक्कर में आये हुये हैं ॥४॥

गुलामी से फुर्सत नहीं नौकरी से ।

आफिस कलम को उठाये हुये हैं ॥५॥

ये कमजोर बच्चे नहीं रहने अच्छे ।

दवाओं की शीशी मंगाये हुये हैं ॥६॥

अध चन्दे वालो कहाँ से दें पैसा ।

टानिक की वो पी लुढ़ाये हुये हैं ॥७॥

धरम-देश-जाती की हो ही न पानी ।

जोरू की खिदमत में आये हुये हैं ॥८॥

बृद्ध विवाह के विषय में

८१-गजल

ये देखो शान की महफिल बड़े सरकार बैठे हैं ।

बुढ़ापे की अदाये क्या बना सरकार बैठे हैं ॥१॥

कमर टेढ़ी झुकी गर्दन पोपले खाल झुली है ।

ये कमती देखना सुनना मुड़ाये मूँछ बैठे हैं ॥२॥

ये पगड़ी जामा पाजामा रुखों पर फूल का शहरा ।

खिजाबी बाल हैं मुँह पान सुर्मा डाल बैठे हैं ॥ ३ ॥
उमर पचपन में स्वाहिश है इन्हें नई दुलहिन की ।
ये नाती पोते वाली जोरू पहले मार बैठे हैं ॥ ४ ॥
पड़ाँसो खुश काई जाने नही दुख दर्द दुलहिन का ।
उस बेवा बना के मरने के तैयार बैठे हैं ॥ ५ ॥

मृत्यु भोज के विषय में

८२-दादरा ।

छोड़ें मरने का भोज कराना रे ॥ टेक ॥

घर में विचारी विधवा गोवे, आँ लोंगों का खाना खाना रे ।१।
घर के कुटुम्बी रोवन लागे, नव लोंगों का कौर उठाना रे ।२।
घर के निर्धन होके दुखी हो, परपञ्चों को लडू खिलाना रे ।३।
जिह्वा का मिष्टान्न लालच लागे, हे शुद्धी बनाना बहाना रे ।४।
दानमें दाखिल काई बनावे, क्या वाजिव है दानका खाना रे ।५।
ठीक खुशी में भोज कराना, यह कैसा है शाक में खाना रे ।६।
काई गोवे काई खावे, यह कैसा है दृश्य भयाना रे ।७।

[जनता का स्वार्थी परिहर्तों के प्रति]

८३-गज़ल ।

रास्ता हम खुद ही भूलें दृये अब आँखों में भोंको धूल नहीं ।
काँटों में हमको फंसाओ नहीं जो पास तुम्हारे फूल नहीं ।१।
पहले ही ऊबड़ खाबड़ है कीचड़ कहीं दलदल मारग है ।
उसमें अब खन्दक खोदो नहीं गाड़ी में हमारे चूल नहीं ।२।

(४६)

यह टूटी पुरानी नैथ्या है औ नार्हीं कोई खिचैय्या है ।
अब इसको भंवरमें फंसाओ नर्हीं किशनीमें मेरी मस्तूल नर्हीं । ३।
हम जान गये किस ओर हो तुम मतलब के यार बने हो तुम ।
हुआ सा हुआ अब कहना क्या आगे से होगी भूल नर्हीं । ४।
(सुधारक की स्थित पालक के प्रति)

८४-गज़ल ।

अब आज नर्हीं तो कल ही सही तुम हमसे मिलोगे कभीन कभी ।
सचबान कर्हीं छिपसकती नर्हीं तुम खुदही कहोगे कभीन कभी ।
वहकाये हुये हो औरों के सच बान को सुनने तक भी नर्हीं ।
नफरत न करो सचबात सुना सचको पाओगे कभी न कभी । २।
जो मतलब के हैं यार तुम्हें हमसे मिलने तक देते नर्हीं ।
लेकिन सतप्रेम कशिशासे घर मेरे आओगे कभी न कभी ॥ ३।
हम दोस्त तुम्हारे सच्चे हैं मतलब के नर्हीं ना कच्चे हैं ।
हम चाहते तुमको दिलसे हैं लग जाओगे दिलसे कभी न कभी

उपदेशी गायन ।

८५-दादरा ।

मनवाला मन भोली मूरत का ॥ ठेक ॥
पढ़न सुनन तू ने जन्म गंवायो—
ध्यान कियो न निज मूरत का ॥ १ ॥
धन जोड़ो नन ग्बूष सजायो—
काम किया न जरूरत का ॥ २ ॥

बालकपन हू युवापन खोयां—

वृद्ध भये अब दूढ़त का ॥ ३ ॥

हित अनहित कलु नाहि पिछानो—

अन्ध भये अब सूभत का ॥ ४ ॥

सब तज आनम ध्यान लगाओ—

ये ही सहाग डूबत का ॥ ५ ॥

८६—दादरा कलाङ्गड़ा ।

आँखें खोल देख भाई ॥ टेक ॥

हुआ प्रभात नसो मिथ्यातम मागग देत सुभाई ॥ १ ॥

सत्य धर्म परकाश भयो अब मूढ़ उलूक नसाई ॥ २ ॥

सभी युवक मिलि रुद्धिदुर्ग पर इकदम करी चढाई ॥ ३ ॥

मुनि भेषी अरु गोचर पन्थी सबका देत भगाई ॥ ४ ॥

भूल पन्थ मिले सब आकर मानव भाई भाई ॥ ५ ॥

सभी सुधारक जाति हितैषी युवक पुकार मचाई ॥ ६ ॥

८७—गजल ।

लेकर आये ना लेके चलें जैसे आये वैसे ही चलें ॥ टेक ॥

ना भगवान का भजन किया ना कुछ हाथों से दान दिया ।

खाली हाथों आये औ चलें जैसे आये वैसे ही चलें ॥ १ ॥

ना दुनियां में नाम किया ना पर उपकार का काम किया ।

आँखें मूढ़े आप औ चलें जैसे आप वैसे ही चलें ॥ २ ॥

बालकपन में खेले कूदे तरुण्य में तरुणी चलें ।

वृद्धापन में दुख ही भलें जैसे आये वैसे ही चलें ॥ ३ ॥

८८-गज़ल ।

ना धर्म किया ना कर्म किया ना दीन के ना दुनियां के रहे ।
ना आत्म हित ना जाती हित न इधर के रहे न उधर के रहे ।
ना बिन स्वार्थ के काम किया परिणाम को पहले देख लिया ।
हिन धर्म खर्च कर नाम किया न इधर के रहे न उधर के रहे ।
कहला के सुधारक बाबू हुये प्रस्तावों को पास कराने गये ।
असली कोई काम न उनसे हुये न इधर के रहे न उधर के रहे ॥
अनेक उपाधिन से मण्डित ये शास्त्र शिरोमणि जी पण्डित ।
सांची कहते डरते ही रहे न इधर के रहे न उधर के रहे ॥
संसार को छोड़ विरागी बने मुनि भेष लिया औ त्यागी बने ।
दुनियां दारी में फंसे ही रहे न इधर के रहे न उधर के रहे ॥

८९-गज़ल ।

(अनासक्त योग-निःकांक्षित अंग)

बिन मतलबके सब काम करा हावेगा असर भी कहीं न कहीं ।
फलके उपर मत ख्यालकरो निकलेगा फल भी कहीं न कहीं ॥
मायूस न हो अपने मन में अब जोशे जुनूँ से काम करा ।
गिरते पड़ते चलने ही चला चुक जायगा रस्ता कहीं न कहीं ॥
महाबीर की बाणी बादल को बरसाओ बराबर सभी जगह ।
खेती न सही तो प्यास बुझा निकलेगा अंकुर कहीं न कहीं ।
यह वीर सन्देश की दिव्य ध्वनि चहुँओर पुकार पुकार कही ।
अनहद न सही शत्रुनाईसही कुछ सुनतो पड़ेगा कहीं न कहीं ॥

६०—गजल

अपने अहमोल तो खुद हमसे सम्हाले न गये ।
उनसे कहने लगे क्या तुमसे सम्हाले न गये ॥१॥
नसीहत दूसरों को अपनी फर्जीहत क्यों कर ।
आज तक ऐसे लाखों दुनियां में माने न गये ॥२॥
काम बातों से सिर्फ बनता नहीं है कुछ भी ।
काम करना है तो कुछ करके दिखा क्यों न गये ॥३॥
सामने सबके डोंग मारते फिरते बढ़कर ।
घर में द्विप बैठे हो मैदान में बढ़ के क्यों न गये ॥४॥

०१—दादरा

सुनो मेरे भैया बात यह नीकी ॥टेक॥

रागी द्वेषो देव न पूजा, करा मेरे भैया पूजा जिन जी की ॥१॥
साँचे साधु की सेवा कीजे, सुनो मत भैया बात भेषी की ।२।
अमृतमय जिन वानी सुनिये, सुनो मेरे भैया और सब फीकी ।३।
दीन दुखी की सेवा करिये रखो मेरे भैया चाह यह जी की ॥४॥
मीठे बचन सदा ही कहिये, हुई है भैया बड़ाई उसीकी ॥५॥
सदा भलाई सबकी करिये, करा मत भैया बुराई किस्मी की ।६।
जाती धरम की सेवा कीजे, रहि है भैया निसानी उसी की ।७।
सब मिल एक संगठन कीजे हुई है भैया भलाई, सभी की ॥८॥

०२—कब्बाली

हितकारी वीर का ये सुन लो कलाम ॥ टेक ॥
सभी जन बराबर न छोटा बड़ा, यही इलहाम ॥१॥

नहीं हक धरम पर किसी एक का, सभी का है धाम ॥१॥
प्रभू दीन बन्धू पतिन पावन, धनी का नाम काम ॥३॥
बिना स्वार्थ उपकार सेवा करो, लो मुक्ती इनाम ॥४॥

६३—गजल मोहनी ।

जुलम भी होता रहे हांती रहे फर्याद भी ॥ टक ॥
दश बरस की बालिका संग व्याहे चालिस वर्ष का ।
इसके खिलाफत में करें सारी सभा प्रस्त र शो ॥१॥
बेवाओं को जो बिगाड़ें जानि में रह मौज से ।
घर से निकालीं जाय वह हांती हुई बर्बाद भी ॥२॥
भाई कभी अनजान में कुछ दांप से बाहर हुये ।
तड़फते हैं मिलने को करने नहीं हम याद शो ॥३॥
दीनबन्धू पतिन पावन प्रभू धनिकों के हुये ।
करने रहे उदार की अर्जी सदा सब दीन भी ॥४॥
रुद्धियों के दाम अन्याचार युवकों पर करें ।
क्रान्ति के नारे लगाने युवक इसके बाद भी ॥ ॥

बधाई गायन ।

९४—बधाई

तेरे बाजन को दिन आज मधुरला बाजे मधुर सु शवनो ॥६॥

अरे हां रे मधुरला सत्य धरम परचार भयो—
आइम्बर को त्याग ॥ मधुरला ॥१॥

अरे हां रे मधुरला समझो परब धरम दशधा-
नाहिं रह्यो त्यौहार ॥ मधुरला० ॥ २ ॥
अरे हां रे मधुरला बिना सजावट राखे ही-
जिन मन्दिर सुखकार ॥ मधुरला० ॥ ३ ॥
अरे हां रे मधुरला बस्त्र आमृषण समुचित ही-
पहने सब नर नार ॥ मधुरला ॥ ४ ॥
अरे हां रे मधुरला नाहिं किये शृंगार बने-
पूजक संयम धार ॥ मधुरला० ॥ ५ ॥
अरे हां रे मधुरला जैन धरम की महिमा-
गावें सब नर नार ॥ मधुरला० ॥ ६ ॥

६५-बधाई

बजन बधाइयां हो श्रम घर मंगलचार ।
आये नर नारियां हो सत्य धरम के द्वार ॥ टेक ॥
आज हुआ संगठन हमारा । वाह २ जा वाह २ ।
मिल बैठे सब भाई चारा ॥ वाह०
मिला हृदय से हृदय हमारा ॥ वाह०
भाव भेष भाषा इकभारा ॥ वाह०
बजन बधाइयां हो घर० ॥ १ ॥
सत्य धरम परचार करें हम । वाह०
आडम्बर को दूर करें हम ॥ वाह०
हटें न पीछे पग भर भी हम ॥ वाह०

संकट से ना कभी डरे हम ॥ वाह०
बजत बधाइयां हां घर० ॥ २ ॥
जैन धर्म जग में फैलावें ॥ वाह०
सबको शुभ सन्देश सुनावें ॥ वाह०
सेवा से सुख शान्ति बढ़ावें ॥ वाह०
सब मिल आनन्द मंगल गावें ॥ वाह०
बजत बधाइयां हां घर० ॥ ३ ॥

६६—बधाई

मेरे बाबा पारसनाथ बाबा हमहूँ तुम ढिंग आवत हैं ॥टेका॥
अरे हां रे रे बाबा खेल खिलौना संसारी,
रीझे या ही मांहिं ॥ बाबा ॥ १ ॥
अरे हां रे रे बाबा मगन रहे हम याही में,
छोड़ो तुम संसार ॥ बाबा ॥ २ ॥
अरे हां रे रे बाबा ऊँचे जाय विराजे हो,
हम हीं रहे मझदार ॥ बाबा ॥ ३ ॥
अरे हां रे रे बाबा हम तुममें कछु भेद नहीं,
भूल गये हम राह ॥बाबा० ॥ ४ ॥
अरे हां रे रे बाबा तुम बाबा हम बालक हैं,
दूँद लई अब राह ॥ बाबा ॥ ५ ॥
अरे हां रे रे बाबा तुमरो ही अब पन्थ गहो,
पहुँचेंगे तुम पास ॥ बाबा ॥ ६ ॥

प्रभात फेरी गायन ।

६७-गजल ।

उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जा सोवत है ।
जो जागत है सो पावत है जा सोवत है सो खोवत है ॥१॥
टुक नीदसे अखियां खोल जरा औ अपने रबसे ध्यान लगा ।
यह प्रीति करन की रीति नहीं रव जागत है तू सोवत है ॥३॥
जो कल करना है अज करले जो अज करना है अब करले ।
जब चिड़ियोंने चुग खेत लिया फिर पछताये क्या होवतहै ॥४॥

६८-गजल ।

हम तो साते हुआं के जग जायंगे ॥१॥
रुद्धियों का अधेरा अभी हो रहा ।
धरम सत्य परकाश कर जायंगे ॥१॥
मंदिरों की सजावट गिरावट हुई ।
ज्ञान मय बीतरागी बना जायंगे ॥२॥
पण्डितों साधुओं ने है बहका दिया ।
उन्हें खींच कर राह पर लायंगे ॥३॥
नेलों ठेलों से होती न परभावना ।
बीर प्राणी के घर २ सुना जायंगे ॥४॥
फूट आपस से बर्बाद खुद हो रहे ।
एकता राग सब को सुना जायंगे ॥५॥

कुरीतों ने बर्बाद हमका किया ।
सुरीतों का परचार कर जायेंगे ॥६॥
माई जो दूर हम से हमारे हुये ।
उन्हें अब गले से लगा जायेंगे ॥७॥
ना जवानों की मायूसी कम हिम्मती ।
ना उमेदी को जड़ से मिटा जायेंगे ॥८॥
आह बेबाओं से जलना कौमी वनन ।
सुधारों का पानी छिड़क जायेंगे ॥९॥
दूसरों के भरोसे गुलामी हुई ।
खड़े अपने पैरों पै हो जायेंगे ॥१०॥

६६-गजल ।

खोल कर आंख देखो सुबह होगया ॥१॥
भगा मिथ्या तम मार्ग दिखला गया ।
धरम सत्य परकाश अब होगया ॥२॥
जवानों ने मिलकर यही तय किया ।
सुधारों का अब तो समय होगया ॥३॥
भूलें भटके हमारे ही माई हैं जो ।
बुलाने का उनको फिर होगया ॥४॥
उठो जागकर कस कमर हो खड़े ।
धावा रूढ़ी किले पर अभी हो गया ॥५॥

(५५)

१००-गजल ।

धरम जैन परचार कर जायेंगे ।
नोंद भालस से चैतन्य कर जायेंगे ॥८॥
भूलकर आपको छटपटाते हैं जो ।
जैन बागी का अमृत पिला जायेंगे ॥९॥
राग द्वेषों की अग्नी सं जो जल रहे ।
उनको समभाव जल घट में भर जायेंगे ॥१०॥
जीना मरना तो दुनियां में हो ही रहा ।
कौमी खिद्रमत भी थोड़ी सी कर जायेंगे ॥११॥
धरम देश जाती की सेवा न की ।
तो यूँ ही एक दिन हम भी मर जायेंगे ॥१२॥
धरम जाति की सेवा करते हैं जो ।
अमर नाम अपना बो कर जायेंगे ॥१३॥
शान्ति मन्देश सबको सुनाते हैं जो ।
खुद भी संसार सागर से तर जायेंगे ॥१४॥
लोभ यश स्वार्थ से हम न ललचायेंगे ।
किसी दुनियां के भय से न डर जायेंगे ॥१५॥

१०१ मुबारक वादी (गजल कब्बाली)

ये उत्सव तुमको करवाना, मुबारिक ही मुबारिक हो ।
धर्म बीरों का बुलवाना, मुबारिक ही मुबारिक हो ॥१॥

हुई जिन धर्म की महिमा, बजा उपदेश का डंका ।
फिसलकर पांच जमजाना, मुबारिक हो मुबारिक हो ॥२॥
किया अज्ञान का खण्डन, हुआ जिन धर्म का मण्डन ।
जैन का भण्डा लहराना मुबारिक हो मुबारिक हो ॥३॥
हुये गुमराह हैं भाई, कुमति के फन्दे में पड़ कर ।
उन्हें जिन धर्म पर लाना, मुबारिक हो मुबारिक हो ॥४॥
सभार्ये सब जगह होवें, धरम परचर निशदिन हो ।
करें फिर जलसे सालाना, मुबारिक हो मुबारिक हो ॥५॥
कमाई अपनी को भाई, लगावें अच्छे कामों में ।
उन्हीं का जैनी कहलाना, मुबारिक हो मुबारिक हो ॥६॥
कमर कस २ के डट जाओ, दिखादों काम को करके ।
धरम ज्योती का फैलाना, मुबारिक हो मुबारिक हो ॥७॥

(इति श्री)

